

# गणित

( दसवीं कक्षा के लिए )



1063

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ  
ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਬੋਰ্ড  
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਹ ਨਗਰ

## प्राक्कथन

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पाठ्य-पुस्तकों के संशोधन और तैयार करने के कार्य में निरन्तर प्रयत्नशील है। आधुनिक युग में, विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना अभिभावक और अध्यापकों का साँझा उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व और शैक्षिक आवश्यकताओं को समझते हुए गणित के पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2005) के आधार पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं।

स्कूल पाठ्यचर्चा में गणित विषय का महत्वपूर्ण योगदान है और आवश्यक शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए अच्छी पाठ्य-पुस्तक का होना प्राथमिकता है। अतः इस पाठ्य-पुस्तक में विषय सामग्री इस प्रकार व्यवस्थित की गई है जिससे विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता विकसित होने के साथ-साथ विषय को समझने की योग्यता में बढ़ोत्तरी होगी। अभ्यास प्रश्न विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार तैयार किये गये हैं। यह पाठ्य-पुस्तक एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा दसवीं कक्षा के लिए तैयार की गई और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एन. सी. ई. आर. टी. से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रकाशित की गई है।

पाठ्य-पुस्तक को विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। फिर भी, पुस्तक को और अधिक अच्छा बनाने के लिए क्षेत्र से आये बढ़िया सुझाव आदर सहित स्वीकार किये जायेंगे।

### चेयरमैन

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

‘समाजिक निआं, अधिकारता अडे घੱट गिणउੰਡੀ ਵਿਭਾਗ’, ਪੰਜਾਬ

## **NCERT की पाठ्यपुस्तक विकास समिति**

**विज्ञान एवं गणित के सलाहकार समूह के अध्यक्ष**

जयंत विष्णु नारलीकर, इमरिटिस प्रोफेसर, अध्यक्ष, आई.यू.सी.ए.ए., गणेशखिंड, पूना विश्वविद्यालय,  
पुणे

**मुख्य सलाहकार**

पी. सिंक्लेयर, प्रोफेसर, विज्ञान विद्यापीठ, इ.गाँ.रा.मु.वि., नयी दिल्ली

जी.पी. दीक्षित, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) गणित और खगोलिकी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ

**मुख्य समन्वयक**

हुकुम सिंह, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

**सदस्य**

अंजली लाल, पी.जी.टी. (गणित) डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल सेक्टर-14, गुडगाँव

आशुतोष के. वझलवार, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

बी. एस. उपाध्याय, प्रोफेसर, आर. आई. ई. मैसूर

जयंती दत्ता पी.जी.टी., सलवान पब्लिक स्कूल, गुडगाँव

महेन्द्र शंकर, लेक्चरर (एस.जी.) (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

मनिक अग्रवाल, ग्रीन पार्क, नयी दिल्ली

एन. डी. शुक्ला, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

राम अवतार, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) एवं परामर्शदाता, डी.ई.एस.एम. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

रामा बालाजी, टी.जी.टी. (गणित), के.वी. मेंग एंड सेंटर, सेंट जानस रोड, बंगलौर

शशिधर जगदीशन, शिक्षक और सदस्य, गवर्निंग काउंसिल, सेंटर फॉर लर्निंग, बंगलौर

एस. के.सिंह गौतम, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

वंदिता कालरा, लेक्चरर, सर्वोदय कन्या विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट सेंटर विकासपुरी, दिल्ली

वी.ए. सुजाता, टी.जी.टी., केन्द्रीय विद्यालय न. 1, वास्को, गोआ

वी. माधवी. टी.जी.टी., संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली

### **सदस्य-समन्वयक**

आर.पी. मौर्य, एसोशिएट प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली  
**हिंदी रूपांतरकर्ता**

जी.पी. दीक्षित, प्रोफेसर, (सेवानिवृत्त) गणित और खगोलिकी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ

महेन्द्र शंकर, लेक्चरर (एस.जी.) (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली  
एच.पी. सिन्हा, C-210 राजाजीपुरम, लखनऊ

वी. पी. सिंह, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

### **हिंदी-समन्वयक**

सुरेश कुमार सिंह गौतम, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

# विषय सूची

आमुख	(iii)
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	(v)
प्रस्तावना	(vii)
<b>1. वास्तविक संख्याएँ</b>	<b>1</b>
1.1 भूमिका	1
1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय	2
1.3 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण	7
1.4 सारांश	11
<b>2. बहुपद</b>	<b>13</b>
2.1 भूमिका	13
2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ	15
2.3 किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध	21
2.4 सारांश	26
<b>3. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म</b>	<b>28</b>
3.1 भूमिका	28
3.2 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल	29
3.3 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि	34
3.3.1 प्रतिस्थापन विधि	35
3.3.2 विलोपन विधि	39
3.4 सारांश	42
<b>4. द्विघात समीकरण</b>	<b>44</b>
4.1 भूमिका	44
4.2 द्विघात समीकरण	45
4.3 गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल	48

4.4 मूलों की प्रकृति	51
4.5 सारांश	54
<b>5. समांतर श्रेढ़ियाँ</b>	<b>56</b>
5.1 भूमिका	56
5.2 समांतर श्रेढ़ियाँ	58
5.3 A.P. का nवाँ पद	64
5.4 A.P. के प्रथम n पदों का योग	72
5.5 सारांश	82
<b>6. त्रिभुज</b>	<b>84</b>
6.1 भूमिका	84
6.2 समरूप आकृतियाँ	85
6.3 त्रिभुजों की समरूपता	90
6.4 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ	97
6.5 सारांश	109
<b>7. निर्देशांक ज्यामिति</b>	<b>111</b>
7.1 भूमिका	111
7.2 दूरी सूत्र	112
7.3 विभाजन सूत्र	119
7.4 सारांश	126
<b>8. त्रिकोणमिति का परिचय</b>	<b>127</b>
8.1 भूमिका	127
8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात	129
8.3 कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात	137
8.4 त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ	143
8.5 सारांश	148

<b>9.</b>	<b>त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग</b>	<b>150</b>
9.1	ऊँचाइयाँ और दूरियाँ	150
9.2	सारांश	160
<b>10.</b>	<b>वृत्त</b>	<b>161</b>
10.1	भूमिका	161
10.2	वृत्त की स्पर्श रेखा	162
10.3	एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या	165
10.4	सारांश	170
<b>11.</b>	<b>वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल</b>	<b>171</b>
11.1	त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल	171
11.2	सारांश	177
<b>12.</b>	<b>पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन</b>	<b>178</b>
12.1	भूमिका	178
12.2	ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल	179
12.3	ठोसों के संयोजन का आयतन	185
12.4	सारांश	189
<b>13.</b>	<b>सांख्यिकी</b>	<b>190</b>
13.1	भूमिका	190
13.2	वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य	190
13.3	वर्गीकृत आँकड़ों का बहुलक	203
13.4	वर्गीकृत आँकड़ों का माध्यक	209
13.5	सारांश	221

<b>14. प्रायिकता</b>	<b>223</b>
14.1 प्रायिकता – एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण	223
14.2 सारांश	240
<b>परिशिष्ट 1 – गणितीय उपपत्तियाँ</b>	<b>241</b>
<b>परिशिष्ट 2 – गणितीय निवर्णन</b>	<b>266</b>
<b>उत्तर/संकेत</b>	<b>279</b>



1063CH01

## वास्तविक संख्याएँ

1

### 1.1 भूमिका

कक्षा 9 में, आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में, हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण हैं: यूक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म (कलन विधि) (Euclid's division algorithm) और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय (Fundamental Theorem of Arithmetic)।

जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए, तो एल्गोरिद्म के अनुसार, एक धनात्मक पूर्णांक  $a$  को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक  $b$  से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल  $r$  प्राप्त हो, जो  $b$  से छोटा (कम) है। आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया (long division process) के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक (HCF) परिकलित करने में करेंगे।

दूसरी ओर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या (Composite number) को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं (prime numbers) के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः, यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग हैं। यहाँ, हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। एक

तो हम इसका प्रयोग कक्षा IX में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं, जैसे  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$  और  $\sqrt{5}$  आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे, हम इसका प्रयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए  $\frac{p}{q}$  ( $q \neq 0$ ), का दशमलव प्रसार कब सांत (terminating) होता है तथा कब असांत आवर्ती (non-terminating repeating) होता है। ऐसा हम  $\frac{p}{q}$  के हर  $q$  के अभाज्य गुणनखंडन को देखकर ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे कि  $q$  के अभाज्य गुणनखंडन से  $\frac{p}{q}$  के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतया पता लग जाएगा।  
अतः, आइए अपनी खोज प्रारंभ करें।

## 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय

आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरणार्थ,  $2 = 2$ ,  $4 = 2 \times 2$ ,  $253 = 11 \times 23$ , इत्यादि। अब, आइए प्राकृत संख्याओं पर एक अन्य दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयत्न करें। अर्थात् यह देखें कि क्या अभाज्य संख्याओं को गुणा करके, एक प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है। आइए इसकी जाँच करें।

कुछ अभाज्य संख्याओं, मान लीजिए 2, 3, 7, 11 और 23 का कोई संग्रह लीजिए। यदि हम इन संख्याओं में से कुछ या सभी संख्याओं को इस प्रकार गुणा करें कि इन संख्याओं की हम जितनी बार चाहें पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो हम धनात्मक पूर्णांकों का एक बड़ा संग्रह बना सकते हैं (वास्तव में, अपरिमित रूप से अनेक)। आइए इनमें से कुछ की सूची बनाएँ:

$$7 \times 11 \times 23 = 1771, \quad 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 5313,$$


$$2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 10626, \quad 2^3 \times 3 \times 7^3 = 8232,$$

$$2^2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 21252 \text{ इत्यादि।}$$

अब मान लीजिए कि आपके संग्रह में, सभी संभव अभाज्य संख्याएँ सम्मिलित हैं। इस संग्रह की आमाप (size) के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या इसमें परिमित संख्या में पूर्णांक सम्मिलित हैं? अथवा अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक सम्मिलित हैं? वास्तव में, अभाज्य संख्याएँ अपरिमित रूप से अनेक हैं। इसलिए, यदि हम इन अभाज्य संख्याओं को सभी संभव प्रकारों से संयोजित करें तो हमें सभी अभाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के सभी संभव गुणनफलों का एक अनंत संग्रह प्राप्त होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इस प्रकार से सभी भाज्य संख्याएँ (composite numbers) प्राप्त कर सकते हैं? आप क्या सोचते

हैं? क्या आप सोचते हैं कि कोई ऐसी भाज्य संख्या हो सकती है जो अभाज्य संख्याओं की घातों (powers) का गुणनफल न हो? इसका उत्तर देने से पहले, आइए धनात्मक पूर्णांकों के गुणनखंडन करें, अर्थात् अभी तक जो हमने किया है उसका उल्ला करें।

हम एक गुणनखंड वृक्ष (factor tree) का प्रयोग करेंगे जिससे आप पूर्व परिचित हैं। आइए, एक बड़ी संख्या, मान लीजिए 32760, लें और उसके गुणनखंड नीचे दर्शाएं अनुसार करें:



इस प्रकार, हमने 32760 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर लिया है, जो  $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$  है। अर्थात्  $32760 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$  है, जो अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में हैं। आइए एक अन्य संख्या, मान लीजिए 123456789 लेकर उसके गुणनखंड लिखें। इसे  $3^2 \times 3803 \times 3607$  के रूप में लिखा जा सकता है। निःसंदेह, आपको इसकी जाँच करनी होगी कि 3803 और 3607 अभाज्य संख्याएँ हैं। (ऐसा ही अनेक अन्य प्राकृत संख्याएँ लेकर स्वयं करने का प्रयत्न करें।) इससे हमें यह अनुमान या कंजेक्चर (conjecture) प्राप्त होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में, यह कथन सत्य है तथा पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूलरूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कारण यह कथन

अंकगणित की आधारभूत प्रमेय (**Fundamental Theorem of Arithmetic**) कहलाता है। आइए इस प्रमेय को औपचारिक रूप से व्यक्त करें।

**प्रमेय 1.1** (अंकगणित की आधारभूत प्रमेय) : प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त (गुणनखंडित) किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है।

अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले, प्रमेय 1.2 का संभवतया सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलीमेंट्स की पुस्तक IX में साध्य (proposition) 14 के रूप में हुआ था। परंतु इसकी सबसे पहले सही उपपत्ति कार्ल फ्रैंड्रिक गॉस (Carl Friedrich Gauss) ने अपनी कृति डिस्क्रीशंस अरिथ्मेटिकी (*Disquisitiones Arithmeticae*) में दी। कार्ल फ्रैंड्रिक गॉस को प्रायः ‘गणितज्ञों का राजकुमार’ कहा जाता है तथा उनका नाम सभी समयकालों के तीन महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज़ (Archimedes) और न्यूटन (Newton) भी सम्मिलित हैं। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है।



कार्ल फ्रैंड्रिक गॉस  
(1777 – 1855)

अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। वास्तव में, यह और भी कुछ कहती है। यह कहती है कि एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्याएँ किस क्रम में आ रही हैं, एक अद्वितीय प्रकार (Unique way) से गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात् यदि कोई भाज्य संख्या दी हुई है, तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि है, जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। इसलिए, उदाहरणार्थ, हम  $2 \times 3 \times 5 \times 7$  को वही मानते हैं जो  $3 \times 5 \times 7 \times 2$ , को माना जाता है। इसी प्रकार, इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के किसी अन्य क्रम को भी हम  $2 \times 3 \times 5 \times 7$  जैसा ही मानेंगे। इस तथ्य को निम्नलिखित रूप में भी व्यक्त किया जाता है:

एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है।

व्यापक रूप में, जब हमें एक भाज्य संख्या  $x$  दी हुई हो, तो हम उसे  $x = p_1 p_2 \dots p_n$ , के रूप में गुणनखंडित करते हैं, जहाँ  $p_1, p_2, \dots, p_n$  इत्यादि आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएँ हैं। अर्थात्  $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_n$  है। यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ (मिला) लें, तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें (powers) प्राप्त हो जाती हैं।

$$\text{उदाहरणार्थ, } 32760 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$$

एक बार यह निर्णय लेने के बाद कि गुणनखंडों का क्रम आरोही होगा तो दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होंगे।

अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के गणित तथा अन्य क्षेत्रों में भी अनेक अनुप्रयोग हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण को देखें।

**उदाहरण 1 :** संख्याओं  $4^n$  पर विचार कीजिए, जहाँ  $n$  एक प्राकृत संख्या है। जाँच कीजिए कि क्या  $n$  का कोई ऐसा मान है, जिसके लिए  $4^n$  अंक शून्य (0) पर समाप्त होता है।

**हल :** यदि किसी  $n$  के लिए, संख्या  $4^n$  शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात्  $4^n$  के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि  $4^n = (2)^{2n}$  है। इसी कारण,  $4^n$  के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि  $4^n$  के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या  $n$  नहीं है, जिसके लिए  $4^n$  अंक 0 पर समाप्त होगी।

आप पिछली कक्षाओं में, यह पढ़ चुके हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। ऐसा करते समय, इस प्रमेय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। इस विधि को अभाज्य गुणनखंडन विधि (*prime factorisation method*) भी कहते हैं। आइए, एक उदाहरण की सहायता से इस विधि को पुनः याद करें।

**उदाहरण 2 :** संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ  $6 = 2^1 \times 3^1$  और  $20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5^1$  है।

जैसाकि आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, आप  $\text{HCF}(6, 20) = 2$  तथा  $\text{LCM}(6, 20) = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$ , ज्ञात कर सकते हैं।

ध्यान दीजिए कि  $\text{HCF}(6, 20) = 2^1 =$  संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल तथा

$\text{LCM}(6, 20) = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 =$  संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल

उपरोक्त उदाहरण से आपने यह देख लिया होगा कि  $\text{HCF}(6, 20) \times \text{LCM}(6, 20) = 6 \times 20$  है। वास्तव में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी जाँच कर सकते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों  $a$  और  $b$  के लिए,  $\text{HCF}(a, b) \times \text{LCM}(a, b) = a \times b$  होता है। इस परिणाम का प्रयोग करके, हम दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमने उनका HCF पहले ही ज्ञात कर लिया है।

**उदाहरण 3 :** अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए।

**हल :** 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंडन से हमें प्राप्त होता है कि

$$96 = 2^5 \times 3, \quad 404 = 2^2 \times 101$$

इसलिए, इन दोनों पूर्णांकों का HCF =  $2^2 = 4$

साथ ही  $\text{LCM}(96, 404) = \frac{96 \times 404}{\text{HCF}(96, 404)} = \frac{96 \times 404}{4} = 9696$

**उदाहरण 4 :** संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए।

**हल :** हमें प्राप्त है:

$$6 = 2 \times 3, \quad 72 = 2^3 \times 3^2 \quad \text{तथा} \quad 120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

$2^1$  और  $3^1$  प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं।

अतः,  $\text{HCF}(6, 72, 120) = 2^1 \times 3^1 = 2 \times 3 = 6$

$2^3, 3^2$  और  $5^1$  प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, जो तीनों संख्याओं से संबद्ध हैं।

अतः,  $\text{LCM}(6, 72, 120) = 2^3 \times 3^2 \times 5^1 = 360$

**टिप्पणी :** ध्यान दीजिए कि  $6 \times 72 \times 120 \neq \text{HCF}(6, 72, 120) \times \text{LCM}(6, 72, 120)$ , अर्थात् तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है।

### प्रश्नावली 1.1

1. निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए:

- (i) 140                   (ii) 156                   (iii) 3825                   (iv) 5005                   (v) 7429

2. पूर्णांकों के निम्नलिखित युगमों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF  $\times$  LCM है।
- 26 और 91
  - 510 और 92
  - 336 और 54
3. अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए:
- 12, 15 और 21
  - 17, 23 और 29
  - 8, 9 और 25
4.  $HCF(306, 657) = 9$  दिया है।  $LCM(306, 657)$  ज्ञात कीजिए।
5. जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या  $n$  के लिए, संख्या  $6^n$  अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
6. व्याख्या कीजिए कि  $7 \times 11 \times 13 + 13$  और  $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$  भाज्य संख्याएँ क्यों हैं।
7. किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?

### 1.3 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण

कक्षा IX में, आपको अपरिमेय संख्याओं एवं उनके अनेक गुणों से परिचित कराया गया था। आपने इनके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया तथा यह देखा कि किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ मिलकर वास्तविक संख्याएँ (real numbers) बनाती हैं। आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमित संख्याओं के स्थान निर्धारित करते हैं। तथापि हमने यह सिद्ध नहीं किया था कि ये संख्याएँ अपरिमेय (irrationals) हैं। इस अनुच्छेद में, हम यह सिद्ध करेंगे कि  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$  तथा, व्यापक रूप में,  $\sqrt{p}$  अपरिमेय संख्याएँ हैं, जहाँ  $p$  एक अभाज्य संख्या है। अपनी उपपत्ति में, हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे उनमें से एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।

याद कीजिए कि एक, संख्या 's' अपरिमेय संख्या कहलाती है, यदि उसे  $\frac{p}{q}$  के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ  $p$  और  $q$  पूर्णांक हैं और  $q \neq 0$  है। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण, जिनसे आप परिचित हैं, निम्नलिखित हैं:

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{15}, \pi, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, 0.10110111011110\dots, \text{इत्यादि।}$$

इससे पहले कि हम  $\sqrt{2}$  को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, हमें निम्नलिखित प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी उपपत्ति अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है।

**प्रमेय 1.2 :** मान लीजिए  $p$  एक अभाज्य संख्या है। यदि  $p, a^2$  को विभाजित करती है, तो  $p, a$  को भी विभाजित करेगी, जहाँ  $a$  एक धनात्मक पूर्णांक है।

\*उपपत्ति : मान लीजिए  $a$  के अभाज्य गुणनखंडन निम्नलिखित रूप के हैं:  $a = p_1 p_2 \dots p_n$  जहाँ  $p_1, p_2, \dots, p_n$  अभाज्य संख्याएँ हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न-भिन्न नहीं हैं।

$$\text{अतः, } a^2 = (p_1 p_2 \dots p_n) (p_1 p_2 \dots p_n) = p_1^2 p_2^2 \dots p_n^2$$

अब, हमें दिया है कि  $p, a^2$  को विभाजित करती है। इसलिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार;  $p, a^2$  का एक अभाज्य गुणनखंड है। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर, हम पाएँगे कि  $a^2$  के अभाज्य गुणनखंड केवल  $p_1, p_2, \dots, p_n$  हैं। इसलिए  $p$  को  $p_1, p_2, \dots, p_n$  में से ही एक होना चाहिए।

अब, चौंकि  $a = p_1 p_2 \dots p_n$  है, इसलिए  $p, a$  को विभाजित अवश्य करेगा।

अब हम इसकी उपपत्ति दे सकते हैं कि  $\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।

यह उपपत्ति उस तकनीक पर आधारित है जिसे 'विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति' (proof by contradiction) कहते हैं (इस तकनीक की कुछ विस्तृत रूप से चर्चा परिशिष्ट 1 में की गई है)।

**प्रमेय 1.3 :**  $\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।

**उपपत्ति :** हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि  $\sqrt{2}$  एक परिमेय संख्या है।

अतः, हम दो पूर्णांक  $r$  और  $s$  ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि  $\sqrt{2} = \frac{r}{s}$  हो तथा  $s (\neq 0)$  हो।

मान लीजिए  $r$  और  $s$  में, 1 के अतिरिक्त, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब, हम इस

उभयनिष्ठ गुणनखंड से  $r$  और  $s$  को विभाजित करके  $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$  प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ  $a$

और  $b$  सहअभाज्य (co-prime) हैं।

अतः:

$$b\sqrt{2} = a \text{ हुआ।}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर, हमें प्राप्त होता है:

$$2b^2 = a^2$$

अतः  $2, a^2$  को विभाजित करता है।

इसलिए प्रमेय 1.2 द्वारा  $2, a$  को विभाजित करेगा।

---

\* यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है।

अतः हम  $a = 2c$  लिख सकते हैं, जहाँ  $c$  कोई पूर्णांक है।

$a$  का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें  $2b^2 = 4c^2$ , अर्थात्  $b^2 = 2c^2$  प्राप्त होता है।

इसका अर्थ है कि  $2, b^2$  को विभाजित करता है और इसलिए  $2, b$  को भी विभाजित करेगा (प्रमेय 1.2 द्वारा  $p = 2$  लेने पर)।

अतः  $a$  और  $b$  में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है।

परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि  $a$  और  $b$  में, 1 के अतिरिक्त, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।

यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि  $\sqrt{2}$  एक परिमेय संख्या है।

अतः, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि  $\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।

**उदाहरण 5 :**  $\sqrt{3}$  एक अपरिमेय संख्या है।

**हल :** आइए हम इसके विपरीत यह मान लें कि  $\sqrt{3}$  एक परिमेय संख्या है।

अर्थात्, हम ऐसे दो पूर्णांक  $a$  और  $b$  ( $\neq 0$ ) प्राप्त कर सकते हैं कि  $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$  है।

यदि  $a$  और  $b$  में, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर  $a$  और  $b$  को सहअभाज्य बना सकते हैं।

अतः

$$b\sqrt{3} = a \text{ है।}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर, हमें  $3b^2 = a^2$  प्राप्त होता है।

अतः  $a^2, 3$  से विभाजित है। इसलिए, प्रमेय 1.2 द्वारा  $3, a$  को भी विभाजित करेगा।

अतः हम  $a = 3c$  लिख सकते हैं, जहाँ  $c$  एक पूर्णांक है।

$a$  के इस मान को  $3b^2 = a^2$  में प्रतिस्थापित करने पर, हमें प्राप्त होता है:

$$3b^2 = 9c^2 \text{ अर्थात् } b^2 = 3c^2$$

इसका अर्थ है कि  $b^2, 3$  से विभाजित हो जाता है। इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा  $b$  भी 3 से विभाजित होगा।

अतः  $a$  और  $b$  में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है।

परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि  $a$  और  $b$  सहअभाज्य हैं।

हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि  $\sqrt{3}$  एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि  $\sqrt{3}$  एक अपरिमेय संख्या है।

कक्षा IX में हमने बताया था कि:

- एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है तथा
  - एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है।
- यहाँ, हम उपरोक्त की कुछ विशिष्ट स्थितियाँ सिद्ध करेंगे।

**उदाहरण 6 :** दर्शाइए कि  $5 - \sqrt{3}$  एक अपरिमेय संख्या है।

**हल :** आइए इसके विपरीत मान लें कि  $5 - \sqrt{3}$  एक परिमेय संख्या है।

अर्थात् हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएँ  $a$  और  $b$  ( $b \neq 0$ ) ज्ञात कर सकते हैं कि  $5 - \sqrt{3} = \frac{a}{b}$  हो।

अतः

$$5 - \frac{a}{b} = \sqrt{3} \text{ है।}$$

इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है:

$$\sqrt{3} = 5 - \frac{a}{b}$$

चौंकि  $a$  और  $b$  पूर्णांक हैं, इसलिए  $5 - \frac{a}{b}$  एक परिमेय संख्या है अर्थात्  $\sqrt{3}$  एक परिमेय संख्या है।

परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि  $\sqrt{3}$  एक अपरिमेय संख्या है।

हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि  $5 - \sqrt{3}$  एक परिमेय संख्या है।

अतः, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि  $5 - \sqrt{3}$  एक अपरिमेय संख्या है।

**उदाहरण 7 :** दर्शाइए कि  $3\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।

**हल :** आइए इसके विपरीत मान लें कि  $3\sqrt{2}$  एक परिमेय संख्या है।

अर्थात् हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएँ  $a$  और  $b$  ( $b \neq 0$ ) ज्ञात कर सकते हैं कि  $3\sqrt{2} = \frac{a}{b}$  हो।

पुनर्व्यवस्थित करने पर, हमें  $\sqrt{2} = \frac{a}{3b}$  प्राप्त होगा।

चूंकि  $3$ ,  $a$  और  $b$  पूर्णांक हैं, इसलिए  $\frac{a}{3b}$  एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए  $\sqrt{2}$  भी एक परिमेय संख्या होगी।

परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि  $\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।  
अतः, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि  $3\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।

### प्रश्नावली 1.2

1. सिद्ध कीजिए कि  $\sqrt{5}$  एक अपरिमेय संख्या है।
2. सिद्ध कीजिए कि  $3 + 2\sqrt{5}$  एक अपरिमेय संख्या है।
3. सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं:

(i)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(ii)  $7\sqrt{5}$

(iii)  $6 + \sqrt{2}$

### 1.4 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है:

1. अंकगणित की आधारभूत प्रमेय:

प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त (गुणनखंडित) किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं।

2. यदि  $p$  कोई अभाज्य संख्या है और  $p, a^2$  को विभाजित करता है तो  $p, a$  को भी विभाजित करेगा, जहाँ  $a$  एक धनात्मक पूर्णांक है।
3. उपपत्ति कि  $\sqrt{2}, \sqrt{3}$  इत्यादि अपरिमेय संख्याएँ हैं।

## पाठकों के लिए विशेष

आपने देखा कि:

$\text{HCF}(p, q, r) \times \text{LCM}(p, q, r) \neq p \times q \times r$ , जहाँ  $p, q, r$  धनात्मक पूर्णांक हैं (उदाहरण 8 देखिए)। जबकि निम्न परिणाम तीन संख्याओं  $p, q$  और  $r$  पर लागू होता है:

$$\text{LCM}(p, q, r) = \frac{p \cdot q \cdot r \cdot \text{HCF}(p, q, r)}{\text{HCF}(p, q) \cdot \text{HCF}(q, r) \cdot \text{HCF}(p, r)}$$

$$\text{HCF}(p, q, r) = \frac{p \cdot q \cdot r \cdot \text{LCM}(p, q, r)}{\text{LCM}(p, q) \cdot \text{LCM}(q, r) \cdot \text{LCM}(p, r)}$$



1063CH02

## बहुपद

2

### 2.1 भूमिका

कक्षा IX में, आपने एक चर वाले बहुपदों (polynomials) एवं उनकी घातों (degree) के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर  $x$  के बहुपद  $p(x)$  में  $x$  की उच्चतम घात (power) बहुपद की घात (degree) कहलाती है। उदाहरण के लिए,  $4x + 2$  चर  $x$  में घात 1 का बहुपद है,  $2y^2 - 3y + 4$  चर  $y$  में घात 2 का बहुपद है,  $5x^3 - 4x^2 + x - \sqrt{2}$  चर  $x$  में घात 3 का बहुपद है और  $7u^6 - \frac{3}{2}u^4 + 4u^2 + u - 8$  चर  $u$  में घात 6 का बहुपद है। व्यंजक  $\frac{1}{x-1}$ ,  $\sqrt{x} + 2$ ,  $\frac{1}{x^2 + 2x + 3}$  इत्यादि बहुपद नहीं हैं।

घात 1 के बहुपद को **रैखिक बहुपद** (linear polynomial) कहते हैं। उदाहरण के लिए,  $2x - 3$ ,  $\sqrt{3}x + 5$ ,  $y + \sqrt{2}$ ,  $x - \frac{2}{11}$ ,  $3z + 4$ ,  $\frac{2}{3}u + 1$ , इत्यादि सभी रैखिक बहुपद हैं। जबकि  $2x + 5 - x^2$ ,  $x^3 + 1$ , आदि प्रकार के बहुपद रैखिक बहुपद नहीं हैं।

घात 2 के बहुपद को **द्विघात बहुपद** (quadratic polynomial) कहते हैं। द्विघात (quadratic) शब्द क्वाड्रेट (quadrate) शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'वर्ग'।  $2x^2 + 3x - \frac{2}{5}$ ,  $y^2 - 2$ ,  $2 - x^2 + \sqrt{3}x$ ,  $\frac{u}{3} - 2u^2 + 5$ ,  $\sqrt{5}v^2 - \frac{2}{3}v$ ,  $4z^2 + \frac{1}{7}$ , द्विघात बहुपदों के कुछ उदाहरण हैं (जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएँ हैं)। अधिक व्यापक रूप में,  $x$  में कोई द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$ , जहाँ  $a, b, c$  वास्तविक संख्याएँ हैं और  $a \neq 0$  है, के प्रकार का होता है।

घात 3 का बहुपद **त्रिघात बहुपद** (cubic polynomial) कहलाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं:

$$2 - x^3, x^3, \sqrt{2}x^3, 3 - x^2 + x^3, 3x^3 - 2x^2 + x - 1$$

वास्तव में, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

जहाँ  $a, b, c, d$  वास्तविक संख्याएँ हैं और  $a \neq 0$  है।

अब बहुपद  $p(x) = x^2 - 3x - 4$  पर विचार कीजिए। इस बहुपद में  $x = 2$  रखने पर हम  $p(2) = 2^2 - 3 \times 2 - 4 = -6$  पाते हैं।  $x^2 - 3x - 4$  में,  $x$  को 2 से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त मान ‘-6’,  $x^2 - 3x - 4$  का  $x = 2$  पर मान कहलाता है। इसी प्रकार  $p(0), p(x)$  का  $x = 0$  पर मान है, जो -4 है।

यदि  $p(x), x$  में कोई बहुपद है और  $k$  कोई वास्तविक संख्या है, तो  $p(x)$  में  $x$  को  $k$  से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या  $p(x)$  का  $x = k$  पर मान कहलाती है और इसे  $p(k)$  से निरूपित करते हैं।

$p(x) = x^2 - 3x - 4$  का  $x = -1$  पर क्या मान है? हम पाते हैं :

$$p(-1) = (-1)^2 - \{3 \times (-1)\} - 4 = 0$$

साथ ही, ध्यान दीजिए कि  $p(4) = 4^2 - (3 \times 4) - 4 = 0$  है।

क्योंकि  $p(-1) = 0$  और  $p(4) = 0$  है, इसलिए -1 और 4 द्विघात बहुपद  $x^2 - 3x - 4$  के शून्यक (zeroes) कहलाते हैं। अधिक व्यापक रूप में, एक वास्तविक संख्या  $k$  बहुपद  $p(x)$  का शून्यक कहलाती है, यदि  $p(k) = 0$  है।

आप कक्षा IX में पढ़ चुके हैं कि किसी ऐंगिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि  $p(x) = 2x + 3$  का शून्यक  $k$  है, तो  $p(k) = 0$  से, हमें  $2k + 3 = 0$  अर्थात्  $k = -\frac{3}{2}$  प्राप्त होता है।

व्यापक रूप में, यदि  $p(x) = ax + b$  का एक शून्यक  $k$  है, तो  $p(k) = ak + b = 0$ , अर्थात्  $k = \frac{-b}{a}$  होगा। अतः, ऐंगिक बहुपद  $ax + b$  का शून्यक  $\frac{-b}{a} = \frac{\text{अचर पद}}{x \text{ का गुणांक}}$  है।

इस प्रकार, ऐंगिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है। क्या यह अन्य बहुपदों में भी होता है? उदाहरण के लिए, क्या द्विघात बहुपद के शून्यक भी उसके गुणांकों से संबंधित होते हैं?

इस अध्याय में, हम इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हम बहुपदों के लिए विभाजन कलन विधि (division algorithm) का भी अध्ययन करेंगे।


## 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ

आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या  $k$  बहुपद  $p(x)$  का एक शून्यक है, यदि  $p(k) = 0$  है। परंतु किसी बहुपद के शून्यक इतने आवश्यक क्यों हैं? इसका उत्तर देने के लिए, सर्वप्रथम हम रैखिक और द्विघात बहुपदों के आलेखीय निरूपण देखेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे।

पहले एक रैखिक बहुपद  $ax + b, a \neq 0$  पर विचार करते हैं। आपने कक्षा IX में पढ़ा है कि  $y = ax + b$  का ग्राफ (आलेख) एक सरल रेखा है। उदाहरण के लिए,  $y = 2x + 3$  का ग्राफ बिंदुओं  $(-2, -1)$  तथा  $(2, 7)$  से जाने वाली एक सरल रेखा है।

$x$	-2	2
$y = 2x + 3$	-1	7

आकृति 2.1 से आप देख सकते हैं कि  $y = 2x + 3$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को  $x = -1$  तथा  $x = -2$  के बीचों बीच, अर्थात् बिंदु  $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$  पर प्रतिच्छेद करता है। आप यह भी जानते हैं कि  $2x + 3$  का शून्यक  $-\frac{3}{2}$  है। अतः बहुपद  $2x + 3$  का शून्यक उस बिंदु का  $x$ -निर्देशांक है, जहाँ  $y = 2x + 3$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।



आकृति 2.1

व्यापक रूप में, एक रैखिक बहुपद  $ax + b, a \neq 0$  के लिए,  $y = ax + b$  का ग्राफ एक सरल रेखा है, जो  $x$ -अक्ष को ठीक एक बिंदु  $\left(\frac{-b}{a}, 0\right)$  पर प्रतिच्छेद करती है। अतः, रैखिक बहुपद  $ax + b, a \neq 0$  का केवल एक शून्यक है, जो उस बिंदु का  $x$ -निर्देशांक है, जहाँ  $y = ax + b$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।

अब आइए हम द्विघात बहुपद के किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जाने। द्विघात बहुपद  $x^2 - 3x - 4$  पर विचार कीजिए। आइए देखें कि  $y = x^2 - 3x - 4$  का ग्राफ\* किस प्रकार

\* द्विघात या त्रिघात बहुपदों के ग्राफ खींचना विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित नहीं है और न ही इनका मूल्यांकन से संबंध है।

का दिखता है। हम  $x$  के कुछ मानों के संगत  $y = x^2 - 3x - 4$  के कुछ मानों को लेते हैं, जैसे सारणी 2.1 में दिए हैं।


### सारणी 2.1

$x$	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$y = x^2 - 3x - 4$	6	0	-4	-6	-6	-4	0	6

यदि हम उपर्युक्त बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें और ग्राफ खींचें, तो यह आकृति 2.2 में दिए गए जैसा दिखेगा।

वास्तव में किसी द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c, a \neq 0$  के लिए संगत समीकरण  $y = ax^2 + bx + c$  के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला  $\cup$  की तरह अथवा नीचे की ओर खुला  $\cap$  की तरह का होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि  $a > 0$  है या  $a < 0$  है (इन वक्रों को परवलय (parabola) कहते हैं)।

सारणी 2.1 से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक  $-1$  तथा  $4$  हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए कि  $-1$  तथा  $4$  उन बिंदुओं के  $x$ -निर्देशांक हैं, जहाँ  $y = x^2 - 3x - 4$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार, द्विघात बहुपद  $x^2 - 3x - 4$  के शून्यक उन बिंदुओं के  $x$ -निर्देशांक हैं, जहाँ  $y = x^2 - 3x - 4$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।




### आकृति 2.2

यह तथ्य सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य है, अर्थात् द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c, a \neq 0$  के शून्यक उन बिंदुओं के  $x$ -निर्देशांक हैं, जहाँ  $y = ax^2 + bx + c$  को निरूपित करने वाला परवलय  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।


$y = ax^2 + bx + c$  के ग्राफ के आकार का प्रेक्षण करने से तीन निम्नलिखित स्थितियाँ संभावित हैं।

**स्थिति (i) :** यहाँ ग्राफ  $x$ -अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं A और A' पर काटता है।

इस स्थिति में, A और A' के  $x$ -निर्देशांक द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  के दो शून्यक हैं (देखिए आकृति 2.3)।




(i)




(ii)

### आकृति 2.3

**स्थिति (ii) :** यहाँ ग्राफ  $x$ -अक्ष को केवल एक बिंदु पर, अर्थात् दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। इसलिए, स्थिति (i) के दो बिंदु A और A' यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु A हो जाते हैं (देखिए आकृति 2.4)।



(i)




(ii)

### आकृति 2.4

इस स्थिति में, A का  $x$ -निर्देशांक द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  का केवल एक शून्यक है।

**स्थिति (iii) :** यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से  $x$ -अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से  $x$ -अक्ष के नीचे है। इसलिए, यह  $x$ -अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है (देखिए आकृति 2.5)।



### आकृति 2.5

अतः, इस स्थिति में द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  का कोई शून्यक नहीं है।

इस प्रकार, आप ज्यामितीय रूप में देख सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक, या दो बराबर शून्यक (अर्थात् एक शून्यक) या कोई भी शून्यक नहीं, हो सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं।

अब आप एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में क्या आशा कर सकते हैं? आइए इसे ज्ञात करें। त्रिघात बहुपद  $x^3 - 4x$  पर विचार कीजिए। इसे देखने के लिए कि  $y = x^3 - 4x$  का ग्राफ कैसा लगता है, आइए  $x$  के कुछ मानों के संगत  $y$  के कुछ मानों को सारणी 2.2 में सूचीबद्ध करें।


### सारणी 2.2

$x$	-2	-1	0	1	2
$y = x^3 - 4x$	0	3	0	-3	0


सारणी के बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करने और ग्राफ खींचने पर, हम देखते हैं कि  $y = x^3 - 4x$  का ग्राफ वास्तव में आकृति 2.6 जैसा दिखता है।

उपर्युक्त सारणी से हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद  $x^3 - 4x$  के शून्यक  $-2, 0$  और  $2$  हैं। ध्यान दीजिए कि  $-2, 0$  और  $2$  वास्तव में उन बिंदुओं के  $x$ -निर्देशांक हैं, जहाँ  $y = x^3 - 4x$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। क्योंकि वक्र  $x$ -अक्ष को केवल इन्हीं तीन बिंदुओं पर काटता है, इसलिए बहुपद के शून्यक केवल इन्हीं बिंदुओं के  $x$ -निर्देशांक हैं।


अब हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। त्रिघात बहुपदों  $x^3$  और  $x^3 - x^2$  पर विचार कीजिए। हम  $y = x^3$  तथा  $y = x^3 - x^2$  के ग्राफ क्रमशः आकृति 2.7 और आकृति 2.8 में खोंचते हैं।



आकृति 2.6



आकृति 2.7




आकृति 2.8

ध्यान दीजिए कि बहुपद  $x^3$  का केवल एक शून्यक 0 है। आकृति 2.7 से भी आप देख सकते हैं कि 0 केवल उस बिंदु का  $x$ -निर्देशांक है, जहाँ  $y = x^3$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार, क्योंकि  $x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$  है, इसलिए बहुपद  $x^3 - x^2$  के शून्यक केवल 0 और 1 हैं। आकृति 2.8 से भी ये मान केवल उन बिंदुओं के  $x$ -निर्देशांक हैं, जहाँ  $y = x^3 - x^2$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।

उपर्युक्त उदाहरणों से हम देखते हैं कि किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, घात 3 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं।

**टिप्पणी:** व्यापक रूप में, घात  $n$  के लिए गए बहुपद  $p(x)$  के लिए,  $y = p(x)$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को अधिक से अधिक  $n$  बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात  $n$  के किसी बहुपद के अधिक से अधिक  $n$  शून्यक हो सकते हैं।

**उदाहरण 1:** नीचे दी गई आकृति 2.9 में, ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति  $y = p(x)$ , जहाँ  $p(x)$  एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए,  $p(x)$  के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए।




आकृति 2.9

**हल :**

- (i) शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ  $x$ -अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
- (ii) शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ  $x$ -अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
- (iii) शून्यकों की संख्या 3 है। (क्यों?)
- (iv) शून्यकों की संख्या 1 है। (क्यों?)
- (v) शून्यकों की संख्या 1 है। (क्यों?)
- (vi) शून्यकों की संख्या 4 है। (क्यों?)

### प्रश्नावली 2.1

- किसी बहुपद  $p(x)$  के लिए,  $y = p(x)$  का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में,  $p(x)$  के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए।



### आकृति 2.10

### 2.3 किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध

आप पहले ही देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद  $ax + b$  का शून्यक  $-\frac{b}{a}$  होता है। अब हम किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंध में अनुच्छेद 2.1 में

उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए एक द्विघात बहुपद माना  $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$  लीजिए। कक्षा IX में, आप सीख चुके हैं कि मध्य पद को विभक्त करके कैसे किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं। इसलिए, यहाँ हमें मध्य पद ‘ $-8x$ ’ को दो ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिनका गुणनफल  $6 \times 2x^2 = 12x^2$  हो। अतः, हम लिखते हैं:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 6 &= 2x^2 - 6x - 2x + 6 = 2x(x - 3) - 2(x - 3) \\ &= (2x - 2)(x - 3) = 2(x - 1)(x - 3) \end{aligned}$$

इसलिए,  $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$  का मान शून्य है, जब  $x - 1 = 0$  या  $x - 3 = 0$  है, अर्थात् जब  $x = 1$  या  $x = 3$  हो। अतः,  $2x^2 - 8x + 6$  के शून्यक 1 और 3 हैं। ध्यान दीजिए :

$$\begin{array}{lcl} \text{शून्यकों का योग} & = 1 + 3 = 4 = \frac{-(-8)}{2} = \frac{-(x \text{ का गुणांक})}{x^2 \text{ का गुणांक}} \\ \text{शून्यकों का गुणनफल} & = 1 \times 3 = 3 = \frac{6}{2} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 \text{ का गुणांक}} \end{array}$$

आइए, एक और द्विघात बहुपद, माना  $p(x) = 3x^2 + 5x - 2$  लें। मध्य पद के विभक्त करने की विधि से,

$$\begin{aligned} 3x^2 + 5x - 2 &= 3x^2 + 6x - x - 2 = 3x(x + 2) - 1(x + 2) \\ &= (3x - 1)(x + 2) \end{aligned}$$

अतः,  $3x^2 + 5x - 2$  का मान शून्य होगा यदि या तो  $3x - 1 = 0$  हो या  $x + 2 = 0$  हो, अर्थात्

जब  $x = \frac{1}{3}$  हो या  $x = -2$  हो। इसलिए,  $3x^2 + 5x - 2$  के शून्यक  $\frac{1}{3}$  और  $-2$  हैं। ध्यान दीजिए:

$$\begin{array}{lcl} \text{शून्यकों का योग} & = \frac{1}{3} + (-2) = \frac{-5}{3} = \frac{-(x \text{ का गुणांक})}{x^2 \text{ का गुणांक}} \\ \text{शून्यकों का गुणनफल} & = \frac{1}{3} \times (-2) = \frac{-2}{3} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 \text{ का गुणांक}} \end{array}$$

व्यापक रूप में, यदि  $* \alpha, \beta$  द्विघात बहुपद  $p(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$  के शून्यक हों, तो आप जानते हैं कि  $x - \alpha$  और  $x - \beta$ ,  $p(x)$  के गुणनखंड होते हैं। अतः,

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= k(x - \alpha)(x - \beta), \text{ जहाँ } k \text{ एक अचर है} \\ &= k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta] \\ &= kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta \end{aligned}$$

\*  $\alpha, \beta$  यूनानी भाषा के अक्षर हैं, जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा द्वारा उच्चरित किया जाता है। बाद में हम एक और अक्षर  $\gamma$  का प्रयोग करेंगे, जिसे ‘गामा’ से उच्चरित किया जाता है।

दोनों ओर के  $x^2, x$  के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, हम पाते हैं :

$$a = k, b = -k(\alpha + \beta) \text{ और } c = ka\beta$$

$$\text{इससे प्राप्त होता है: } \alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\text{अर्थात् } \text{शून्यकों का योग} = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-(x \text{ का गुणांक})}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

$$\text{शून्यकों का गुणनफल} = \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें।

**उदाहरण 2 :** द्विघात बहुपद  $x^2 + 7x + 10$  के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए।

**हल :** हम पाते हैं:

$$x^2 + 7x + 10 = (x + 2)(x + 5)$$

इसलिए  $x^2 + 7x + 10$  का मान शून्य है, जब  $x + 2 = 0$  है या  $x + 5 = 0$  है, अर्थात् जब  $x = -2$  या  $x = -5$  हो। इसलिए,  $x^2 + 7x + 10$  के शून्यक  $-2$  और  $-5$  हैं। अब,

$$\text{शून्यकों का योग} = -2 + (-5) = -(7) = \frac{-(7)}{1} = \frac{-(x \text{ का गुणांक})}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

$$\text{शून्यकों का गुणनफल} = (-2) \times (-5) = 10 = \frac{10}{1} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

**उदाहरण 3 :** बहुपद  $x^2 - 3$  के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए।

**हल :** सर्वसमिका  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$  का स्मरण कीजिए। इसे प्रयोग कर, हम लिख सकते हैं:

$$x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

इसलिए,  $x^2 - 3$  का मान शून्य होगा, जब  $x = \sqrt{3}$  हो या  $x = -\sqrt{3}$  हो।

अतः,  $x^2 - 3$  के शून्यक  $\sqrt{3}$  और  $-\sqrt{3}$  हैं। अब,

$$\text{शून्यकों का योग} = \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0 = \frac{-(x \text{ का गुणांक})}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

$$\text{शून्यकों का गुणनफल} = (\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = -3 = \frac{-3}{1} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 \text{ का गुणांक}}$$

**उदाहरण 4 :** एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः  $-3$  और  $2$  हैं।

**हल :** माना द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  है और इसके शून्यक  $\alpha$  और  $\beta$  हैं।

$$\text{हम पाते हैं: } \alpha + \beta = -3 = \frac{-b}{a}$$

$$\text{और } \alpha\beta = 2 = \frac{c}{a}$$

यदि  $a = 1$  है, तो  $b = 3$  और  $c = 2$  होगा।

अतः, एक द्विघात बहुपद, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं,  $x^2 + 3x + 2$  है।

आप जाँच कर सकते हैं कि अन्य कोई द्विघात बहुपद, जो इन शर्तों को संतुष्ट करता हो,  $k(x^2 + 3x + 2)$  की तरह का होगा, जहाँ  $k$  एक वास्तविक संख्या है।

आइए अब हम त्रिघात बहुपद की ओर दृष्टिपात करें। क्या आप सोचते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच इसी प्रकार का संबंध होता है?

आइए  $p(x) = 2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$  पर विचार करें।

आप इसकी जाँच कर सकते हैं कि  $x = 4, -2$  और  $\frac{1}{2}$  के लिए  $p(x) = 0$  है। क्योंकि  $p(x)$

के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं, इसलिए  $2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$  के यही शून्यक हैं। अब,

$$\text{शून्यकों का योग} = 4 + (-2) + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{-(-5)}{2} = \frac{-(x^2 \text{ का गुणांक})}{x^3 \text{ का गुणांक}},$$

$$\text{शून्यकों का गुणनफल} = 4 \times (-2) \times \frac{1}{2} = -4 = \frac{-8}{2} = \frac{-\text{अचर पद}}{x^3 \text{ का गुणांक}}$$

परंतु, यहाँ एक और संबंध भी है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के योग पर विचार करें। हम पाते हैं :

$$\begin{aligned} \{4 \times (-2)\} + \left\{(-2) \times \frac{1}{2}\right\} + \left\{\frac{1}{2} \times 4\right\} \\ = -8 - 1 + 2 = -7 = \frac{-14}{2} = \frac{x \text{ का गुणांक}}{x^3 \text{ का गुणांक}} \end{aligned}$$

व्यापक रूप में, यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि  $\alpha, \beta, \gamma$  त्रिघात बहुपद  $ax^3 + bx^2 + cx + d$  के शून्यक हों, तो

$$\begin{aligned} \alpha + \beta + \gamma &= \frac{-b}{a} \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha &= \frac{c}{a} \\ \text{तथा } \alpha \beta \gamma &= \frac{-d}{a} \end{aligned}$$

आइए एक उदाहरण पर विचार करें।

**उदाहरण 5\*** : जाँच कीजिए कि त्रिघात बहुपद  $p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$  के शून्यक  $3, -1$  और  $-\frac{1}{3}$  हैं। इसके पश्चात् शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए।

**हल :** दिए हुए बहुपद की  $ax^3 + bx^2 + cx + d$  से तुलना करने पर, हम पाते हैं:

$$a = 3, b = -5, c = -11, d = -3 \text{ हैं। पुनः,}$$

$$p(3) = 3 \times 3^3 - (5 \times 3^2) - (11 \times 3) - 3 = 81 - 45 - 33 - 3 = 0$$

$$p(-1) = 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 - 11 \times (-1) - 3 = -3 - 5 + 11 - 3 = 0$$

$$\begin{aligned} p\left(-\frac{1}{3}\right) &= 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 5 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 11 \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 3 \\ &= -\frac{1}{9} - \frac{5}{9} + \frac{11}{3} - 3 = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 0 \end{aligned}$$

अतः,  $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$  के शून्यक  $3, -1$  और  $-\frac{1}{3}$  हैं।

\* यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है।

इसलिए, हम  $\alpha = 3$ ,  $\beta = -1$  और  $\gamma = -\frac{1}{3}$  लेते हैं। अब,

$$\alpha + \beta + \gamma = 3 + (-1) + \left(-\frac{1}{3}\right) = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = \frac{-(-5)}{3} = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 3 \times (-1) + (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) \times 3 = -3 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{-11}{3} = \frac{c}{a}$$

$$\text{और } \alpha\beta\gamma = 3 \times (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 = \frac{-(-3)}{3} = \frac{-d}{a} \text{ है।}$$

## प्रश्नावली 2.2

1. निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए :

- |                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| (i) $x^2 - 2x - 8$ | (ii) $4s^2 - 4s + 1$ | (iii) $6x^2 - 3 - 7x$ |
| (iv) $4u^2 + 8u$   | (v) $t^2 - 15$       | (vi) $3x^2 - x - 4$   |

2. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं:

- |                       |                                 |                     |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| (i) $\frac{1}{4}, -1$ | (ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$    | (iii) $0, \sqrt{5}$ |
| (iv) $1, 1$           | (v) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ | (vi) $4, 1$         |

## 2.4 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है :

- घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं।
- एक द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$ , जहाँ  $a, b, c$  वास्तविक संख्याएँ हैं और  $a \neq 0$  है, के रूप का होता है।
- एक बहुपद  $p(x)$  के शून्यक उन बिंदुओं के  $x$ -निर्देशांक होते हैं जहाँ  $y = p(x)$  का ग्राफ  $x$ -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।
- एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं।

5. यदि द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  के शून्यक  $\alpha$  और  $\beta$  हों, तो

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

6. यदि  $\alpha, \beta, \gamma$  त्रिघात बहुपद  $ax^3 + bx^2 + cx + d$  के शून्यक हों, तो

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$$

और  $\alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}$



1063CH03

## दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म


3

### 3.1 भूमिका

आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा, जैसी नीचे दी गई है:

अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई। वह एक चरखी (Giant wheel) की सवारी करना चाहती थी और हूपला (Hoopla) [एक खेल जिसमें आप एक स्टाल में रखी किसी वस्तु पर एक बलय (ring) को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्णरूप से घेर ले, तो आपको वह वस्तु मिल जाती है] खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हूपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे ₹3 तथा हूपला खेलने के लिए ₹4 खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हूपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल ₹20 खर्च किए?

हो सकता है कि आप इसे ज्ञात करने के लिए अलग-अलग स्थितियाँ लेकर चलें। यदि उसने एक बार सवारी की, क्या यह संभव है? क्या यह भी संभव है कि उसने दो बार



सवारी की? इत्यादि। अथवा आप कक्षा IX के ज्ञान का उपयोग करते हुए, इन स्थितियों को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों द्वारा निरूपित कर सकते हैं।

आइए इस प्रक्रिया को समझें।

अग्रिम द्वारा सवारी करने की संख्या को  $x$  तथा उसके द्वारा हूपला खेल खेलने की संख्या को  $y$  से निरूपित कीजिए। अब दी हुई स्थिति को दो समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है :

$$y = \frac{1}{2}x \quad (1)$$

$$3x + 4y = 20 \quad (2)$$

क्या हम इस समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं? इन्हें ज्ञात करने की कई विधियाँ हैं, जिनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे।

इसलिए, हमने कई स्थितियाँ देखी हैं जिन्हें एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने उनके बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण देखे। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन निरूपणों को एक रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने में उपयोग किया जा सकता है।

### 3.2 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल

एक रैखिक समीकरण युग्म, जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत (inconsistent) युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म, जिसका हल होता है, रैखिक समीकरणों का संगत (consistent) युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित (dependent) युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है।

अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं:

- (i) रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है (अविरोधी समीकरण युग्म)।
- (ii) रेखाएँ समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में, समीकरणों का कोई हल नहीं होता है (असंगत समीकरण युग्म)।

(iii) रेखाएँ संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में, समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं [आश्रित (संगत) समीकरण युग्म]।

आइए अब हम निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों पर विचार करें।

(i)  $x - 2y = 0$  और  $3x + 4y - 20 = 0$  (रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं)

(ii)  $2x + 3y - 9 = 0$  और  $4x + 6y - 18 = 0$  (रेखाएँ संपाती हैं)

(iii)  $x + 2y - 4 = 0$  और  $2x + 4y - 12 = 0$  (रेखाएँ समांतर हैं)

अब आइए सभी तीनों उदाहरणों में,  $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}$  और  $\frac{c_1}{c_2}$  के मान लिखें और उनकी तुलना करें। यहाँ  $a_1, b_1, c_1$  और  $a_2, b_2, c_2$  व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों के गुणांक को व्यक्त करते हैं।

### सारणी 3.1

क्र. सं.	रेखा युग्म	$\frac{a_1}{a_2}$	$\frac{b_1}{b_2}$	$\frac{c_1}{c_2}$	अनुपातों की तुलना	ग्राफीय निरूपण	बीजगणितीय निरूपण
1	$x - 2y = 0$ $3x + 4y - 20 = 0$	$\frac{1}{3}$	$\frac{-2}{4}$	$\frac{0}{-20}$	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ	केवल एक हल (अद्वितीय)
2	$2x + 3y - 9 = 0$ $4x + 6y - 18 = 0$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{-9}{-18}$	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	संपाती रेखाएँ	अपरिमित रूप से अनेक हल
3	$x + 2y - 4 = 0$ $2x + 4y - 12 = 0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{-4}{-12}$	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	समांतर रेखाएँ	कोई हल नहीं

सारणी 3.1 से आप देख सकते हैं कि

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

और

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0$$
 से निरूपित रेखाएँ:

(i) प्रतिच्छेद करती हैं, तो  $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$  है।

(ii) संपाती हैं, तो  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$  है।

(iii) समांतर हैं, तो  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$  है।

वास्तव में, इसका विलोम भी किसी भी रेखा युग्म के लिए सत्य है। आप कुछ और उदाहरण लेकर इसकी जाँच कर सकते हैं।

आइए अब इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** ग्राफ द्वारा जाँच कीजिए कि समीकरण युग्म

$$x + 3y = 6 \quad (1)$$

और

$$2x - 3y = 12 \quad (2)$$

संगत है। यदि ऐसा है, तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए।

**हल :** आइए समीकरणों (1) और (2) के ग्राफ खींचें। इसके लिए, हम प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करते हैं, जो सारणी 3.2 में दिए हैं:


### सारणी 3.2

$x$	0	6
$y = \frac{6-x}{3}$	2	0

$x$	0	3
$y = \frac{2x-12}{3}$	-4	-2

एक ग्राफ पेपर पर बिंदुओं A(0, 2), B(6, 0), P(0, -4) और Q(3, -2) को आलेखित कीजिए, और बिंदुओं को मिलाकर रेखा AB और PQ आकृति 3.1 के अनुसार बनाइए।

हम देखते हैं कि रेखाओं AB और PQ में एक उभयनिष्ठ बिंदु B(6, 0) है। इसलिए, रैखिक समीकरण युग्म का एक हल  $x = 6, y = 0$  है, अर्थात् समीकरण युग्म संगत है।



आकृति 3.1

**उदाहरण 2 :** ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं:

$$5x - 8y + 1 = 0 \quad (1)$$

$$3x - \frac{24}{5}y + \frac{3}{5} = 0 \quad (2)$$

**हल :** समीकरण (2) को  $\frac{5}{3}$  से गुणा करने पर, हम पाते हैं :

$$5x - 8y + 1 = 0$$

परंतु यह वही है जो समीकरण (1) है। अतः, समीकरणों (1) और (2) से निरूपित रेखाएँ संपाती हैं। इसलिए, समीकरणों (1) और (2) के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।

ग्राफ पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए और स्वयं जाँच कर लीजिए।

**उदाहरण 3 :** चंपा एक ‘सेल’ में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, “स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की चार गुनी से भी चार कम है।” सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदीं।

**हल :** आइए हम पैटों की संख्या को  $x$  तथा स्कर्ट की संख्या को  $y$  से निरूपित करें। तब, इनसे बनी समीकरण हैं:

$$y = 2x - 2 \quad (1)$$

और

$$y = 4x - 4 \quad (2)$$

अब आइए समीकरणों (1) और (2) के ग्राफ खींचने के लिए, प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करें। ये सारणी 3.3 में दिए हैं :

### सारणी 3.3


$x$	2	0
$y = 2x - 2$	2	-2

$x$	0	1
$y = 4x - 4$	-4	0

बिंदुओं को आलेखित कीजिए और समीकरणों को निरूपित करने के लिए उनसे जाने वाली रेखाएँ खींचिए, जैसा आकृति 3.2 में दिखाया गया है।

ये दोनों रेखाएँ बिंदु  $(1, 0)$  पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए  $x = 1, y = 0$  रैखिक समीकरण युग्म का अभीष्ट हल है, अर्थात् उसके द्वारा खरीदी गई पैंटों की संख्या 1 है और उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी है।

**जाँच :** (1) और (2) में  $x = 1$  और  $y = 0$  रखने पर हम पाते हैं कि दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाती हैं।



आकृति 3.2

### प्रश्नावली 3.1

- निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए।
  - कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
  - 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹ 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹ 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए।
- अनुपातों  $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}$  और  $\frac{c_1}{c_2}$  की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं :

(i)  $5x - 4y + 8 = 0$   
 $7x + 6y - 9 = 0$

(ii)  $9x + 3y + 12 = 0$   
 $18x + 6y + 24 = 0$

(iii)  $6x - 3y + 10 = 0$   
 $2x - y + 9 = 0$

3. अनुपातों  $\frac{a_1}{a_2}$ ,  $\frac{b_1}{b_2}$  और  $\frac{c_1}{c_2}$  की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगतः

(i)  $3x + 2y = 5$ ;  $2x - 3y = 7$

(ii)  $2x - 3y = 8$ ;  $4x - 6y = 9$

(iii)  $\frac{3}{2}x + \frac{5}{3}y = 7$ ;  $9x - 10y = 14$

(iv)  $5x - 3y = 11$ ;  $-10x + 6y = -22$

(v)  $\frac{4}{3}x + 2y = 8$ ;  $2x + 3y = 12$

4. निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत/असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए।

(i)  $x + y = 5$ ,  $2x + 2y = 10$

(ii)  $x - y = 8$ ,  $3x - 3y = 16$

(iii)  $2x + y - 6 = 0$ ,  $4x - 2y - 4 = 0$

(iv)  $2x - 2y - 2 = 0$ ,  $4x - 4y - 5 = 0$

5. एक आयताकार बाग, जिसकी लंबाई, चौड़ाई से 4 m अधिक है, का अर्धपरिमाप 36 m है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए।

6. एक रैखिक समीकरण  $2x + 3y - 8 = 0$  दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि

(i) प्रतिच्छेद करती रेखाएँ हों।

(ii) समांतर रेखाएँ हों।

(iii) संपाती रेखाएँ हों।

7. समीकरणों  $x - y + 1 = 0$  और  $3x + 2y - 12 = 0$  का ग्राफ खींचिए।  $x$ -अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।

### 3.3 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि

पिछले अनुच्छेद में, हमने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय विधि की चर्चा की। ग्राफीय विधि उस स्थिति में सुविधाजनक नहीं होती है, जब रैखिक समीकरणों के हलों को निरूपित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूर्णांक न हों, जैसे  $(\sqrt{3}, 2\sqrt{7})$ ,

$(-1.75, 3.3), \left(\frac{4}{13}, \frac{1}{19}\right)$  आदि। इस प्रकार के बिंदुओं को पढ़ने में आवश्यक रूप से त्रुटि होने की संभावना रहती है। क्या हल ज्ञात करने की कोई अन्य विधि भी है? इसकी कई बीजगणितीय (बीजीय) विधियाँ हैं, जिनकी हम अब चर्चा करेंगे।

**3.3.1 प्रतिस्थापन विधि :** हम प्रतिस्थापन विधि को कुछ उदाहरण लेकर समझाएँगे।

**उदाहरण 7 :** प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए :

$$7x - 15y = 2 \quad (1)$$

$$x + 2y = 3 \quad (2)$$

हल :

**चरण 1 :** हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। आइए समीकरण (2)

$$x + 2y = 3,$$

को लें और इसे  $x = 3 - 2y$  के रूप में लिखें। (3)

**चरण 2 :**  $x$  का यह मान समीकरण (1) में प्रतिस्थापित कीजिए। हम पाते हैं:

$$7(3 - 2y) - 15y = 2$$

$$\text{अर्थात्} \quad 21 - 14y - 15y = 2$$

$$\text{अर्थात्} \quad -29y = -19$$

$$\text{इसलिए} \quad y = \frac{19}{29}$$

**चरण 3 :**  $y$  का यह मान समीकरण (3) में प्रतिस्थापित करने पर, हम पाते हैं:

$$x = 3 - 2\left(\frac{19}{29}\right) = \frac{49}{29}$$

$$\text{अतः हल है: } x = \frac{49}{29}, y = \frac{19}{29}$$

**सत्यापन :**  $x = \frac{49}{29}$  और  $y = \frac{19}{29}$  को प्रतिस्थापित करने पर, आप जाँच कर सकते हैं कि दोनों समीकरण (1) और (2) संतुष्ट हो जाते हैं।

प्रतिस्थापन विधि को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए, आइए इस पर चरणबद्ध रूप से विचार करें।

**चरण 1 :** एक चर का मान, माना  $y$  को दूसरे चर, माना  $x$  के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कीजिए, जो सुविधाजनक हो।

**चरण 2 :**  $y$  के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए और इसको एक चर  $x$  के समीकरण के रूप में बदलिए, जिसको हल किया जा सकता है। कभी-कभी, जैसा कि निम्न उदाहरणों 9 तथा 10 में है, आप बिना किसी चर के कथन प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह कथन सत्य है, तो आप यह निर्णय कर सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि चरण 2 में प्राप्त कथन असत्य है, तो रैखिक समीकरण युग्म विरोधी है।

**चरण 3 :** चरण 2 से प्राप्त  $x$  (अथवा  $y$ ) का मान उस समीकरण, जिसे चरण 1 में प्रयोग किया है, में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान प्राप्त कीजिए।

**टिप्पणी :** हमने एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया है। इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं।

**उदाहरण 5 :** निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।

आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, ‘सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊँगा।’ (क्या यह मनोरंजक है?) इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए।

**हल :** माना आफ़ताब और उसकी पुत्री की आयु (वर्षों में) क्रमशः  $s$  और  $t$  हैं। तब, उस स्थिति को निरूपित करने के लिए, रैखिक समीकरण युग्म है:

$$s - 7 = 7(t - 7), \text{ अर्थात् } s - 7t + 42 = 0 \quad (1)$$

$$\text{तथा} \quad s + 3 = 3(t + 3), \text{ अर्थात् } s - 3t = 6 \quad (2)$$

समीकरण (2) का प्रयोग करने पर, हम पाते हैं:  $s = 3t + 6$

समीकरण (1) में  $s$  का मान रखने पर, हम पाते हैं:

$$(3t + 6) - 7t + 42 = 0$$

$$\text{अर्थात्} \quad 4t = 48, \text{ जिससे } t = 12 \text{ प्राप्त होता है।}$$

$t$  के इस मान को समीकरण (2) में रखने पर, हमें प्राप्त होता है:

$$s = 3(12) + 6 = 42$$

अतः, आफ़ताब और उसकी पुत्री क्रमशः 42 वर्ष और 12 वर्ष के हैं।

इस उत्तर की पुष्टि के लिए, यह जाँच कर लीजिए कि यह दी हुई समस्या के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है या नहीं।

**उदाहरण 6 :** एक दुकान में, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹ 9 है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹ 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए।

**हल :** रैखिक समीकरण युग्म जो बने थे वे हैं:

$$2x + 3y = 9 \quad (1)$$

$$4x + 6y = 18 \quad (2)$$

हम पहले समीकरण  $2x + 3y = 9$  से,  $x$  का मान  $y$  के पदों में व्यक्त करते हैं और पाते हैं :

$$x = \frac{9 - 3y}{2} \quad (3)$$

अब हम  $x$  के इस मान को समीकरण (2) में प्रतिस्थापित करके प्राप्त करते हैं:

$$\frac{4(9 - 3y)}{2} + 6y = 18$$

अर्थात्  $18 - 6y + 6y = 18$

अर्थात्  $18 = 18$

यह कथन  $y$  के सभी मानों के लिए सत्य है। यद्यपि, इससे  $y$  का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हम  $x$  का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि दोनों दिए गए समीकरण एक ही हैं। अतः समीकरणों (1) और (2) के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हम एक पेंसिल तथा एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दो हुई स्थिति में बहुत से सार्व (सर्वनिष्ठ) हल हैं।

**उदाहरण 7 :** दो रेल पटरियाँ, समीकरणों  $x + 2y - 4 = 0$  और  $2x + 4y - 12 = 0$  द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी?

**हल :** इसमें बनाए गए रैखिक समीकरण थे:

$$x + 2y - 4 = 0 \quad (1)$$

$$2x + 4y - 12 = 0 \quad (2)$$

समीकरण (1) से  $x$  को  $y$  के पदों में व्यक्त करके, हम पाते हैं:

$$x = 4 - 2y$$

अब,  $x$  के इस मान को समीकरण (2) में प्रतिस्थापित करके हम पाते हैं:

$$2(4 - 2y) + 4y - 12 = 0$$

अर्थात्  $8 - 12 = 0$

अर्थात्  $-4 = 0$

जो कि एक असत्य कथन है।

अतः, दिए गए समीकरणों का कोई सार्व हल नहीं है। इसलिए, दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी।

### प्रश्नावली 3.2

1. निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए:

$$(i) \quad x + y = 14$$

$$x - y = 4$$

$$(ii) \quad s - t = 3$$

$$\frac{s}{3} + \frac{t}{2} = 6$$

$$(iii) \quad 3x - y = 3$$

$$9x - 3y = 9$$

$$(iv) \quad 0.2x + 0.3y = 1.3$$

$$0.4x + 0.5y = 2.3$$

$$(v) \quad \sqrt{2}x + \sqrt{3}y = 0$$

$$(vi) \quad \frac{3x}{2} - \frac{5y}{3} = -2$$

$$\sqrt{3}x - \sqrt{8}y = 0$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{13}{6}$$

2.  $2x + 3y = 11$  और  $2x - 4y = -24$  को हल कीजिए और इससे ' $m$ ' का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए  $y = mx + 3$  हो।

3. निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए:

(i) दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए।

(ii) दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए।

(iii) एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदीं। बाद में, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।

(iv) एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 km दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 km के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति km भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 km यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा?

(v) यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह  $\frac{9}{11}$  हो जाती है। यदि

अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो वह  $\frac{5}{6}$  हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।

(vi) पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या हैं?

### 3.3.2 विलोपन विधि

अब आइए एक और विधि पर विचार करें जिसे एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। यह कभी-कभी प्रतिस्थापन विधि से अधिक सुविधाजनक रहती है। आइए अब देखें कि यह विधि कैसे की जाती है।

**उदाहरण 8 :** दो व्यक्तियों की आय का अनुपात  $9 : 7$  है और उनके खर्चों का अनुपात  $4 : 3$  है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में  $2000$  रु बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।

**हल :** आइए दोनों व्यक्तियों की मासिक आय को क्रमशः  $9x$  रु तथा  $7x$  रु से निरूपित करें और उनके खर्चों को क्रमशः  $4y$  रु और  $3y$  रु से निरूपित करें। तब, उस स्थिति में बने समीकरण हैं:

$$9x - 4y = 2000 \quad (1)$$

और  $7x - 3y = 2000 \quad (2)$

**चरण 1 :**  $y$  के गुणकों को समान करने के लिए समीकरण (1) को 3 से तथा समीकरण (2) को 4 से गुणा कीजिए। तब हम निम्नलिखित समीकरण प्राप्त करते हैं:

$$27x - 12y = 6000 \quad (3)$$

$$28x - 12y = 8000 \quad (4)$$

**चरण 2 :**  $y$  को विलुप्त करने के लिए समीकरण (3) को समीकरण (4) में से घटाइए, क्योंकि  $y$  के गुणांक समान हैं, इसलिए हम पाते हैं:

$$(28x - 27x) - (12y - 12y) = 8000 - 6000$$

अर्थात्  $x = 2000$

**चरण 3 :**  $x$  का मान (1) में प्रतिस्थापित करने पर, हम पाते हैं:

$$9(2000) - 4y = 2000$$

अर्थात्  $y = 4000$

अतः समीकरणों के युग्म का हल  $x = 2000, y = 4000$  है। इसलिए, व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः ₹  $18000$  तथा ₹  $14000$  हैं।

**सत्यापन :**  $18000 : 14000 = 9 : 7$  है। साथ ही, उनके खर्चों का अनुपात

$$18000 - 2000 : 14000 - 2000 = 16000 : 12000 = 4 : 3 \text{ है।}$$

### टिप्पणी :

- उपर्युक्त उदाहरण को हल करने में, उपयोग की गई विधि को **विलोपन विधि (elimination method)** कहते हैं, क्योंकि हम सर्वप्रथम एक चर को विलुप्त करके, एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में, हमने  $y$  को विलुप्त किया है। हम  $x$  को भी विलुप्त कर सकते थे। इस प्रकार भी समीकरणों को हल करने का प्रयत्न कीजिए।
- आप इसको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि या ग्राफीय विधि का प्रयोग भी कर सकते थे। इन विधियों से भी हल कीजिए और देखिए कौन-सी विधि सबसे उपयुक्त है। आइए अब हम विलोपन विधि के प्रयोग के विभिन्न चरण बताएँ:

**चरण 1 :** सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर अचरों से, किसी एक चर ( $x$  अथवा  $y$ ) के गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए, गुणा कीजिए।

**चरण 2 :** पुनः एक समीकरण को दूसरे में जोड़ें या उसमें से घटाएँ जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं, तो चरण 3 में जाइए।

यदि चरण 2 में, हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो, तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।

यदि चरण 2 में, हमें एक चर रहित असत्य कथन मिले, तो मूल समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात् यह असंगत है।

**चरण 3 :** इस प्रकार एक चर ( $x$  या  $y$ ) में प्राप्त समीकरण को, उस चर का मान ज्ञात करने के लिए, हल कीजिए।

**चरण 4 :**  $x$  (या  $y$ ) के इस मान को मूल समीकरणों में से किसी एक में, दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए, प्रतिस्थापित कीजिए।

अब इसे समझाने के लिए, हम कुछ और उदाहरण हल करते हैं :

**उदाहरण 9 :** विलोपन विधि का प्रयोग करके, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए:

$$2x + 3y = 8 \quad (1)$$

$$4x + 6y = 7 \quad (2)$$

**हल :**

**चरण 1 :** समीकरण (1) को 2 से तथा समीकरण (2) को 1 से,  $x$  के गुणांकों को समान करने के लिए, गुणा करिए। तब हम निम्न समीकरण पाते हैं:

$$4x + 6y = 16 \quad (3)$$

$$4x + 6y = 7 \quad (4)$$

**चरण 2 :** समीकरण (4) को समीकरण (3) में से घटाने पर,

$$(4x - 4x) + (6y - 6y) = 16 - 7$$

अर्थात्  $0 = 9$ , जो एक असत्य कथन है।

अतः, समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है।

**उदाहरण 10 :** दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएँ कितनी हैं?

**हल :** माना प्रथम संख्या की दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः  $x$  और  $y$  हैं। इसलिए, प्रथम संख्या को प्रसारित रूप में  $10x + y$  लिख सकते हैं [उदाहरण के लिए,  $56 = 10(5) + 6$ ]।

जब अंक उलट जाते हैं, तो  $x$  इकाई का अंक बन जाता है तथा  $y$  दहाई का अंक। यह संख्या प्रसारित रूप में  $10y + x$  है [उदाहरण के लिए, जब 56 को उलट दिया जाता है, तो हम पाते हैं:  $65 = 10(6) + 5$ ]।

दिए हुए प्रतिबंधों के अनुसार,

$$(10x + y) + (10y + x) = 66$$

$$\text{अर्थात्} \quad 11(x + y) = 66$$

$$\text{अर्थात्} \quad x + y = 6 \quad (1)$$

हमें यह भी दिया गया है कि अंकों का अंतर 2 है। इसलिए,

$$\text{या तो} \quad x - y = 2 \quad (2)$$

$$\text{या} \quad y - x = 2 \quad (3)$$

यदि  $x - y = 2$  है, तो (1) और (2) को विलोपन विधि से हल करने पर,  $x = 4$  और  $y = 2$  प्राप्त होता है। इस स्थिति में, हमें संख्या 42 प्राप्त होती है।

यदि  $y - x = 2$  है, तो (1) और (3) को विलोपन विधि से हल करने पर, हमें  $x = 2$  और  $y = 4$  प्राप्त होता है। इस स्थिति में, हमें संख्या 24 प्राप्त होती है।

इस प्रकार ऐसी दो संख्याएँ 42 और 24 हैं।

**सत्यापन :** यहाँ  $42 + 24 = 66$  और  $4 - 2 = 2$  है तथा  $24 + 42 = 66$  और  $4 - 2 = 2$  है।

### प्रश्नावली 3.3

- निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन-सी विधि अधिक उपयुक्त है?
  - $x + y = 5$  और  $2x - 3y = 4$
  - $3x + 4y = 10$  और  $2x - 2y = 2$
  - $3x - 5y - 4 = 0$  और  $9x = 2y + 7$
  - $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} = -1$  और  $x - \frac{y}{3} = 3$
- निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल (यदि उनका अस्तित्व हो) विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए :
  - यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, तो यह  $\frac{1}{2}$  हो जाती है। वह भिन्न क्या है?
  - पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी। दस वर्ष पश्चात्, नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है।
  - दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का नौ गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
  - मीना ₹ 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजाँची से ₹ 50 तथा ₹ 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹ 50 और ₹ 100 के कितने-कितने नोट प्राप्त किए।
  - किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम तीन दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने सात दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹ 27 अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक पाँच दिनों तक रखने के ₹ 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए।

### 3.4 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है :

- एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है
  - ग्राफीय विधि द्वारा
  - बीजगणितीय विधि द्वारा

## 2. ग्राफीय विधि:

दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएँ निरूपित करता है।

- (i) यदि रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो, वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में, समीकरण युग्म संगत होता है।
  - (ii) यदि रेखाएँ संपाती हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं—रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में, समीकरण युग्म आश्रित (संगत) होता है।
  - (iii) यदि रेखाएँ समांतर हैं, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में, समीकरण युग्म असंगत होता है।
3. बीजगणितीय विधि : हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों की चर्चा की है:
    - (i) प्रतिस्थापन विधि
    - (ii) विलोपन विधि
    - (iii) वज्र-गुणन विधि
  4. यदि दिए गए रैखिक समीकरण  $a_1x + b_1y + c_1 = 0$  और  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:
    - (i)  $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$  : इस स्थिति में, रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है।
    - (ii)  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$  : इस स्थिति में, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है।
    - (iii)  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$  : इस स्थिति में, रैखिक समीकरण युग्म आश्रित (संगत) होता है।
  5. अनेक स्थितियाँ हैं जिन्हें गणितीय रूप में ऐसी दो समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो प्रारंभ में रैखिक नहीं हों। परंतु हम उन्हें परिवर्तित कर एक रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं।




1063CH04

## द्विघात समीकरण

4

### 4.1 भूमिका

अध्याय 2 में, आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है।  $ax^2 + bx + c, a \neq 0$  एक प्रकार का द्विघात बहुपद था। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। वास्तविक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने में हम द्विघात समीकरणों का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से एक मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? माना कक्ष की चौड़ाई  $x$  मीटर है। तब, उसकी लंबाई  $(2x + 1)$  मीटर होनी चाहिए। हम इस सूचना को चित्रीय रूप में आकृति 4.1 जैसा दिखा सकते हैं।



आकृति 4.1

अब

$$\text{कक्ष का क्षेत्रफल} = (2x + 1) \cdot x \text{ m}^2 = (2x^2 + x) \text{ m}^2$$

इसलिए

$$2x^2 + x = 300 \quad (\text{दिया है})$$

अतः

$$2x^2 + x - 300 = 0$$

इसलिए, कक्ष की चौड़ाई, समीकरण  $2x^2 + x - 300 = 0$ , जो एक द्विघात समीकरण है, को संतुष्ट करना चाहिए।

अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोनवासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों को हल किया था। उदाहरण के लिए, वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है, जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो। ध्यान दीजिए कि यह समस्या

$x^2 - px + q = 0$  के प्रकार के समीकरण को हल करने के तुल्य हैं। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयाँ ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। व्यापक रूप में, द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में, ब्रह्मगुप्त (सा.यु. 598-665) ने  $ax^2 + bx = c$  के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में, श्रीधराचार्य (सा.यु. 1025) ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ (जैसा भास्कर II ने लिखा)। एक अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी (लगभग सा.यु. 800) ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। अब्राहम बार हिय्या हा-नासी यूरो ने 1145 में छपी अपनी पुस्तक 'लिबर इंबाडोरम' में विभिन्न द्विघात समीकरणों के पूर्ण हल दिए।

इस अध्याय में, आप द्विघात समीकरणों और उनके हल ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन की कई स्थितियों में भी आप द्विघात समीकरणों के कुछ उपयोग देखेंगे।

## 4.2 द्विघात समीकरण

चर  $x$  में एक द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार की होती है, जहाँ  $a, b, c$  वास्तविक संख्याएँ हैं तथा  $a \neq 0$  है। उदाहरण के लिए,  $2x^2 + x - 300 = 0$  एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार,  $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ,  $4x - 3x^2 + 2 = 0$  और  $1 - x^2 + 300 = 0$  भी द्विघात समीकरण हैं।

वास्तव में, कोई भी समीकरण  $p(x) = 0$ , जहाँ  $p(x)$ , घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम  $p(x)$  के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। अर्थात्  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$ , द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है।

द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियों एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए :

- (i) जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पाँच-पाँच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने-कितने कंचे थे।
- (ii) एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य (₹ में) 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से

प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन, कुल निर्माण लागत ₹ 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे।

**हल :**

(i) माना कि जॉन के कंचों की संख्या  $x$  थी।

तब जीवंती के कंचों की संख्या  $= 45 - x$  (क्यों?)

जॉन के पास, 5 कंचे खो देने के बाद, बचे कंचों की संख्या  $= x - 5$

$$\begin{aligned} \text{जीवंती के पास, 5 कंचे खोने के बाद, बचे कंचों की संख्या} &= 45 - x - 5 \\ &= 40 - x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{अतः उनका गुणनफल} &= (x - 5)(40 - x) \\ &= 40x - x^2 - 200 + 5x \\ &= -x^2 + 45x - 200 \end{aligned}$$

$$\text{अब } -x^2 + 45x - 200 = 124 \quad (\text{दिया है कि गुणनफल} = 124)$$

$$\text{अर्थात् } -x^2 + 45x - 324 = 0$$

$$\text{अर्थात् } x^2 - 45x + 324 = 0$$

अतः जॉन के पास जितने कंचे थे, जो समीकरण

$$x^2 - 45x + 324 = 0$$

को संतुष्ट करते हैं।

(ii) माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या  $x$  है।

इसलिए, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत (रुपयों में)  $= 55 - x$

अतः, उस दिन कुल निर्माण लागत (रुपयों में)  $= x(55 - x)$

$$\text{इसलिए } x(55 - x) = 750$$

$$\text{अर्थात् } 55x - x^2 = 750$$

$$\text{अर्थात् } -x^2 + 55x - 750 = 0$$

$$\text{अर्थात् } x^2 - 55x + 750 = 0$$

अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण

$$x^2 - 55x + 750 = 0$$

को संतुष्ट करती है।

**उदाहरण 2 :** जाँच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं:

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| (i) $(x - 2)^2 + 1 = 2x - 3$ | (ii) $x(x + 1) + 8 = (x + 2)(x - 2)$ |
| (iii) $x(2x + 3) = x^2 + 1$  | (iv) $(x + 2)^3 = x^3 - 4$           |

**हल :**

(i) बायाँ पक्ष  $= (x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 4 + 1 = x^2 - 4x + 5$

इसलिए  $(x - 2)^2 + 1 = 2x - 3$  को

$$x^2 - 4x + 5 = 2x - 3 \text{ लिखा जा सकता है।}$$

अर्थात्

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का है।

अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

(ii) चूँकि  $x(x + 1) + 8 = x^2 + x + 8$  और  $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$  है,

इसलिए  $x^2 + x + 8 = x^2 - 4$

अर्थात्

$$x + 12 = 0$$

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का समीकरण नहीं है। इसलिए, दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है।

(iii) यहाँ बायाँ पक्ष  $= x(2x + 3) = 2x^2 + 3x$

अतः  $x(2x + 3) = x^2 + 1$  को लिखा जा सकता है:

$$2x^2 + 3x = x^2 + 1$$

इसलिए  $x^2 + 3x - 1 = 0$  हमें प्राप्त होता है।

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का समीकरण है।

अतः, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

(iv) यहाँ बायाँ पक्ष  $= (x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

अतः  $(x + 2)^3 = x^3 - 4$  को लिखा जा सकता है:

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = x^3 - 4$$

अर्थात्

$$6x^2 + 12x + 12 = 0 \quad \text{या} \quad x^2 + 2x + 2 = 0$$

यह  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का समीकरण है।

अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।

**टिप्पणी :** ध्यान दीजिए कि उपर्युक्त (ii) में, दिया गया समीकरण देखने में द्विघात समीकरण लगता है, परंतु यह द्विघात समीकरण नहीं है।

उपर्युक्त (iv) में, समीकरण देखने में त्रिघात (घात 3 का समीकरण) लगता है और द्विघात नहीं लगता है। परंतु वह द्विघात समीकरण निकलता है। जैसा आप देखते हैं समीकरण को यह तय करने कि वह द्विघात है अथवा नहीं, हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक है।

### प्रश्नावली 4.1

1. जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं :

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| (i) $(x+1)^2 = 2(x-3)$          | (ii) $x^2 - 2x = (-2)(3-x)$           |
| (iii) $(x-2)(x+1) = (x-1)(x+3)$ | (iv) $(x-3)(2x+1) = x(x+5)$           |
| (v) $(2x-1)(x-3) = (x+5)(x-1)$  | (vi) $x^2 + 3x + 1 = (x-2)^2$         |
| (vii) $(x+2)^3 = 2x(x^2 - 1)$   | (viii) $x^3 - 4x^2 - x + 1 = (x-2)^3$ |

2. निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए :

- एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल  $528 \text{ m}^2$  है। क्षेत्र की लंबाई (मीटरों में) चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।
- दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।
- रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल अब से तीन वर्ष पश्चात् 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
- एक रेलगाड़ी  $480 \text{ km}$  की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल  $8 \text{ km/h}$  कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।

### 4.3 गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल

द्विघात समीकरण  $2x^2 - 3x + 1 = 0$  पर विचार कीजिए। यदि हम इस समीकरण के बाएँ पक्ष में  $x$  को 1 से प्रतिस्थापित करें, तो हमें प्राप्त होता है:  $(2 \times 1^2) - (3 \times 1) + 1 = 0 =$  समीकरण का दाँया पक्ष। हम कहते हैं कि 1 द्विघात समीकरण  $2x^2 - 3x + 1 = 0$  का एक मूल है। इसका यह भी अर्थ है कि 1 द्विघात बहुपद  $2x^2 - 3x + 1$  का एक शून्यक है।

व्यापक रूप में, एक वास्तविक संख्या  $\alpha$  द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  का एक मूल कहलाती है, यदि  $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$  हो। हम यह भी कहते हैं कि  $x = \alpha$  द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा  $\alpha$  द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए कि द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  के शून्यक और द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल एक ही हैं।

आपने अध्याय 2 में, देखा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। अतः, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं।

आपने कक्षा IX में सीखा है कि कैसे मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जा सकते हैं। हम इस ज्ञान का प्रयोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में करेंगे। आइए देखें कैसे।

**उदाहरण 3 :** गुणनखंडन द्वारा समीकरण  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  के मूल ज्ञात कीजिए।

**हल :** सर्वप्रथम, हम मध्य पद  $-5x$  को  $-2x - 3x$  [क्योंकि  $(-2x) \times (-3x) = 6x^2 = (2x^2) \times 3$ ] के रूप में विभक्त करते हैं।

$$\text{अतः, } 2x^2 - 5x + 3 = 2x^2 - 2x - 3x + 3 = 2x(x - 1) - 3(x - 1) = (2x - 3)(x - 1)$$

इसलिए,  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  को  $(2x - 3)(x - 1) = 0$  के रूप में पुनः लिखा जा सकता है।

अतः,  $x$  के वे मान जिनके लिए  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  वही हैं, जो  $(2x - 3)(x - 1) = 0$  से प्राप्त हैं, अर्थात्  $2x - 3 = 0$  या  $x - 1 = 0$  से प्राप्त होंगे।

अब,  $2x - 3 = 0$ ,  $x = \frac{3}{2}$  देता है और  $x - 1 = 0$ ,  $x = 1$  देता है।

अतः,  $x = \frac{3}{2}$  और  $x = 1$  दिए हुए समीकरण के हल हैं।

दूसरे शब्दों में, 1 और  $\frac{3}{2}$  समीकरण  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  के मूल हैं।

जाँच कीजिए कि ये ही दिए गए समीकरण के मूल हैं।

ध्यान दीजिए कि हमने समीकरण  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  के मूलों को  $2x^2 - 5x + 3$  के दो रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडित करके और प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके प्राप्त किए हैं।

**उदाहरण 4 :** द्विघात समीकरण  $6x^2 - x - 2 = 0$  के मूल ज्ञात कीजिए।

**हल :** हमें प्राप्त है:

$$\begin{aligned} 6x^2 - x - 2 &= 6x^2 + 3x - 4x - 2 \\ &= 3x(2x + 1) - 2(2x + 1) \\ &= (3x - 2)(2x + 1) \end{aligned}$$

$6x^2 - x - 2 = 0$  के मूल  $x$  के वे मान हैं, जिनके लिए  $(3x - 2)(2x + 1) = 0$  हो।

इसलिए  $3x - 2 = 0$  या  $2x + 1 = 0$

अर्थात्  $x = \frac{2}{3}$  या  $x = -\frac{1}{2}$

अतः  $6x^2 - x - 2 = 0$  के मूल  $\frac{2}{3}$  और  $-\frac{1}{2}$  हैं।

हम मूलों के सत्यापन के लिए यह जाँच करते हैं कि  $\frac{2}{3}$  और  $-\frac{1}{2}$  समीकरण  $6x^2 - x - 2 = 0$  को संतुष्ट करते हैं या नहीं।

**उदाहरण 5 :** द्विघात समीकरण  $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$  के मूल ज्ञात कीजिए।

**हल :**  $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 3x^2 - \sqrt{6}x - \sqrt{6}x + 2$   
 $= \sqrt{3}x(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) - \sqrt{2}(\sqrt{3}x - \sqrt{2})$   
 $= (\sqrt{3}x - \sqrt{2})(\sqrt{3}x - \sqrt{2})$

अतः समीकरण के मूल  $x$  के बे मान हैं, जिनके लिए

$$(\sqrt{3}x - \sqrt{2})(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) = 0$$

अब  $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$  के लिए,  $\sqrt{3}x - \sqrt{2} = 0$  है।

अतः यह मूल, गुणनखंड  $\sqrt{3}x - \sqrt{2}$  के दो बार आने के कारण, दो बार आता है, अर्थात् इस मूल की पुनरावृत्ति होती है।

इसलिए  $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$  के मूल  $\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}$  हैं।

**उदाहरण 6 :** अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात कीजिए।

**हल :** अनुच्छेद 4.1 में हमने ज्ञात किया था कि यदि कक्ष की चौड़ाई  $x$  m हो, तो  $x$  समीकरण  $2x^2 + x - 300 = 0$  को संतुष्ट करता है। गुणनखंडन विधि का प्रयोग कर, हम इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिखते हैं :

$$2x^2 - 24x + 25x - 300 = 0$$

या  $2x(x - 12) + 25(x - 12) = 0$

अर्थात्  $(x - 12)(2x + 25) = 0$

अतः, दिए गए समीकरण के मूल  $x = 12$  या  $x = -12.5$  हैं। क्योंकि  $x$  कक्ष की चौड़ाई है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकती।

इसलिए, कक्ष की चौड़ाई 12 m है। इसकी लंबाई  $= 2x + 1 = 25$  m होगी।

### प्रश्नावली 4.2

1. गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए:

$$(i) \ x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$(ii) \ 2x^2 + x - 6 = 0$$

$$(iii) \ \sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$$

$$(iv) \ 2x^2 - x + \frac{1}{8} = 0$$

$$(v) \ 100x^2 - 20x + 1 = 0$$

2. उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए।

3. ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो।

4. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।

5. एक समकोण त्रिभुज की ऊँचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो, तो अन्य दो भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

6. एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत (₹ में) उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹ 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।

### 4.4 मूलों की प्रकृति

समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

द्वारा देय होते हैं। यदि  $b^2 - 4ac > 0$  है, तो हम दो भिन्न वास्तविक मूल  $-\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

और  $-\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  प्राप्त करते हैं।

यदि  $b^2 - 4ac = 0$  है तो  $x = -\frac{b}{2a} \pm 0$ , अर्थात्  $x = -\frac{b}{2a}$  या  $-\frac{b}{2a}$  है।

अतः, समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के दोनों मूल  $\frac{-b}{2a}$  हैं।

इसलिए, हम कहते हैं कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के दो बराबर वास्तविक मूल हैं।

यदि  $b^2 - 4ac < 0$  है, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है, जिसका वर्ग  $b^2 - 4ac$  हो। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं हैं।

क्योंकि  $b^2 - 4ac$  यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं,  $b^2 - 4ac$  को इस द्विघात समीकरण का **विविक्तकर (Discriminant)** कहते हैं।

अतः, द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के

- दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac > 0$  हो
- दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac = 0$  हो
- कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यदि  $b^2 - 4ac < 0$  हो

आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें।

**उदाहरण 7 :** द्विघात समीकरण  $2x^2 - 4x + 3 = 0$  का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

**हल :** दिया गया समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का है, जहाँ  $a = 2$ ,  $b = -4$  और  $c = 3$  है। इसलिए, विविक्तकार


$$b^2 - 4ac = (-4)^2 - (4 \times 2 \times 3) = 16 - 24 = -8 < 0 \text{ है।}$$

अतः, दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं हैं।

**उदाहरण 8 :** 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ा है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ा है?

**हल :** आइए सर्वप्रथम एक चित्र बनाएँ (देखिए आकृति 4.2)।

माना खंभे की अभीष्ट स्थिति P है। माना खंभे की फाटक B से दूरी  $x$  m है अर्थात्  $BP = x$  m है। अब खंभे की दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर  $= AP - BP$  (या  $BP - AP$ )  $= 7$  m है। इसलिए,  $AP = (x + 7)$  m होगा।



आकृति 4.2

साथ ही,  $AB = 13\text{m}$  है। चूँकि  $AB$  व्यास है, इसलिए

$$\angle APB = 90^\circ \quad (\text{क्यों?})$$

इसलिए

$$AP^2 + PB^2 = AB^2 \quad (\text{पाइथागोरस प्रमेय द्वारा})$$

अर्थात्

$$(x + 7)^2 + x^2 = 13^2$$

अर्थात्

$$x^2 + 14x + 49 + x^2 = 169$$

अर्थात्

$$2x^2 + 14x - 120 = 0$$

अतः खंभे की फाटक  $B$  से दूरी ' $x$ ' समीकरण  $x^2 + 7x - 60 = 0$  को संतुष्ट करती है।

यह देखने के लिए कि ऐसा संभव है अथवा नहीं, आइए इसके विविक्तकर पर विचार करें। विविक्तकर है:

$$b^2 - 4ac = 7^2 - 4 \times 1 \times (-60) = 289 > 0$$

अतः, दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं और इसीलिए खंभे को पार्क की परिसीमा पर गाड़ा जा सकना संभव है।

द्विघात समीकरण  $x^2 + 7x - 60 = 0$  को द्विघाती सूत्र से हल करने पर, हम पाते हैं:

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{289}}{2} = \frac{-7 \pm 17}{2}$$

इसलिए,  $x = 5$  या  $-12$  है।

चूँकि  $x$  खंभे और फाटक  $B$  के बीच की दूरी है, यह धनात्मक होना चाहिए। इसलिए,  $x = -12$  को छोड़ देते हैं। अतः,  $x = 5$  है।

इस प्रकार, खंभे को पार्क की परिसीमा पर फाटक  $B$  से  $5\text{m}$  और फाटक  $A$  से  $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12\text{m}$  की दूरी पर गाड़ा है।

**उदाहरण 9 :** समीकरण  $3x^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$  का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं, तो उन्हें ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ  $a = 3$ ,  $b = -2$ ,  $c = \frac{1}{3}$  है।

इसलिए विविक्तकर  $b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 3 \times \frac{1}{3} = 4 - 4 = 0$  है।

अतः द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं।

ये मूल  $\frac{-b}{2a}, \frac{-b}{2a}$ , अर्थात्  $\frac{2}{6}, \frac{2}{6}$ , अर्थात्  $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$  हैं।

### प्रश्नावली 4.3

- निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए :
  - $2x^2 - 3x + 5 = 0$
  - $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$
  - $2x^2 - 6x + 3 = 0$
- निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में  $k$  का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों।
  - $2x^2 + kx + 3 = 0$
  - $kx(x - 2) + 6 = 0$
- क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल  $800 \text{ m}^2$  हो? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
- क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चार वर्ष पूर्व उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल 48 था।
- क्या परिमाप 80 m तथा क्षेत्रफल 400  $\text{m}^2$  के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

### 4.5 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है:

- चर  $x$  में एक द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के प्रकार का होता है, जहाँ  $a, b, c$  वास्तविक संख्याएँ हैं और  $a \neq 0$  है।
- एक वास्तविक संख्या  $\alpha$  द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  का एक मूल कहलाती है, यदि  $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$  हो। द्विघात बहुपद  $ax^2 + bx + c$  के शून्यक और द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल एक ही होते हैं।
- यदि हम  $ax^2 + bx + c, a \neq 0$  के दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड कर सकें, तो द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल, प्रत्येक गुणक के शून्य के बराबर करके, प्राप्त कर सकते हैं।
- द्विघाती सूत्र: द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के मूल  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  द्वारा देय होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac \geq 0$  हो।

5. एक द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  में,
- (i) दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac > 0$  हो।
  - (ii) दो बराबर मूल (अर्थात् संपाती वास्तविक मूल) होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac = 0$  हो और
  - (iii) कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, यदि  $b^2 - 4ac < 0$  हो।



1063CH05

## समांतर श्रेढ़ियाँ

**5**

### 5.1 भूमिका

आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में, अनेक वस्तुएँ एक निश्चित प्रतिरूप (pattern) का अनुसरण करती हैं, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधु-कोष (या मधु-छत्ते) में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनन्नास और एक पाइन कोन (pine cone) पर सर्पिल, इत्यादि


अब हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों की ओर देखते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं :

- (i) रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे यह पद ₹ 8000 के मासिक वेतन और ₹ 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन (₹ में) पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, इत्यादि के लिए क्रमशः

8000, 8500, 9000, ... होगा।

- (ii) एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 cm घटती जाती हैं। (देखिए आकृति 5.1)। सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 cm है। नीचे से, पहले, दूसरे, तीसरे, . . . डंडों की लंबाइयाँ (cm में) क्रमशः

45, 43, 41, 39, 37, 35, 33 और 31 हैं।




आकृति 5.1

- (iii) किसी बचत योजना में, कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद स्वयं की  $\frac{5}{4}$  गुनी हो जाती

है। ₹8000 के निवेश की 3, 6, 9 और 12 वर्षों के बाद परिपक्वता राशियाँ (रुपयों में) क्रमशः:

10000, 12500, 15625, और 19531.25 हैं।

(iv) भुजाओं 1, 2, 3, ... मात्रकों (units) वाले वर्गों में मात्रक वर्गों की संख्याएँ (देखिए आकृति 5.2) क्रमशः  $1^2, 2^2, 3^2, \dots$  हैं।




आकृति 5.2

(v) शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में ₹ 100 तब डालती है, जब वह एक वर्ष की हो जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें ₹ 50 की वृद्धि करती जाती है। उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ... जन्म दिवसों पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियाँ (रुपयों में) क्रमशः

100, 150, 200, 250, ... होंगी।

(vi) खरगोशों का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने के योग्य नहीं है। दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में वे एक नए युग्म का प्रजनन करते हैं। प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है (देखिए आकृति 5.3)। यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है, पहले, दूसरे, तीसरे, ..., छठे महीने के प्रारंभ में खरगोशों के युग्मों की संख्या क्रमशः 1, 1, 2, 3, 5 और 8 होगी।



आकृति 5.3

उपरोक्त उदाहरणों में, हम कुछ प्रतिरूप देखते हैं। कुछ में, हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होते हैं; कुछ में ये पद अपने से पहले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त होते हैं तथा कुछ अन्य में हम यह देखते हैं कि ये क्रमागत संख्याओं के वर्ग हैं, इत्यादि।

इस अध्याय में, हम इनमें से एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे जिसमें उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किए जाते हैं। हम यह भी देखेंगे कि इनके  $n$ वें पद और  $n$  क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं तथा इस ज्ञान का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे।

## 5.2 समांतर श्रेढ़ियाँ

संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों (lists) पर विचार कीजिए:

- (i) 1, 2, 3, 4, ...
- (ii) 100, 70, 40, 10, ...
- (iii) -3, -2, -1, 0, ...
- (iv) 3, 3, 3, 3, ...
- (v) -1.0, -1.5, -2.0, -2.5, ...

सूची की प्रत्येक संख्या एक पद (term) कहलाता है।

उपरोक्त सूचियों में से प्रत्येक सूची में, यदि आपको एक पद दिया हो, तो क्या आप उसका अगला पद लिख सकते हैं? यदि हाँ, तो आप ऐसा कैसे करेंगे? शायद, किसी प्रतिरूप या नियम का अनुसरण करते हुए, आप ऐसा करेंगे। आइए, उपरोक्त सूचियों को देखें और इनमें संबद्ध नियम को लिखें।

- (i) में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 1 अधिक है।
- (ii) में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है।
- (iii) में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में 1 जोड़ने से प्राप्त होता है।
- (iv) में सभी पद 3 हैं, अर्थात् प्रत्येक पद अपने पिछले पद में शून्य जोड़कर (या उसमें से शून्य घटा कर प्राप्त होता है।)
- (v) में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में -0.5 जोड़कर (अर्थात् उसमें से 0.5 घटाकर) प्राप्त होता है।

उपरोक्त सूचियों में से प्रत्येक में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों

में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेढ़ी (Arithmetic Progression या A.P.) बना रहे हैं।

अतः, एक समांतर श्रेढ़ी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद (पहले पद के अतिरिक्त) अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है।

यह निश्चित संख्या A.P. का सार्व अंतर (common difference) कहलाती है। यदि खिए, यह सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।

आइए एक A.P. के पहले पद को  $a_1$ , दूसरे पद को  $a_2, \dots, a_n$  वें पद को  $a_n$  तथा सार्व अंतर को  $d$  से व्यक्त करें। तब, A.P.,  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  हो जाती है।

अतः  $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots = a_n - a_{n-1} = d$  है।

A.P. के कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(a) किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊँचाइयाँ (cm में) 147, 148, 149, ..., 157 हैं।

(b) किसी शहर में, जनवरी मास में किसी सप्ताह में लिए गए न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में) आरोही क्रम में लिखने पर

$-3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6, -2.5$  हैं।

(c) ₹ 1000 के एक ऋण में से प्रत्येक मास 5% ऋण की राशि वापिस करने पर शेष राशियाँ (₹ में) 950, 900, 850, 800, ..., 50 हैं।

(d) किसी स्कूल द्वारा कक्षाओं I से XII तक के सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार (₹ में) क्रमशः 200, 250, 300, 350, ..., 750 हैं।

(e) जब प्रति मास ₹ 50 की बचत की जाती है, तो 10 मास के लिए, प्रत्येक मास के अंत में कुल बचत की राशियाँ (₹ में) 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 हैं।

यह आपके अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है कि आप स्पष्ट करें कि उपरोक्त में प्रत्येक सूची एक A.P. क्यों है।

आप यह देख सकते हैं कि

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$$

एक समांतर श्रेढ़ी को निरूपित करती है, जहाँ  $a$  पहला पद है और  $d$  सार्व अंतर है। इसे A.P. का व्यापक रूप (general form) कहते हैं।

ध्यान दीजिए कि उपरोक्त उदाहरणों (a) से (e) में, पदों की संख्या परिमित (finite) है। ऐसी A.P. को एक परिमित A.P. कहते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक A.P. का एक अंतिम पद (last term) है। इसी अनुच्छेद के उदाहरणों (i) से (v) में दी हुई A.P. परिमित A.P. नहीं हैं। ये **अपरिमित A.P.** (Infinite Arithmetic Progressions) कहलाती हैं। ऐसी A.P. में अंतिम पद नहीं होते।

अब एक A.P. के बारे में जानने के लिए आपको न्यूनतम किस सूचना की आवश्यकता होती है? क्या इसके प्रथम पद की जानकारी पर्याप्त है? या क्या इसके केवल सार्व अंतर की जानकारी पर्याप्त है? आप पाएँगे कि आपको इन दोनों अर्थात् प्रथम पद  $a$  और सार्व अंतर  $d$  की जानकारी होना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ, यदि प्रथम पद  $a = 6$  है और सार्व अंतर  $d = 3$  है तो  
 $6, 9, 12, 15, \dots$  A.P. है।

तथा यदि  $a = 6$  है और  $d = -3$  है तो

$6, 3, 0, -3, \dots$  A.P. है।

इसी प्रकार, जब

$$a = -7, \quad d = -2, \quad \text{तो } -7, -9, -11, -13, \dots \text{ A.P. है।}$$

$$a = 1.0, \quad d = 0.1, \quad \text{तो } 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, \dots \text{ A.P. है।}$$

$$a = 0, \quad d = 1\frac{1}{2}, \quad \text{तो } 0, 1\frac{1}{2}, 3, 4\frac{1}{2}, 6, \dots \text{ A.P. है।}$$

$$a = 2, \quad d = 0, \quad \text{तो } 2, 2, 2, 2, \dots \text{ A.P. है।}$$

अतः यदि आपको  $a$  और  $d$  ज्ञात हों तो A.P. लिख सकते हैं। इसकी विपरीत प्रक्रिया के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अर्थात् यदि आपको संख्याओं की एक सूची दी हुई है, तो क्या आप कह सकते हैं कि यह एक A.P. है और फिर इसके  $a$  और  $d$  ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि  $a$  प्रथम पद है, इसलिए इसे सरलता से लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि एक A.P. में, प्रत्येक उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में  $d$  जोड़कर प्राप्त होता है। अतः, एक A.P. के लिए, उसके प्रत्येक पद को उससे अगले पद में से घटाने से प्राप्त  $d$  सभी पदों के लिए एक ही होगा। उदाहरणार्थ, संख्याओं की सूची

$$6, 9, 12, 15, \dots$$

के लिए हमें प्राप्त है:

$$a_2 - a_1 = 9 - 6 = 3$$

$$a_3 - a_2 = 12 - 9 = 3$$

$$a_4 - a_3 = 15 - 12 = 3$$

यहाँ, प्रत्येक स्थिति में, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर 3 है। अतः, संख्याओं की उपरोक्त दी हुई चर्चा सूची एक A.P. है, जिसका प्रथम पद  $a = 6$  है तथा सार्व अंतर  $d = 3$  है।

संख्याओं की सूची : 6, 3, 0, -3, ... के लिए

$$a_2 - a_1 = 3 - 6 = -3$$

$$a_3 - a_2 = 0 - 3 = -3$$

$$a_4 - a_3 = -3 - 0 = -3$$

अतः यह भी एक A.P. है जिसका प्रथम पद 6 है और सार्व अंतर -3 है।

व्यापक रूप में, A.P.  $a_1, a_2, \dots, a_n$  के लिए,

$$d = a_{k+1} - a_k$$

जहाँ  $a_{k+1}$  और  $a_k$  क्रमशः  $(k+1)$ वें और  $k$ वें पद हैं।

एक दी हुई A.P. का  $d$  ज्ञात करने के लिए, हमें  $a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3, \dots$  में से सभी को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी एक का ज्ञात करना ही पर्याप्त है।

संख्याओं की सूची 1, 1, 2, 3, 5, ... पर विचार कीजिए। केवल देखने से ही यह पता चल जाता है कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान नहीं है। अतः यह एक A.P. नहीं है।

ध्यान दीजिए कि A.P. : 6, 3, 0, -3, ... का  $d$  ज्ञात करने के लिए, हमने 3 में से 6 को घटाया था, 6 में से 3 को नहीं घटाया था। अर्थात्  $d$  ज्ञात करने के लिए हमें  $(k+1)$ वें पद में से,  $k$ वें पद को ही घटाना चाहिए, चाहे  $(k+1)$ वाँ पद छोटा ही क्यों न हो।

आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इन अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट करें।

**उदाहरण 1 :** A.P. :  $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \dots$ , के लिए प्रथम पद  $a$  और सार्व अंतर  $d$  लिखिए।

**हल :** यहाँ  $a = \frac{3}{2}, d = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$  है।

याद रखिए कि यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि संख्याएँ A.P. में हैं, तो हम किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का प्रयोग करके  $d$  ज्ञात कर सकते हैं।

**उदाहरण 2 :** संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन-कौन से A.P. नहीं हैं? यदि इनसे कोई A.P. है तो उसके अगले दो पद लिखिए।

$$(i) 4, 10, 16, 22, \dots$$

$$(ii) 1, -1, -3, -5, \dots$$

$$(iii) -2, 2, -2, 2, -2, \dots$$

$$(iv) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, \dots$$

**हल :**

$$(i)$$

$$a_2 - a_1 = 10 - 4 = 6$$

$$a_3 - a_2 = 16 - 10 = 6$$

$$a_4 - a_3 = 22 - 16 = 6$$

अर्थात्, प्रत्येक बार  $a_{k+1} - a_k$  एक ही है।

अतः, दी हुई संख्याओं की सूची एक A.P. है जिसका सार्व अंतर  $d = 6$  है।

इसके अगले दो पद  $22 + 6 = 28$  और  $28 + 6 = 34$  हैं।

$$(ii) a_2 - a_1 = -1 - 1 = -2$$

$$a_3 - a_2 = -3 - (-1) = -3 + 1 = -2$$

$$a_4 - a_3 = -5 - (-3) = -5 + 3 = -2$$

अर्थात्, प्रत्येक बार  $a_{k+1} - a_k$  एक ही है।

अतः, संख्याओं की दी हुई सूची एक A.P. है जिसका सार्व अंतर  $d = -2$  है।

इसके अगले दो पद

$$-5 + (-2) = -7 \quad \text{और} \quad -7 + (-2) = -9 \text{ हैं।}$$

$$(iii) a_2 - a_1 = 2 - (-2) = 2 + 2 = 4$$

$$a_3 - a_2 = -2 - 2 = -4$$

चूंकि  $a_2 - a_1 \neq a_3 - a_2$  हैं, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची से एक A.P. नहीं है।

$$(iv) a_2 - a_1 = 1 - 1 = 0, \quad a_3 - a_2 = 1 - 1 = 0, \quad a_4 - a_3 = 2 - 1 = 1$$

यहाँ,  $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \neq a_4 - a_3$  है।

अतः, दी हुई संख्याओं की सूची से एक A.P. नहीं है।

### प्रश्नावली 5.1

- निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची A.P. है और क्यों?

- प्रत्येक किलो मीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलो मीटर के लिए किराया ₹ 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलो मीटर के लिए किराया ₹ 8 है।

- (ii) किसी बेलन (cylinder) में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का  $\frac{1}{4}$  भाग बाहर निकाल देता है।
- (iii) प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, एक कुँआ खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹ 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹ 50 बढ़ती जाती है।
- (iv) खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹ 10000 की राशि 8 % वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
2. दी हुई A.P. के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद  $a$  और सार्व अंतर  $d$  निम्नलिखित हैं:
- (i)  $a = 10, d = 10$
  - (ii)  $a = -2, d = 0$
  - (iii)  $a = 4, d = -3$
  - (iv)  $a = -1, d = \frac{1}{2}$
  - (v)  $a = -1.25, d = -0.25$
3. निम्नलिखित में से प्रत्येक A.P. के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए :
- (i)  $3, 1, -1, -3, \dots$
  - (ii)  $-5, -1, 3, 7, \dots$
  - (iii)  $\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}, \dots$
  - (iv)  $0.6, 1.7, 2.8, 3.9, \dots$
4. निम्नलिखित में से कौन-कौन A.P. हैं? यदि कोई A.P. है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए।
- (i)  $2, 4, 8, 16, \dots$
  - (ii)  $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$
  - (iii)  $-1.2, -3.2, -5.2, -7.2, \dots$
  - (iv)  $-10, -6, -2, 2, \dots$
  - (v)  $3, 3 + \sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}, 3 + 3\sqrt{2}, \dots$
  - (vi)  $0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, \dots$
  - (vii)  $0, -4, -8, -12, \dots$
  - (viii)  $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \dots$
  - (ix)  $1, 3, 9, 27, \dots$
  - (x)  $a, 2a, 3a, 4a, \dots$
  - (xi)  $a, a^2, a^3, a^4, \dots$
  - (xii)  $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \dots$
  - (xiii)  $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{9}, \sqrt{12}, \dots$
  - (xiv)  $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$
  - (xv)  $1^2, 5^2, 7^2, 73, \dots$

### 5.3 A.P. का $n$ वाँ पद

आइए अनुच्छेद 5.1 में दी हुई उस स्थिति पर पुनः विचार करें जिसमें रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था और वह चुन ली गई थी। उसे यह पद ₹ 8000 के मासिक वेतन और ₹ 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया था। पाँचवें वर्ष में उसका मासिक वेतन क्या होगा?

इसका उत्तर देने के लिए, आइए देखें कि उसका मासिक वेतन दूसरे वर्ष में क्या होगा।

यह ( $\text{₹ } 8000 + \text{₹ } 500$ ) = ₹ 8500 होगा। इसी प्रकार, हम तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्षों के लिए, उसके मासिक वेतन, पिछले वर्ष के वेतन में ₹ 500 जोड़ कर ज्ञात कर सकते हैं। अतः, उसका तीसरे वर्ष का वेतन = ₹  $(8500 + 500)$

$$\begin{aligned} &= ₹ (8000 + 500 + 500) \\ &= ₹ (8000 + 2 \times 500) \\ &= ₹ [8000 + (3 - 1) \times 500] \quad (\text{तीसरे वर्ष के लिए}) \\ &= ₹ 9000 \end{aligned}$$

चौथे वर्ष का वेतन = ₹  $(9000 + 500)$

$$\begin{aligned} &= ₹ (8000 + 500 + 500 + 500) \\ &= ₹ (8000 + 3 \times 500) \\ &= ₹ [8000 + (4 - 1) \times 500] \quad (\text{चौथे वर्ष के लिए}) \\ &= ₹ 9500 \end{aligned}$$

पाँचवें वर्ष का वेतन = ₹  $(9500 + 500)$

$$\begin{aligned} &= ₹ (8000 + 500 + 500 + 500 + 500) \\ &= ₹ (8000 + 4 \times 500) \\ &= ₹ [8000 + (5 - 1) \times 500] \quad (\text{पाँचवें वर्ष के लिए}) \\ &= ₹ 10000 \end{aligned}$$

ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें संख्याओं की निम्नलिखित सूची मिल रही है :

8000, 8500, 9000, 9500, 10000, ...

ये संख्याएँ एक A.P. बना रही हैं। (क्यों?)

अब ऊपर बनने वाले प्रतिरूप को देखकर क्या आप उसका छठे वर्ष का मासिक वेतन ज्ञात कर सकते हैं? क्या 15वें वर्ष का मासिक वेतन ज्ञात कर सकते हैं? साथ ही, यह मानते हुए कि वह इस पद पर आगे भी कार्य करती रहेगी, 25वें वर्ष के लिए उसके मासिक वेतन के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इसका उत्तर देने के लिए, आप पिछले वर्ष के वेतन में ₹ 500 जोड़कर वांछित वेतन परिकलित करेंगे। क्या आप इस प्रक्रिया को कुछ संक्षिप्त कर सकते हैं? आइए, देखें। जिस प्रकार हमने इन वेतनों को ऊपर प्राप्त किया है, उनसे आपको कुछ आभास तो लग गया होगा।

15वें वर्ष के लिए वेतन

$$\begin{aligned}
 &= 14\text{वें वर्ष के लिए वेतन} + ₹ 500 \\
 &= ₹ \left[ 8000 + \frac{500 + 500 + 500 + \dots + 500}{13 \text{ बार}} \right] + ₹ 500 \\
 &= ₹ [8000 + 14 \times 500] \\
 &= ₹ [8000 + (15 - 1) \times 500] = ₹ 15000
 \end{aligned}$$

अर्थात्

प्रथम वेतन + (15 - 1) × वार्षिक वेतन वृद्धि

इसी प्रकार 25वें साल में उसका वेतन होगा :

$$\begin{aligned}
 &₹ [8000 + (25 - 1) \times 500] = ₹ 20000 \\
 &= \text{प्रथम वेतन} + (25 - 1) \times \text{वार्षिक वेतन वृद्धि}
 \end{aligned}$$

इस उदाहरण से, आपको कुछ आभास तो अवश्य हो गया होगा कि एक A.P. के 15वें पद, 25वें पद और व्यापक रूप में,  $n$ वें पद को किस प्रकार लिखा जा सकता है।

मान लीजिए  $a_1, a_2, a_3, \dots$  एक A.P. है, जिसका प्रथम पद  $a$  है और सार्व अंतर  $d$  है।

तब

$$\text{दूसरा पद } a_2 = a + d = a + (2 - 1) d$$

$$\text{तीसरा पद } a_3 = a_2 + d = (a + d) + d = a + 2d = a + (3 - 1) d$$

$$\text{चौथा पद } a_4 = a_3 + d = (a + 2d) + d = a + 3d = a + (4 - 1) d$$

.....

.....

इस प्रतिरूप को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि  $n$ वाँ पद  $a_n = a + (n - 1)d$  है।

अतः, प्रथम पद  $a$  और सार्व अंतर  $d$  वाली एक A.P. का  $n$ वाँ पद  $a_n = a + (n - 1)d$  द्वारा प्राप्त होता है।

$a_n$  को A.P. का व्यापक पद (general term) भी कहते हैं। यदि किसी A.P. में  $m$  पद हैं, तो  $a_m$  इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी-कभी  $/$  द्वारा भी व्यक्त किया जाता है।

आइए अब कुछ उदाहरणों पर विचार करें।

**उदाहरण 3 :** A.P. : 2, 7, 12, ... का 10वाँ पद ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ  $a = 2$ ,  $d = 7 - 2 = 5$  और  $n = 10$  है।

चूंकि  $a_n = a + (n - 1)d$  है, इसलिए

$$a_{10} = 2 + (10 - 1) \times 5 = 2 + 45 = 47$$

अतः दी हुई A.P. का 10वाँ पद 47 है।

**उदाहरण 4 :** A.P. : 21, 18, 15, ... का कौन-सा पद - 81 है? साथ ही क्या इस A.P. का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए।

**हल :** यहाँ,  $a = 21$ ,  $d = 18 - 21 = -3$  और  $a_n = -81$  है। हमें  $n$  ज्ञात करना है।

चूंकि  $a_n = a + (n - 1)d$ ,

अतः  $-81 = 21 + (n - 1)(-3)$

या  $-81 = 24 - 3n$

या  $-105 = -3n$

अतः  $n = 35$

इसलिए दी हुई A.P. का 35वाँ पद - 81 है।

आगे, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई  $n$  ऐसा है कि  $a_n = 0$  हो। यदि ऐसा कोई  $n$  है तो

$$21 + (n - 1)(-3) = 0,$$

अर्थात्  $3(n - 1) = 21$

या

$$n = 8$$

अतः, 8वाँ पद 0 है।

**उदाहरण 5 :** वह A.P. निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वाँ पद 9 है।

**हल :** हमें प्राप्त है

$$a_3 = a + (3 - 1)d = a + 2d = 5 \quad (1)$$

और

$$a_7 = a + (7 - 1)d = a + 6d = 9 \quad (2)$$

समीकरणों (1) और (2) के युग्म को हल करने पर, हमें प्राप्त होता है :

$$a = 3, \quad d = 1$$

अतः वांछित A.P. : 3, 4, 5, 6, 7, ... है।

**उदाहरण 6 :** क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, ... का कोई पद 301 है? क्यों?

**हल :** हमें प्राप्त है :

$$a_2 - a_1 = 11 - 5 = 6, \quad a_3 - a_2 = 17 - 11 = 6, \quad a_4 - a_3 = 23 - 17 = 6$$

चूंकि  $k = 1, 2, 3, \dots$ , आदि के लिए,  $a_{k+1} - a_k$  एक समान संख्या होती है, इसलिए दी हुई सूची एक A.P. है।

$$\text{यहाँ } a = 5 \quad \text{और } d = 6$$

मान लीजिए इस A.P. का  $n$ वाँ पद 301 है।

हम जानते हैं कि

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$\text{इसलिए } 301 = 5 + (n - 1) \times 6$$

$$\text{अर्थात् } 301 = 6n - 1$$

$$\text{अतः } n = \frac{302}{6} = \frac{151}{3}$$

परंतु  $n$  एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए (क्यों?)। अतः, 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है।

**उदाहरण 7 :** दो अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं?

**हल :** 3 से विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्याओं की सूची है :

$$12, 15, 18, \dots, 99$$

क्या यह एक A.P. है? हाँ, यह है। यहाँ  $a = 12$ ,  $d = 3$  और  $a_n = 99$  है।

चूँकि

$$a_n = a + (n - 1) d,$$

इसलिए

$$99 = 12 + (n - 1) \times 3$$

अर्थात्

$$87 = (n - 1) \times 3$$

अर्थात्

$$n - 1 = \frac{87}{3} = 29$$

अर्थात्

$$n = 29 + 1 = 30$$

अतः, 3 से विभाज्य दो अंकों वाली 30 संख्याएँ हैं।

**उदाहरण 8 :** A.P. : 10, 7, 4, . . ., -62 का अंतिम पद से (प्रथम पद की ओर) 11वाँ पद ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ,  $a = 10$ ,  $d = 7 - 10 = -3$ ,  $l = -62$ ,

जहाँ

$$l = a + (n - 1) d$$

अंतिम पद से 11वाँ पद ज्ञात करने के लिए, हम इस AP के कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे।

अतः

$$-62 = 10 + (n - 1)(-3)$$

या

$$-72 = (n - 1)(-3)$$

अर्थात्

$$n - 1 = 24$$

या

$$n = 25$$

अतः, दी हुई A.P. में 25 पद हैं।

अंतिम पद से 11वाँ पद AP का 15वाँ पद होगा। (ध्यान दीजिए कि यह 14वाँ पद नहीं होगा। क्यों?)

अतः,

$$a_{15} = 10 + (15 - 1)(-3) = 10 - 42 = -32$$

इसलिए, अंतिम पद से 11वाँ पद -32 है।

### वैकल्पिक हल:

यदि हम A.P. को विपरीत ओर से देखें, तो इसका प्रथम पद  $a = -62$  है और सार्व अंतर  $d = 3$  है। (क्यों?)

अब, प्रश्न यह बन जाता है कि इस AP का 11वाँ पद ज्ञात किया जाए।

$$\text{अतः} \quad a_{11} = -62 + (11 - 1) \times 3 = -62 + 30 = -32$$

अतः अंतिम पद से 11वाँ वांछित पद - 32 है।

**उदाहरण 9 :** ₹ 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक A.P. बनाते हैं? यदि ऐसा है, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए।

**हल :** हम जानते हैं कि साधारण ब्याज परिकलित करने के लिए सूत्र निम्नलिखित है:

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$\text{अतः, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज} = ₹ \frac{1000 \times 8 \times 1}{100} = ₹ 80$$

$$\text{दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज} = ₹ \frac{1000 \times 8 \times 2}{100} = ₹ 160$$

$$\text{तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज} = ₹ \frac{1000 \times 8 \times 3}{100} = ₹ 240$$

इसी प्रकार, हम चौथे, पाँचवें, इत्यादि वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कर सकते हैं।

अतः, पहले, दूसरे, तीसरे, ... वर्षों के अंत में ब्याज (₹ में) क्रमशः हैं :

$$80, 160, 240, \dots$$

यह एक A.P. है, क्योंकि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर 80 है, अर्थात्  $d = 80$  है। साथ ही, इसमें  $a = 80$  है।

अतः, 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करने के लिए हम  $a_{30}$  ज्ञात करेंगे।

$$\text{अब} \quad a_{30} = a + (30 - 1)d = 80 + 29 \times 80 = 2400$$

अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज ₹ 2400 होगा।

**उदाहरण 10 :** फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं?



3. निम्नलिखित समांतर श्रेढ़ियों में, रिक्त खानों (boxes) के पदों को ज्ञात कीजिए :

(i) 2,  $\boxed{\quad}$ , 26

(ii)  $\boxed{\quad}$ , 13,  $\boxed{\quad}$ , 3

(iii) 5,  $\boxed{\quad}$ ,  $\boxed{\quad}$ ,  $9\frac{1}{2}$

(iv) -4,  $\boxed{\quad}$ ,  $\boxed{\quad}$ ,  $\boxed{\quad}$ ,  $\boxed{\quad}$ , 6

(v)  $\boxed{\quad}$ , 38,  $\boxed{\quad}$ ,  $\boxed{\quad}$ ,  $\boxed{\quad}$ , -22

4. A.P. : 3, 8, 13, 18, ... का कौन सा पद 78 है?

5. निम्नलिखित समांतर श्रेढ़ियों में से प्रत्येक श्रेढ़ी में कितने पद हैं?

(i) 7, 13, 19, ..., 205

(ii)  $18, 15\frac{1}{2}, 13, \dots, -47$

6. क्या A.P., 11, 8, 5, 2, ... का एक पद -150 है? क्यों?

7. उस A.P. का 31वाँ पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वाँ पद 38 है और 16वाँ पद 73 है।

8. एक A.P. में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वाँ पद ज्ञात कीजिए।

9. यदि किसी A.P. के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन-सा पद शून्य होगा?

10. किसी A.P. का 17वाँ पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

11. A.P. : 3, 15, 27, 39, ... का कौन-सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा?

12. दो समांतर श्रेढ़ियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा?

13. तीन अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं?

14. 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं?

15.  $n$  के किस मान के लिए, दोनों समांतर श्रेढ़ियों  $63, 65, 67, \dots$  और  $3, 10, 17, \dots$  के  $n$ वें पद बराबर होंगे?

16. वह A.P. ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वाँ पद 5वें पद से 12 अधिक है।

17. A.P. : 3, 8, 13, ..., 253 में अंतिम पद से 20वाँ पद ज्ञात कीजिए।

18. किसी A.P. के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस A.P. के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए।
19. सुब्बा राव ने 1995 में ₹ 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹ 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹ 7000 हो गया?
20. रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹ 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹ 17.5 बढ़ाती गई। यदि  $n$ वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹ 207.50 हो जाती है, तो  $n$  ज्ञात कीजिए।

#### 5.4 A.P. के प्रथम $n$ पदों का योग

आइए अनुच्छेद 5.1 में दी हुई स्थिति पर पुनः विचार करें, जिसमें शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में, उसके 1 वर्ष की हो जाने पर ₹ 100 डालती है, उसके दूसरे जन्म दिवस पर ₹ 150, तीसरे जन्म दिवस पर ₹ 200 डालती है और ऐसा आगे जारी रखती है। जब उसकी पुत्री 21 वर्ष की हो जाएगी, तो उसकी गुल्लक में कितनी धनराशि एकत्रित हो जाएगी?



यहाँ, उसके प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे, ... जन्म दिवसों पर, उसकी गुल्लक में डाली गई राशियाँ (₹ में) क्रमशः 100, 150, 200, 250, ... हैं तथा यही क्रम उसके 21वें जन्म दिवस तक चलता रहा। 21वें जन्म दिवस तक एकत्रित हुई कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए, हमें उपरोक्त सूची की संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता है। क्या आप यह नहीं सोचते कि यह एक जटिल प्रक्रिया होगी और इसमें समय भी अधिक लगेगा? क्या हम इस प्रक्रिया को संक्षिप्त बना सकते हैं? यह तभी संभव होगा, जब हम इसका योग निकालने की कोई विधि ज्ञात कर लें। आइए देखें।

हम गॉस (जिसके बारे में आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं) को दी गई समस्या पर विचार करते हैं, जो उसे हल करने के लिए उस समय दी गई थी, जब वह केवल 10 वर्ष का था। उससे 1 से 100 तक के धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने को कहा गया। उसने तुरंत उत्तर दिया कि योग 5050 है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया था? उसने इस प्रकार लिखा:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100$$

फिर, उसने उल्टे क्रम संख्याओं को इस प्रकार लिखा:

$$S = 100 + 99 + \dots + 3 + 2 + 1$$

उपरोक्त को जोड़ने पर उसने प्राप्त किया:

$$\begin{aligned} 2S &= (100 + 1) + (99 + 2) + \dots + (3 + 98) + (2 + 99) + (1 + 100) \\ &= 101 + 101 + \dots + 101 + 101 \quad (100 \text{ बार}) \end{aligned}$$

अतः  $S = \frac{100 \times 101}{2} = 5050$ , अर्थात् योग = 5050

अब, हम इसी तकनीक का उपयोग करते हुए, एक A.P. के प्रथम  $n$  पदों का योग ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यह A.P. है :

$$a, a + d, a + 2d, \dots$$

इस A.P. का  $n$ वाँ पद  $a + (n - 1)d$  है। माना S इस A.P. के प्रथम  $n$  पदों के योग को व्यक्त करता है। तब

$$S = a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n - 1)d] \quad (1)$$

पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर हमें प्राप्त होता है:

$$S = [a + (n - 1)d] + [a + (n - 2)d] + \dots + (a + d) + a \quad (2)$$

अब, (1) और (2) को पदों के अनुसार जोड़ने पर, हमें प्राप्त होता है :

$$2S = \underbrace{[2a + (n - 1)d] + [2a + (n - 1)d] + \dots + [2a + (n - 1)d] + [2a + (n - 1)d]}_{n \text{ बार}}$$

या  $2S = n [2a + (n - 1)d]$  (चूंकि इसमें  $n$  पद हैं)

या  $S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$

अतः किसी A.P. के प्रथम  $n$  पदों का योग S निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है:

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं

$$S = \frac{n}{2} [a + a + (n - 1)d]$$

अर्थात्

$$S = \frac{n}{2} (a + a_n) \quad (3)$$

अब, यदि किसी A.P. में केवल  $n$  ही पद हैं, तो  $a_n$  अंतिम पद  $l$  के बराबर होगा। अतः (3) से हम देखते हैं कि

$$S = \frac{n}{2} (a + l) \quad (4)$$

परिणाम का यह रूप उस स्थिति में उपयोगी है, जब A.P. के प्रथम और अंतिम पद दिए हों तथा सार्व अंतर नहीं दिया गया हो।

अब हम उसी प्रश्न पर वापस आ जाते हैं, जो प्रारंभ में हमसे पूछा गया था। शकीला की पुत्री की गुल्लक में उसके पहले, दूसरे, तीसरे, ..., जन्म दिवसों पर डाली गई धनराशियाँ (₹ में) क्रमशः 100, 150, 200, 250, ..., हैं।

यह एक A.P. है। हमें उसके 21वें जन्म दिवस तक एकत्रित हुई कुल धनराशि ज्ञात करनी है, अर्थात् हमें इस A.P. के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात करना है।

यहाँ  $a = 100$ ,  $d = 50$  और  $n = 21$  है। सूत्र

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \text{ का प्रयोग करने पर,}$$

$$S = \frac{21}{2} [2 \times 100 + (21-1) \times 50] = \frac{21}{2} [200 + 1000]$$

$$= \frac{21}{2} \times 1200 = 12600$$

अतः उसके 21वें जन्म दिवस तक एकत्रित हुई गुल्लक में धनराशि ₹ 12600 है।

क्या सूत्र के प्रयोग से प्रश्न हल करना सरल नहीं हो गया है?

किसी A.P. के  $n$  पदों के योग को व्यक्त करने के लिए, हम  $S$  के स्थान पर  $S_n$  का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, हम A.P. के 20 पदों के योग को व्यक्त करने के लिए  $S_{20}$  का प्रयोग करते हैं। प्रथम  $n$  पदों के योग के सूत्र में, चार राशियाँ  $S$ ,  $a$ ,  $d$  और  $n$  संबद्ध हैं। यदि इनमें से कोई तीन राशियाँ ज्ञात हों, तो चौथी राशि ज्ञात की जा सकती है।

**टिप्पणी :** किसी A.P. का  $n$ वाँ पद उसके प्रथम  $n$  पदों के योग और प्रथम  $(n-1)$  पदों के योग के अंतर के बराबर है। अर्थात्  $a_n = S_n - S_{n-1}$  है।

आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें।

**उदाहरण 11 :** A.P. : 8, 3, -2, ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ  $a = 8$ ,  $d = 3 - 8 = -5$  और  $n = 22$  है।

हम जानते हैं कि

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

अतः  $S_{22} = \frac{22}{2} [16 + 21(-5)] = 11(16 - 105) = 11(-89) = -979$

इसलिए दी हुई A.P. के प्रथम 22 पदों का योग - 979 है।

**उदाहरण 12 :** यदि किसी A.P. के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वाँ पद ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ  $S_{14} = 1050$ ,  $n = 14$  और  $a = 10$  है।

चूंकि  $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$

इसलिए  $1050 = \frac{14}{2} [20 + 13d] = 140 + 91d$

अर्थात्  $910 = 91d$

या  $d = 10$

अतः  $a_{20} = 10 + (20 - 1) \times 10 = 200$

अर्थात् 20वाँ पद 200 है।

**उदाहरण 13 :** A.P. : 24, 21, 18, ... के कितने पद लिए जाएँ, ताकि उनका योग 78 हो?

**हल :** यहाँ  $a = 24$ ,  $d = 21 - 24 = -3$  और  $S_n = 78$  है। हमें  $n$  ज्ञात करना है।

हम जानते हैं कि  $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$

अतः  $78 = \frac{n}{2} [48 + (n-1)(-3)] = \frac{n}{2} [51 - 3n]$

या  $3n^2 - 51n + 156 = 0$

या  $n^2 - 17n + 52 = 0$

या  $(n - 4)(n - 13) = 0$

अतः  $n = 4$  या  $13$

$n$  के ये दोनों मान संभव हैं और स्वीकार किए जा सकते हैं। अतः, पदों की वांछित संख्या या तो 4 है या 13 है।

### टिप्पणी :

1. इस स्थिति में, प्रथम 4 पदों का योग = प्रथम 13 पदों का योग = 78 है।
2. ये दोनों उत्तर संभव हैं, क्योंकि 5वें से 13वें पदों तक का योग शून्य हो जाएगा। यह इसलिए है कि यहाँ  $a$  धनात्मक है और  $d$  ऋणात्मक है, जिससे कुछ पद धनात्मक और कुछ पद ऋणात्मक हो जाते हैं तथा परस्पर कट जाते हैं।

### उदाहरण 14 : निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए :

- (i) प्रथम 1000 धन पूर्णांक (ii) प्रथम  $n$  धन पूर्णांक

### हल :

(i) मान लीजिए  $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 1000$  है।

A.P. के प्रथम  $n$  पदों के योग के सूत्र  $S_n = \frac{n}{2}(a+l)$  का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है:

$$S_{1000} = \frac{1000}{2}(1 + 1000) = 500 \times 1001 = 500500$$

अतः, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 500500 है।

(ii) मान लीजिए  $S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$  है।

यहाँ  $a = 1$  और अंतिम पद  $l = n$  है।

अतः  $S_n = \frac{n(1+n)}{2}$  या  $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$

इस प्रकार, प्रथम  $n$  धन पूर्णांकों का योग सूत्र

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

से प्राप्त किया जाता है।

**उदाहरण 15 :** संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका  $n$ वाँ पद  $a_n = 3 + 2n$  से दिया जाता है।

**हल :**

चूँकि

$$a_n = 3 + 2n \text{ है}$$

इसलिए

$$a_1 = 3 + 2 = 5$$

$$a_2 = 3 + 2 \times 2 = 7$$

$$a_3 = 3 + 2 \times 3 = 9$$

⋮

इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची  $5, 7, 9, 11, \dots$  है।

यहाँ

$$7 - 5 = 9 - 7 = 11 - 9 = 2 \text{ इत्यादि हैं।}$$

अतः इनसे एक A.P. बनती है, जिसका सार्व अंतर 2 है।

$S_{24}$  ज्ञात करने के लिए, हमें प्राप्त है:  $n = 24, a = 5, d = 2$

$$\text{अतः } S_{24} = \frac{24}{2} [2 \times 5 + (24-1) \times 2] = 12 [10 + 46] = 672$$

इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची के प्रथम 24 पदों का योग 672 है।

**उदाहरण 16 :** टी.वी. सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टी.वी. तथा 7वें वर्ष में 700 टी.वी. सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए:

(i) प्रथम वर्ष में उत्पादन

(ii) 10वें वर्ष में उत्पादन

(iii) प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन

**हल :** (i) चूँकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे, ... वर्षों में उत्पादित टी.वी. सेटों की संख्याएँ एक AP में होंगी। आइए  $n$ वें वर्ष में उत्पादित टी.वी. सेटों की संख्या को  $a_n$  से व्यक्त करें।

अतः  $a_3 = 600$  और  $a_7 = 700$

या  $a + 2d = 600$

और  $a + 6d = 700$

इन्हें हल करने पर, हमें  $d = 25$  और  $a = 550$  प्राप्त होता है।

अतः प्रथम वर्ष में उत्पादित टी.वी. सेटों की संख्या 550 है।

(ii) अब

$$a_{10} = a + 9d = 550 + 9 \times 25 = 775$$

अतः 10वें वर्ष में उत्पादित टी.वी. सेटों की संख्या 775 है।

(iii) साथ ही

$$\begin{aligned} S_7 &= \frac{7}{2} [2 \times 550 + (7-1) \times 25] \\ &= \frac{7}{2} [1100 + 150] = 4375 \end{aligned}$$

अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित हुए सभी टी.वी. सेटों की संख्या 4375 है।

### प्रश्नावली 5.3

1. निम्नलिखित समांतर श्रेढ़ियों का योग ज्ञात कीजिए :

(i)  $2, 7, 12, \dots, 10$  पदों तक

(ii)  $-37, -33, -29, \dots, 12$  पदों तक

(iii)  $0.6, 1.7, 2.8, \dots, 100$  पदों तक

(iv)  $\frac{1}{15}, \frac{1}{12}, \frac{1}{10}, \dots, 11$  पदों तक

2. नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए :

(i)  $7 + 10\frac{1}{2} + 14 + \dots + 84$

(ii)  $34 + 32 + 30 + \dots + 10$

(iii)  $-5 + (-8) + (-11) + \dots + (-230)$

3. एक A.P. में,

(i)  $a = 5, d = 3$  और  $a_n = 50$  दिया है।  $n$  और  $S_n$  ज्ञात कीजिए।

(ii)  $a = 7$  और  $a_{13} = 35$  दिया है।  $d$  और  $S_{13}$  ज्ञात कीजिए।

(iii)  $a_{12} = 37$  और  $d = 3$  दिया है।  $a$  और  $S_{12}$  ज्ञात कीजिए।

(iv)  $a_3 = 15$  और  $S_{10} = 125$  दिया है।  $d$  और  $a_{10}$  ज्ञात कीजिए।

(v)  $d = 5$  और  $S_9 = 75$  दिया है।  $a$  और  $a_9$  ज्ञात कीजिए।

(vi)  $a = 2, d = 8$  और  $S_n = 90$  दिया है।  $n$  और  $a_n$  ज्ञात कीजिए।

(vii)  $a = 8, a_n = 62$  और  $S_n = 210$  दिया है।  $n$  और  $d$  ज्ञात कीजिए।

(viii)  $a_n = 4, d = 2$  और  $S_n = -14$  दिया है।  $n$  और  $a$  ज्ञात कीजिए।

(ix)  $a = 3, n = 8$  और  $S = 192$  दिया है।  $d$  ज्ञात कीजिए।

(x)  $l = 28, S = 144$  और कुल 9 पद हैं।  $a$  ज्ञात कीजिए।

4. 636 योग प्राप्त करने के लिए, A.P. : 9, 17, 25, ... के कितने पद लेने चाहिए?


5. किसी A.P. का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।
6. किसी A.P. के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है?
7. उस A.P. के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें  $d = 7$  है और 22वाँ पद 149 है।
8. उस A.P. के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं।
9. यदि किसी A.P. के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम  $n$  पदों का योग ज्ञात कीजिए।
10. दर्शाइए कि  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  से एक A.P. बनती है, यदि  $a_n$  नीचे दिए अनुसार परिभाषित है :
 

(i)  $a_n = 3 + 4n$ 
(ii)  $a_n = 9 - 5n$

 साथ ही, प्रत्येक स्थिति में, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
11. यदि किसी A.P. के प्रथम  $n$  पदों का योग  $4n - n^2$  है, तो इसका प्रथम पद (अर्थात्  $S_1$ ) क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार, तीसरे, 10वें और  $n$ वें पद ज्ञात कीजिए।
12. ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं।
13. 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
14. 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
15. निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है : पहले दिन के लिए ₹ 200, दूसरे दिन के लिए ₹ 250, तीसरे दिन के लिए ₹ 300 इत्यादि, अर्थात् प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹ 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है?
16. किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए ₹ 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹ 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।
17. एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा I का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा

II का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा III का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि और ऐसा कक्षा XII तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी?


18. केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, बारी-बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए, त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, ... वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल (spiral) बनाया गया है, जैसाकि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तेरह क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ( $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए।)



#### आकृति 5.4


[संकेत : क्रमशः केंद्रों A, B, A, B, ... वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ  $l_1, l_2, l_3, l_4$  हैं।]

19. 200 लट्ठों (logs) को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है : सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, इत्यादि (देखिए आकृति 5.5)। ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं?



#### आकृति 5.5

20. एक आलू दौड़ (potato race) में, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5m की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3m की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं (देखिए आकृति 5.6)।




### आकृति 5.6

प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है, जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएँ। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी?

[संकेत : पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी  
 $= 2 \times 5 + 2 \times (5 + 3)$  है।]

### प्रश्नावली 5.4 (ऐच्छिक)\*

1. A.P. : 121, 117, 113, ..., का कौन-सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा?  
 [संकेत :  $a_n < 0$  के लिए  $n$  ज्ञात कीजिए।]
2. किसी A.P. के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस A.P. के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
3. एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 cm की दूरी पर हैं (देखिए आकृति 5.7)। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 cm है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 cm है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी  $2\frac{1}{2}$  m है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी?  
 [संकेत : डंडों की संख्या  $= \frac{250}{25} + 1$  है।]



### आकृति 5.7


\* यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है।

4. एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि  $x$  का एक ऐसा मान है कि  $x$  से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है।  $x$  का मान ज्ञात कीजिए।

[संकेत :  $S_{x-1} = S_{49} - S_x$  है।]

5. एक फुटबाल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई  $50\text{ m}$  है और वह ठोस कंक्रीट (concrete) की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में  $\frac{1}{4}\text{ m}$  की चढ़ाई है और  $\frac{1}{2}\text{ m}$  का फैलाव (चौड़ाई) है। (देखिए आकृति 5.8)। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए।

[संकेत : पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 50\text{ m}^3$  है।]



आकृति 5.8

## 5.5 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है :

1. एक समांतर श्रेढ़ी संख्याओं की ऐसी सूची होती है, जिसमें प्रत्येक पद (प्रथम पद के अतिरिक्त) अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या  $d$  जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या  $d$  इस समांतर श्रेढ़ी का सार्व अंतर कहलाती है।  
एक A.P. का व्यापक रूप  $a, a+d, a+2d, a+3d, \dots$  है।
2. संख्याओं की एक दी हुई सूची A.P. होती है, यदि अंतरों  $a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3, \dots$ , से एक ही (समान) मान प्राप्त हो, अर्थात्  $k$  के विभिन्न मानों के लिए  $a_{k+1} - a_k$  एक ही हो।
3. प्रथम पद  $a$  और सार्व अंतर  $d$  वाली A.P. का  $n$ वाँ पद (या व्यापक पद)  $a_n$  निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होता है:

$$a_n = a + (n-1)d$$

4. किसी A.P. के प्रथम  $n$  पदों का योग S सूत्र

$$S = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d] \text{ से प्राप्त होता है।}$$

5. यदि एक परिमित A.P. का अंतिम पद (मान लीजिए  $n$  वाँ पद)  $l$  है, तो इस A.P. के सभी पदों का योग S सूत्र

$$S = \frac{n}{2}(a + l) \text{ से प्राप्त होता है।}$$

### पाठकों के लिए विशेष

यदि  $a, b, c$ , A.P. में हैं तब  $b = \frac{a+c}{2}$  और  $b, a$  तथा  $c$  का समांतर माध्य कहलाता है।




1063CH06

## त्रिभुज

# 6

### 6.1 भूमिका

आप अपनी पिछली कक्षाओं से, त्रिभुजों और उनके अनेक गुणधर्मों से भली भाँति परिचित हैं। कक्षा IX में, आप त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार (shape) तथा समान आमाप (size) हों। इस अध्याय में, हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हों परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो। दो आकृतियाँ जिनके समान आकार हों (परंतु समान आमाप होना आवश्यक न हो) समरूप आकृतियाँ (*similar figures*) कहलाती हैं। विशेष रूप से, हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे तथा इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उपपत्ति देने में प्रयोग करेंगे।




क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों (जैसे माउंट एवरेस्ट) की ऊँचाईयाँ अथवा कुछ दूरस्थ वस्तुओं (जैसे चन्द्रमा) की दूरियाँ किस प्रकार ज्ञात की गई हैं? क्या आप सोचते हैं कि इन्हें एक मापने वाले फीते से सीधा (प्रत्यक्ष) मापा गया है? वास्तव में, इन सभी ऊँचाई और दूरियों को अप्रत्यक्ष मापन (indirect measurement) की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया गया है, जो आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है (देखिए उदाहरण 7, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 15 तथा साथ ही इस पुस्तक के अध्याय 8 और 9)।

## 6.2 समरूप आकृतियाँ


कक्षा IX में, आपने देखा था कि समान (एक ही) त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।

अब किन्हीं दो (या अधिक) वृत्तों पर विचार कीजिए [देखिए आकृति 6.1 (i)]। क्या ये सर्वांगसम हैं? चूँकि इनमें से सभी की त्रिज्या समान नहीं है, इसलिए ये परस्पर सर्वांगसम नहीं हैं। ध्यान दीजिए कि इनमें कुछ सर्वांगसम हैं और कुछ सर्वांगसम नहीं हैं, परंतु इनमें से सभी के आकार समान हैं। अतः, ये सभी वे आकृतियाँ हैं जिन्हें हम समरूप (*similar*) कहते हैं। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं हैं। अतः, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दो (या अधिक) वर्गों के बारे में अथवा दो (या अधिक) समबाहु त्रिभुजों के बारे में आप क्या सोचते हैं [देखिए आकृति 6.1 (ii) और (iii)]? सभी वृत्तों की तरह ही, यहाँ सभी वर्ग समरूप हैं तथा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हैं।


उपरोक्त चर्चा से, हम यह भी कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है।



(i)



(ii)




(iii)

### आकृति 6.1




क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? इन आकृतियों को देखने मात्र से ही आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं (देखिए आकृति 6.1)। स्पष्ट शब्दों में, ये आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। (क्यों?)

आप दो चतुर्भुजों ABCD और PQRS के बारे में क्या कह सकते हैं (देखिए आकृति 6.2)? क्या ये समरूप हैं? ये आकृतियाँ समरूप-सी प्रतीत हो रही हैं, परंतु हम इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए, यह



### आकृति 6.2

आवश्यक हो जाता है कि हम आकृतियों की समरूपता के लिए कोई परिभाषा ज्ञात करें तथा इस परिभाषा पर आधारित यह सुनिश्चित करने के लिए कि दो दी हुई आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं, कुछ नियम प्राप्त करें। इसके लिए, आइए आकृति 6.3 में चित्रों को देखें:



### आकृति 6.3

आप तुरंत यह कहेंगे कि ये एक ही स्मारक (ताजमहल) के चित्र हैं, परंतु ये भिन्न-भिन्न आमापों (sizes) के हैं। क्या आप यह कहेंगे कि ये चित्र समरूप हैं? हाँ, ये हैं। आप एक ही व्यक्ति के एक ही आमाप वाले उन दो चित्रों के बारे में क्या कह सकते हैं, जिनमें से एक उसकी 10 वर्ष की आयु का है तथा दूसरा उसकी 40 वर्ष की आयु का है? क्या ये दोनों चित्र समरूप हैं? ये चित्र समान आमाप के हैं, परंतु निश्चित रूप से ये समान आकार के नहीं हैं। अतः, ये समरूप नहीं हैं।

जब कोई फ़ोटोग्राफर एक ही नेगेटिव से विभिन्न मापों के फ़ोटो प्रिंट निकालती है, तो वह क्या करती है? आपने स्टैंप साइज़, पासपोर्ट साइज़ एवं पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो (या चित्रों) के बारे में अवश्य सुना होगा। वह सामान्य रूप से एक छोटे आमाप (साइज) की फ़िल्म (film), मान लीजिए जो 35 mm आमाप वाली फ़िल्म है, पर फ़ोटो खींचती है और फिर उसे एक बड़े आमाप, जैसे 45 mm (या 55 mm) आमाप, वाली फ़ोटो के रूप में आवर्धित

करती है। इस प्रकार, यदि हम छोटे चित्र के किसी एक रेखाखंड को लें, तो बड़े चित्र में इसका संगत रेखाखंड, लंबाई में पहले रेखाखंड का  $\frac{45}{35}$  (या  $\frac{55}{35}$ ) गुना होगा। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि छोटे चित्र का प्रत्येक रेखाखंड  $35:45$  (या  $35:55$ ) के अनुपात में आवर्धित हो (बढ़े) गया है। इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि बड़े चित्र का प्रत्येक रेखाखंड  $45:35$  (या  $55:35$ ) के अनुपात में घट (कम हो) गया है। साथ ही, यदि आप विभिन्न आमापों के दो चित्रों में संगत रेखाखंडों के किसी भी युग्म के बीच बने झुकावों [अथवा कोणों] को लें, तो आप देखेंगे कि ये झुकाव (या कोण) सदैव बराबर होंगे। यही दो आकृतियों तथा विशेषकर दो बहुभुजों की समरूपता का सार है। हम कहते हैं कि:


भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि (i) उनके संगत कोण बराबर हों तथा (ii) इनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में (अर्थात् समानुपाती) हों।

ध्यान दीजिए कि बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात को स्केल गुणक (*scale factor*) [अथवा प्रतिनिधित्व भिन्न (*Representative Fraction*)] कहा जाता है। आपने यह अवश्य सुना होगा कि विश्व मानचित्र [अर्थात् ग्लोबल मानचित्र] तथा भवनों के निर्माण के लिए बनाए जाने वाली रूप रेखा एक उपयुक्त स्केल गुणक तथा कुछ परिपाटियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं।

आकृतियों की समरूपता को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए, आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें:

**क्रियाकलाप 1 :** अपनी कक्षा के कमरे की छत के किसी बिंदु O पर प्रकाश युक्त बल्ब लगाइए तथा उसके ठीक नीचे एक मेज रखिए। आइए एक समतल कार्डबोर्ड में से एक बहुभुज, मान लीजिए चतुर्भुज ABCD, काट लें तथा इस कार्डबोर्ड को भूमि के समांतर मेज और जलते हुए बल्ब के बीच में रखें। तब, मेज पर ABCD की एक छाया (shadow) पड़ेगी। इस छाया की बाहरी रूपरेखा को A'B'C'D' से चिह्नित कीजिए (देखिए आकृति 6.4)।

ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज A'B'C'D' चतुर्भुज



आकृति 6.4

ABCD का एक आकार परिवर्धन (या आवर्धन) है। यह प्रकाश के इस गुणधर्म के कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आप यह भी देख सकते हैं कि A' किरण OA पर स्थित है, B' किरण OB पर स्थित है, C' किरण OC पर स्थित है तथा D' किरण OD पर स्थित है। इस प्रकार, चतुर्भुज A'B'C'D' और ABCD समान आकार के हैं; परंतु इनके माप भिन्न-भिन्न हैं।

अतः चतुर्भुज A'B'C'D' चतुर्भुज ABCD के समरूप है। हम यह भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज A'B'C'D' के समरूप है।


यहाँ, आप यह भी देख सकते हैं कि शीर्ष A' शीर्ष A के संगत है, शीर्ष B' शीर्ष B के संगत है, शीर्ष C' शीर्ष C के संगत है तथा शीर्ष D' शीर्ष D के संगत है। सांकेतिक रूप से इन संगतताओं (correspondences) को  $A' \leftrightarrow A$ ,  $B' \leftrightarrow B$ ,  $C' \leftrightarrow C$  और  $D' \leftrightarrow D$  से निरूपित किया जाता है। दोनों चतुर्भुजों के कोणों और भुजाओं को वास्तविक रूप से माप कर, आप इसका सत्यापन कर सकते हैं कि

(i)  $\angle A = \angle A'$ ,  $\angle B = \angle B'$ ,  $\angle C = \angle C'$ ,  $\angle D = \angle D'$  और

$$(ii) \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DA}{D'A'}.$$


इससे पुनः यह बात स्पष्ट होती है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि (i) उनके सभी संगत कोण बराबर हों तथा (ii) उनकी सभी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात (समानुपात) में हों।

उपरोक्त के आधार पर, आप सरलता से यह कह सकते हैं कि आकृति 6.5 में दिए गए चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं।




**टिप्पणी :** आप इसका सत्यापन कर सकते हैं कि यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा।

आप यह देख सकते हैं कि आकृति 6.6 के दो चतुर्भुजों (एक वर्ग और एक आयत) में, संगत कोण बराबर हैं, परंतु इनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में नहीं हैं। अतः, ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं।



### आकृति 6.6

इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आकृति 6.7 के दो चतुर्भुजों (एक वर्ग और एक समचतुर्भुज) में, संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में हैं, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं। पुनः, दोनों बहुभुज (चतुर्भुज) समरूप नहीं हैं।



### आकृति 6.7

इस प्रकार, आप देख सकते हैं कि दो बहुभुजों की समरूपता के प्रतिवर्धों (i) और (ii) में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उनकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है।

## प्रश्नावली 6.1

- कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए, रिक्त स्थानों को भरिए:  
(i) सभी वृत्त ————— होते हैं। (सर्वांगसम, समरूप)

- (ii) सभी वर्ग ————— होते हैं। (समरूप, सर्वांगसम)


(iii) सभी ————— त्रिभुज समरूप होते हैं। (समद्विबाहु, समबाहु)

(iv) भुजओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि (i) उनके संगत कोण  
———— हों तथा (ii) उनकी संगत भुजाएँ ————— हों। (बराबर, समानुपाती)

2. निम्नलिखित युगमों के दो भिन्न-भिन्न उदाहरण दीजिए:

(i) समरूप आकृतियाँ (ii) ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं।

3. बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं:



आकृति 6.8

### 6.3 त्रिभुजों की समरूपता

आप दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में क्या कह सकते हैं?


आपको याद होगा कि त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है। इसलिए, हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी वही प्रतिबंध लिख सकते हैं, जो बहुभुजों की समरूपता के लिए लिखे थे। अर्थात्

दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि

(i) उनके संगत कोण बराबर हों तथा

(ii) उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में (अर्थात् समानुपाती) हों।

ध्यान दीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, तो वे समानकोणिक त्रिभुज (equiangular triangles) कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स (Thales) ने दो समानकोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया, जो नीचे दिया जा रहा है:



दो समानकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय (आजकल थेल्स प्रमेय) कहा जाता है।

आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय (Basic Proportionality Theorem) को समझने के लिए, आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें:

**क्रियाकलाप 2 :** कोई कोण  $XAY$  खींचिए तथा उसकी एक भुजा  $AX$  पर कुछ बिंदु (मान लीजिए पाँच बिंदु)  $P, Q, D, R$  और  $B$  इस प्रकार अंकित कीजिए कि  $AP = PQ = QD = DR = RB$  हो।

अब, बिंदु  $B$  से होती हुई कोई एक रेखा खींचिए, जो भुजा  $AY$  को बिंदु  $C$  पर काटे (देखिए आकृति 6.9)।

साथ ही, बिंदु  $D$  से होकर  $BC$  के समांतर एक रेखा खींचिए, जो  $AC$  को  $E$  पर काटे। क्या आप अपनी रचनाओं से यह देखते हैं कि  $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{2}$  है?  $AE$  और  $EC$  मापिए।  $\frac{AE}{EC}$  क्या है? देखिए  $\frac{AE}{EC}$  भी  $\frac{3}{2}$  के बराबर है। इस प्रकार, आप देख सकते हैं कि त्रिभुज  $ABC$  में,


$DE \parallel BC$  है तथा  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$  है। क्या यह संयोगवश है? नहीं, यह निम्नलिखित प्रमेय के कारण है (जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है):

**प्रमेय 6.1 :** यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएँ एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं।


**उपपत्ति :** हमें एक त्रिभुज  $ABC$  दिया है, जिसमें भुजा  $BC$  के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं  $AB$  और  $AC$  को क्रमशः  $D$  और  $E$  पर काटती है (देखिए आकृति 6.10)।

हमें सिद्ध करना है कि  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

आइए  $B$  और  $E$  तथा  $C$  और  $D$  को मिलाएँ और फिर  $DM \perp AC$  एवं  $EN \perp AB$  खींचें।



आकृति 6.9



आकृति 6.10

अब,  $\Delta ADE$  का क्षेत्रफल ( $= \frac{1}{2}$  आधार  $\times$  ऊँचाई)  $= \frac{1}{2} AD \times EN$

कक्षा IX से याद कीजिए कि  $\Delta ADE$  के क्षेत्रफल को  $ar(ADE)$  से व्यक्त किया जाता है।

अतः  $ar(ADE) = \frac{1}{2} AD \times EN$

इसी प्रकार  $ar(BDE) = \frac{1}{2} DB \times EN$ ,

$$ar(ADE) = \frac{1}{2} AE \times DM \text{ तथा } ar(DEC) = \frac{1}{2} EC \times DM$$

अतः 
$$\frac{ar(ADE)}{ar(BDE)} = \frac{\frac{1}{2} AD \times EN}{\frac{1}{2} DB \times EN} = \frac{AD}{DB} \quad (1)$$

तथा 
$$\frac{ar(ADE)}{ar(DEC)} = \frac{\frac{1}{2} AE \times DM}{\frac{1}{2} EC \times DM} = \frac{AE}{EC} \quad (2)$$

ध्यान दीजिए कि  $\Delta BDE$  और  $\Delta DEC$  एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं।

अतः  $ar(BDE) = ar(DEC) \quad (3)$


इसलिए (1), (2) और (3), से हमें प्राप्त होता है:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है (विलोम के अर्थ के लिए परिशिष्ट 1 देखिए)? इसकी जाँच करने के लिए, आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें:

**क्रियाकलाप 3 :** अपनी अभ्यासपुस्तिका में एक कोण XAY खींचिए तथा किरण AX पर बिंदु  $B_1, B_2, B_3, B_4$  और B इस प्रकार अंकित कीजिए कि  $AB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4B$  हो।

इसी प्रकार, किरण AY, पर बिंदु  $C_1, C_2, C_3, C_4$  और C इस प्रकार अंकित कीजिए कि  $AC_1 = C_1C_2 = C_2C_3 = C_3C_4 = C_4C$  हो। फिर  $B_1C_1$  और BC को मिलाइए (देखिए आकृति 6.11)।



ध्यान दीजिए कि  $\frac{AB_1}{B_1B} = \frac{AC_1}{C_1C}$  (प्रत्येक  $\frac{1}{4}$  के बराबर है)

आप यह भी देख सकते हैं कि रेखाएँ  $B_1C_1$  और  $BC$  परस्पर समांतर हैं, अर्थात्

$$B_1C_1 \parallel BC \quad (1)$$

इसी प्रकार, क्रमशः  $B_2C_2$ ,  $B_3C_3$  और  $B_4C_4$  को मिलाकर आप देख सकते हैं कि

$$\frac{AB_2}{B_2B} = \frac{AC_2}{C_2C} \left( = \frac{2}{3} \right) \text{ और } B_2C_2 \parallel BC \quad (2)$$

$$\frac{AB_3}{B_3B} = \frac{AC_3}{C_3C} \left( = \frac{3}{2} \right) \text{ और } B_3C_3 \parallel BC, \quad (3)$$

$$\frac{AB_4}{B_4B} = \frac{AC_4}{C_4C} \left( = \frac{4}{1} \right) \text{ और } B_4C_4 \parallel BC \quad (4)$$

(1), (2), (3) और (4) से, यह देखा जा सकता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।

आप किसी अन्य माप का कोण  $XAY$  खींचकर तथा भुजाओं  $AX$  और  $AY$  पर कितने भी समान भाग अंकित कर, इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक बार, आप एक ही परिणाम पर पहुँचेंगे। इस प्रकार, हम निम्नलिखित प्रमेय प्राप्त करते हैं, जो प्रमेय 6.1 का विलोम है:


**प्रमेय 6.2 :** यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है।

इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, यदि हम एक रेखा  $DE$  इस प्रकार लें कि  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$  हो तथा  $DE$  भुजा  $BC$  के समांतर न हो (देखिए आकृति 6.12)।

अब यदि  $DE$  भुजा  $BC$  के समांतर नहीं है, तो  $BC$  के समांतर एक रेखा  $DE'$  खींचिए।

$$\text{अतः} \quad \frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C} \quad (\text{क्यों?})$$

$$\text{इसलिए} \quad \frac{AE}{EC} = \frac{AE'}{E'C} \quad (\text{क्यों?})$$



उपरोक्त के दोनों पक्षों में 1 जोड़ कर, आप यह देख सकते हैं कि E और E' को अवश्य ही संपाती होना चाहिए (क्यों?)। उपरोक्त प्रमेयों का प्रयोग स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** यदि कोई रेखा एक  $\triangle ABC$  की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि  $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$  होगा (देखिए आकृति 6.13)।

**हल :**

$$\text{अतः } DE \parallel BC$$

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

$$\begin{aligned} \text{अर्थात् } & \frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE} \\ \text{या } & \frac{DB}{AD} + 1 = \frac{EC}{AE} + 1 \\ \text{या } & \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} \end{aligned}$$




$$\text{अतः } \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

**उदाहरण 2 :** ABCD एक समलंब है जिसमें  $AB \parallel DC$  है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है (देखिए आकृति 6.14)। दर्शाइए कि  $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$  है।

**हल :** आइए A और C को मिलाएँ जो EF को G पर प्रतिच्छेद करे (देखिए आकृति 6.15)।

$AB \parallel DC$  और  $EF \parallel AB$  (दिया है)

इसलिए  $EF \parallel DC$  (एक ही रेखा के समांतर रेखाएँ परस्पर समांतर होती हैं)



अब  $\triangle ADC$  में,

$$EG \parallel DC \quad (\text{क्योंकि } EF \parallel DC)$$

$$\text{अतः } \frac{AE}{ED} = \frac{AG}{GC} \quad (\text{प्रमेय 6.1}) \quad (1)$$

इसी प्रकार,  $\triangle CAB$  में

$$\frac{CG}{AG} = \frac{CF}{BF}$$

$$\text{अर्थात् } \frac{AG}{GC} = \frac{BF}{FC} \quad (2)$$


अतः (1) और (2) से

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

**उदाहरण 3 :** आकृति 6.16 में  $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$  है तथा

$\angle PST = \angle PRQ$  है। सिद्ध कीजिए कि  $\triangle PQR$  एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

**हल :** यह दिया है कि,  $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$



आकृति 6.16

$$\text{अतः } ST \parallel QR \quad (\text{प्रमेय 6.2})$$

$$\text{इसलिए } \angle PST = \angle PQR \quad (\text{संगत कोण}) \quad (1)$$

साथ ही यह दिया है कि

$$\angle PST = \angle PRQ \quad (2)$$


$$\text{अतः } \angle PRQ = \angle PQR \quad [(1) \text{ और } (2) \text{ से}]$$

$$\text{इसलिए } PQ = PR \quad (\text{समान कोणों की सम्मुख भुजाएँ})$$

अर्थात्  $\triangle PQR$  एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

### प्रश्नावली 6.2

1. आकृति 6.17 (i) और (ii) में,  $DE \parallel BC$  है। (i) में EC और (ii) में AD ज्ञात कीजिए:




**आकृति 6.17**

2. किसी  $\triangle PQR$  की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए, बताइए कि क्या  $EF \parallel QR$  है:

- (i)  $PE = 3.9 \text{ cm}$ ,  $EQ = 3 \text{ cm}$ ,  $PF = 3.6 \text{ cm}$  और  $FR = 2.4 \text{ cm}$
- (ii)  $PE = 4 \text{ cm}$ ,  $QE = 4.5 \text{ cm}$ ,  $PF = 8 \text{ cm}$  और  $RF = 9 \text{ cm}$
- (iii)  $PQ = 1.28 \text{ cm}$ ,  $PR = 2.56 \text{ cm}$ ,  $PE = 0.18 \text{ cm}$  और  $PF = 0.36 \text{ cm}$


3. आकृति 6.18 में यदि  $LM \parallel CB$  और  $LN \parallel CD$  हो तो

सिद्ध कीजिए कि  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD}$  है।



**आकृति 6.18**


4. आकृति 6.19 में  $DE \parallel AC$  और  $DF \parallel AE$  है। सिद्ध कीजिए कि  $\frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC}$  है।




**आकृति 6.19**

5. आकृति 6.20 में  $DE \parallel OQ$  और  $DF \parallel OR$  है। दर्शाइए कि  $EF \parallel QR$  है।

6. आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि  $AB \parallel PQ$  और  $AC \parallel PR$  है। दर्शाइए कि  $BC \parallel QR$  है।



**आकृति 6.20**



**आकृति 6.21**

7. प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य-बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। (याद कीजिए कि आप इसे कक्षा IX में सिद्ध कर चुके हैं।)
8. प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। (याद कीजिए कि आप कक्षा IX में ऐसा कर चुके हैं।)
9. ABCD एक समलंब है जिसमें  $AB \parallel DC$  है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि  $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$  है।
10. एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि  $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$  है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है।


#### 6.4 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ

पिछले अनुच्छेद में हमने कहा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि (i) उनके संगत कोण बराबर हों तथा (ii) उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में (समानुपाती हों)। अर्थात्

यदि  $\triangle ABC$  और  $\triangle DEF$  में,

(i)  $\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$  है तथा

(ii)  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$  है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं (देखिए आकृति 6.22)।




आकृति 6.22

यहाँ आप देख सकते हैं कि A, D के संगत हैं; B, E के संगत हैं तथा C, F के संगत हैं। संकेतिक रूप से, हम इन त्रिभुजों की समरूपता को ' $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ' लिखते हैं तथा 'त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के' पढ़ते हैं। संकेत ' $\sim$ ' 'समरूप' को प्रकट करता है। याद कीजिए कि कक्षा IX में आपने 'सर्वांगसम' के लिए संकेत ' $\cong$ ' का प्रयोग किया था।

इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जैसा त्रिभुजों की सर्वांगसमता की स्थिति में किया गया था त्रिभुजों की समरूपता को भी सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए, उनके शीर्षों की संगतताओं को सही क्रम में लिखा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, आकृति 6.22 के त्रिभुजों ABC और DEF के लिए, हम  $\triangle ABC \sim \triangle EDF$  अथवा  $\triangle ABC \sim \triangle FED$  नहीं लिख सकते। परंतु हम  $\triangle BAC \sim \triangle EDF$  लिख सकते हैं।

अब एक प्रश्न यह उठता है: दो त्रिभुजों, मान लीजिए ABC और DEF की समरूपता की जाँच के लिए क्या हम सदैव उनके संगत कोणों के सभी युग्मों की समानता ( $\angle A = \angle D$ ,  $\angle B = \angle E$ ,  $\angle C = \angle F$ ) तथा उनकी संगत भुजाओं के सभी युग्मों के अनुपातों की समानता ( $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ ) पर विचार करते हैं? आइए इसकी जाँच करें। आपको याद होगा कि कक्षा IX में, आपने दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ ऐसी कसौटियाँ (criteria) प्राप्त की थीं जिनमें दोनों त्रिभुजों के संगत भागों (या अवयवों) के केवल तीन युग्म ही निहित थे। यहाँ भी, आइए हम दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए, कुछ ऐसी कसौटियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करें, जिनमें इन दोनों त्रिभुजों के संगत भागों के सभी छः युग्मों के स्थान पर, इन संगत भागों के कम युग्मों के बीच संबंध ही निहित हों। इसके लिए, आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें:

**क्रियाकलाप 4 :** भिन्न-भिन्न लंबाइयों, मान लीजिए 3 cm और 5 cm वाले क्रमशः दो रेखाखंड BC और EF खींचिए। फिर बिंदुओं B और C पर क्रमशः  $\angle PBC$  और  $\angle QCB$  किन्हीं दो मापों, मान लीजिए  $60^\circ$  और  $40^\circ$ , के खींचिए। साथ ही, बिंदुओं E और F पर क्रमशः  $\angle REF = 60^\circ$  और  $\angle SFE = 40^\circ$  खींचिए (देखिए आकृति 6.23)।



आकृति 6.23


मान लीजिए किरण BP और CQ परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा किरण ER और FS परस्पर बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती हैं। इन दोनों त्रिभुजों ABC और DEF में, आप देख सकते हैं कि  $\angle B = \angle E$ ,  $\angle C = \angle F$  और  $\angle A = \angle D$  हैं। अर्थात् इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर

हैं। इनकी संगत भुजाओं के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिए कि  $\frac{BC}{EF} = \frac{3}{5} = 0.6$  है।  $\frac{AB}{DE}$  और  $\frac{CA}{FD}$  के बारे में आप क्या कह सकते हैं? AB, DE, CA और FD को मापने पर, आप पाएँगे कि  $\frac{AB}{DE}$  और  $\frac{CA}{FD}$  भी 0.6 के बराबर हैं (अथवा लगभग 0.6 के बराबर हैं, यदि मापन में कोई त्रुटि है)। इस प्रकार,  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$  है। आप समान संगत कोण वाले त्रिभुजों के अनेक युग्म खींचकर इस क्रियाकलाप को दुहरा सकते हैं। प्रत्येक बार, आप यह पाएँगे कि उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में (समानुपाती) हैं। यह क्रियाकलाप हमें दो त्रिभुजों की समरूपता की निम्नलिखित कसौटी की ओर अग्रसित करता है:

**प्रमेय 6.3 :** यदि दो त्रिभुजों में, संगत कोण बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में (समानुपाती) होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं।

उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की AAA (कोण-कोण-कोण) कसौटी कहा जाता है।

इस प्रमेय को दो ऐसे त्रिभुज ABC और DEF लेकर, जिनमें  $\angle A = \angle D$ ,  $\angle B = \angle E$  और  $\angle C = \angle F$  हो, सिद्ध किया जा सकता है (देखिए आकृति 6.24)।



आकृति 6.24

$DP = AB$  और  $DQ = AC$  काटिए तथा P और Q को मिलाइए।

अतः  $\triangle ABC \cong \triangle DPQ$  (क्यों?)

इससे  $\angle B = \angle P = \angle E$  और  $PQ \parallel EF$  प्राप्त होता है (कैसे?)

अतः  $\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$  (क्यों?)

अर्थात्  $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$  (क्यों?)

इसी प्रकार,  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$  और इसीलिए  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$


**टिप्पणी :** यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों, तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण, इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। इसीलिए, AAA समरूपता कसौटी को निम्नलिखित रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है:

यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

उपरोक्त को दो त्रिभुजों की समरूपता की AA कसौटी कहा जाता है।

ऊपर आपने देखा है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएँ समानुपाती (एक ही अनुपात में) होती हैं। इस कथन के विलोम के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या यह विलोम सत्य है? दूसरे शब्दों में, यदि एक त्रिभुज की भुजाएँ क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, तो क्या यह सत्य है कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं? आइए, एक क्रियाकलाप द्वारा जाँच करें।

**क्रियाकलाप 5 :** दो त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार खींचिए कि AB = 3 cm, BC = 6 cm, CA = 8 cm, DE = 4.5 cm, EF = 9 cm और FD = 12 cm हो (देखिए आकृति 6.25)।



आकृति 6.25

तब, आपको प्राप्त है:

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} \quad (\text{प्रत्येक } \frac{2}{3} \text{ के बराबर हैं})$$

अब,  $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D, \angle E$  और  $\angle F$  को मापिए। आप देखेंगे कि  $\angle A = \angle D$ ,  $\angle B = \angle E$  और  $\angle C = \angle F$  हैं, अर्थात् दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं।


इसी प्रकार के अनेक त्रिभुजों के युग्म खींचकर (जिनमें संगत भुजाओं के अनुपात एक ही हों), आप इस क्रियाकलाप को पुनः कर सकते हैं। प्रत्येक बार आप यह पाएँगे कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। यह दो त्रिभुजों की समरूपता की निम्नलिखित कसौटी के कारण हैं:

**प्रमेय 6.4 :** यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएँ दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती (अर्थात् एक ही अनुपात में) हों, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की SSS (भुजा-भुजा-भुजा) कसौटी कहा जाता है।

उपरोक्त प्रमेय को ऐसे दो त्रिभुज ABC और DEF लेकर, जिनमें  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$  हो, सिद्ध किया जा सकता है (देखिए आकृति 6.26):

$\triangle DEF$  में  $DP = AB$  और  $DQ = AC$  काटिए तथा P और Q को मिलाइए।



आकृति 6.26

यहाँ यह देखा जा सकता है कि  $\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$  और  $PQ \parallel EF$  है (कैसे?)

अतः  $\angle P = \angle E$  और  $\angle Q = \angle F$ .

इसलिए  $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{PQ}{EF}$

जिससे  $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{BC}{EF}$  (क्यों?)

अतः  $BC = PQ$  (क्यों?)


इस प्रकार  $\triangle ABC \cong \triangle DPQ$  (क्यों?)

अतः  $\angle A = \angle D, \angle B = \angle E$  और  $\angle C = \angle F$  (कैसे?)

**टिप्पणी :** आपको याद होगा कि दो बहुभुजों की समरूपता के दोनों प्रतिबंधों, अर्थात् (i) संगत कोण बराबर हों और (ii) संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में हों, में से केवल किसी एक का ही संतुष्ट होना उनकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं होता। परंतु प्रमेयों 6.3 और 6.4 के आधार पर, अब आप यह कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता की स्थिति में, इन दोनों प्रतिबंधों की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रतिबंध से स्वतः ही दूसरा प्रतिबंध प्राप्त हो जाता है।

आइए अब दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की उन कसौटियों को याद करें, जो हमने कक्षा IX में पढ़ी थीं। आप देख सकते हैं कि SSS समरूपता कसौटी की तुलना SSS सर्वांगसमता कसौटी से की जा सकती है। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि त्रिभुजों की समरूपता की ऐसी कसौटी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए जिसकी त्रिभुजों की SAS सर्वांगसमता कसौटी से तुलना की जा सके। इसके लिए, आइए एक क्रियाकलाप करें।

**क्रियाकलाप 6 :** दो त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार खींचिए कि AB = 2 cm,  $\angle A = 50^\circ$ , AC = 4 cm, DE = 3 cm,  $\angle D = 50^\circ$  और DF = 6 cm हो (देखिए आकृति 6.27)।



आकृति 6.27


यहाँ, आप देख सकते हैं कि  $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$  (प्रत्येक  $\frac{2}{3}$  के बराबर हैं) तथा  $\angle A$  (भुजाओं AB और AC के अंतर्गत कोण) =  $\angle D$  (भुजाओं DE और DF के अंतर्गत कोण) है। अर्थात् एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएँ एक ही अनुपात में (समानुपाती) हैं। अब, आइए  $\angle B$ ,  $\angle C$ ,  $\angle E$  और  $\angle F$  को मापें।

आप पाएँगे कि  $\angle B = \angle E$  और  $\angle C = \angle F$  है। अर्थात्,  $\angle A = \angle D$ ,  $\angle B = \angle E$  और  $\angle C = \angle F$  हैं। इसलिए, AAA समरूपता कसौटी से  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  है। आप ऐसे अनेक त्रिभुजों के युगमों को खींचकर, जिनमें एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएँ एक ही अनुपात में (समानुपाती) हों, इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक बार, आप यह पाएँगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यह त्रिभुजों की समरूपता की निम्नलिखित कसौटी के कारण है:

**प्रमेय 6.5 :** यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएँ समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की *SAS* (भुजा-कोण-भुजा) कसौटी कहा जाता है।

पहले की ही तरह, इस प्रमेय को भी दो त्रिभुज  $\triangle ABC$  और  $\triangle DEF$  ऐसे लेकर कि  $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$  ( $< 1$ ) हो तथा  $\angle A = \angle D$  हो (देखिए आकृति 6.28) तो सिद्ध किया जा सकता है।  $\triangle DEF$  में  $DP = AB$  और  $DQ = AC$  काटिए तथा  $P$  और  $Q$  को मिलाइए।



आकृति 6.28


अब  $PQ \parallel EF$  और  $\triangle ABC \cong \triangle DPQ$  (कैसे?)

अतः  $\angle A = \angle D, \angle B = \angle P$  और  $\angle C = \angle Q$  है

इसलिए  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  (क्यों?)

आइए अब हम इन कसौटियों के प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 4 :** आकृति 6.29 में, यदि  $PQ \parallel RS$  है, तो सिद्ध कीजिए कि  $\triangle POQ \sim \triangle SOR$  है।



आकृति 6.29

**हल :**  $PQ \parallel RS$  (दिया है)


अतः  $\angle P = \angle S$  (एकांतर कोण)

और  $\angle Q = \angle R$  (एकांतर कोण)

साथ ही  $\angle POQ = \angle SOR$  (शीर्षभिमुख कोण)

इसलिए  $\triangle POQ \sim \triangle SOR$  (AAA समरूपता कसौटी)

**उदाहरण 5 :** आकृति 6.30 में  $\angle P$  ज्ञात कीजिए।



आकृति 6.30

**हल :**  $\triangle ABC$  और  $\triangle PQR$  में,

$$\frac{AB}{RQ} = \frac{3.8}{7.6} = \frac{1}{2}, \quad \frac{BC}{QP} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad \text{और} \quad \frac{CA}{PR} = \frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

अर्थात्

$$\frac{AB}{RQ} = \frac{BC}{QP} = \frac{CA}{PR}$$

इसलिए

$$\triangle ABC \sim \triangle RQP$$

(SSS समरूपता)

इसलिए

$$\angle C = \angle P$$

(समरूप त्रिभुजों के संगत कोण)

परंतु

$$\begin{aligned} \angle C &= 180^\circ - \angle A - \angle B \quad (\text{त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म}) \\ &= 180^\circ - 80^\circ - 60^\circ = 40^\circ \end{aligned}$$

अतः

$$\angle P = 40^\circ$$

**उदाहरण 6 :** आकृति 6.31 में,

$$OA \cdot OB = OC \cdot OD \text{ है।}$$

दर्शाइए कि

$$\angle A = \angle C \quad \text{और} \quad \angle B = \angle D \text{ है।}$$

**हल :**


$$OA \cdot OB = OC \cdot OD \quad (\text{दिया है})$$

अतः

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OB} \quad (1)$$

साथ ही, हमें प्राप्त है:

$$\angle AOD = \angle COB$$



आकृति 6.31

(शीर्षभिमुख कोण) (2)

अतः (1) और (2) से

$\triangle AOD \sim \triangle COB$  (SAS समरूपता कसौटी)

इसलिए

$\angle A = \angle C \quad \text{और} \quad \angle D = \angle B \quad (\text{समरूप त्रिभुजों के संगत कोण})$


**उदाहरण 7 :** 90 cm की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 m/s की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 cm की ऊँचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए।

**हल :** मान लीजिए AB बल्ब लगे खंभे को तथा CD लड़की द्वारा खंभे के आधार से परे 4 सेकंड चलने के बाद उसकी स्थिति को प्रकट करते हैं (देखिए आकृति 6.32)।

आकृति से आप देख सकते हैं कि DE लड़की की छाया की लंबाई है। मान लीजिए DE, x m है।

$$\text{अब, } BD = 1.2 \text{ m} \times 4 = 4.8 \text{ m}$$

ध्यान दीजिए कि  $\triangle ABE$  और  $\triangle CDE$  में,



आकृति 6.32

$$\angle B = \angle D \quad (\text{प्रत्येक } 90^\circ \text{ का है, क्योंकि बल्ब लगा खंभा और लड़की दोनों ही भूमि से ऊर्ध्वाधर खड़े हैं})$$

तथा

$$\angle E = \angle E \quad (\text{समान कोण})$$

अतः

$$\triangle ABE \sim \triangle CDE \quad (\text{AA समरूपता कसौटी})$$

इसलिए

$$\frac{BE}{DE} = \frac{AB}{CD} \quad (\text{समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं})$$

अर्थात्

$$\frac{4.8 + x}{x} = \frac{3.6}{0.9} \quad (90 \text{ cm} = \frac{90}{100} \text{ m} = 0.9 \text{ m})$$

अर्थात्

$$4.8 + x = 4x$$

अर्थात्

$$3x = 4.8$$

अर्थात्

$$x = 1.6$$

अतः 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की छाया की लंबाई 1.6 m है।

**उदाहरण 8 :** आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः


$\triangle ABC$  और  $\triangle PQR$  की माध्यिकाएँ हैं। यदि

$\triangle ABC \sim \triangle PQR$  है तो सिद्ध कीजिए कि

$$(i) \triangle AMC \sim \triangle PNR$$

$$(ii) \frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$$

$$(iii) \triangle CMB \sim \triangle RNQ$$



आकृति 6.33

**हल :** (i)

$$\Delta ABC \sim \Delta PQR$$

(दिया है)

अतः

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$$

(1)

तथा

$$\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q \text{ और } \angle C = \angle R$$

(2)

परंतु

$$AB = 2 AM \text{ और } PQ = 2 PN$$

(क्योंकि CM और RN मध्यिकाएँ हैं)

इसलिए (1) से

$$\frac{2AM}{2PN} = \frac{CA}{RP}$$

अर्थात्

$$\frac{AM}{PN} = \frac{CA}{RP}$$

(3)

साथ ही

$$\angle MAC = \angle NRP$$

[(2) से] (4)

इसलिए (3) और (4) से,

$$\Delta AMC \sim \Delta PNR$$

(SAS समरूपता) (5)

(ii) (5) से

$$\frac{CM}{RN} = \frac{CA}{RP}$$

(6)

परंतु

$$\frac{CA}{RP} = \frac{AB}{PQ}$$

[(1) से] (7)

अतः

$$\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$$

[(6) और (7) से] (8)

(iii) पुनः:

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$$

[(1) से]

अतः

$$\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR}$$

[(8) से] (9)

साथ ही

$$\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ} = \frac{2BM}{2QN}$$

अर्थात्

$$\frac{CM}{RN} = \frac{BM}{QN}$$

(10)

अर्थात्

$$\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR} = \frac{BM}{QN}$$

[(9) और (10) से]

अतः







$$\Delta CMB \sim \Delta RNQ$$

(SSS समरूपता)

[टिप्पणी : आप इस प्रश्न के भाग (iii) को भाग (i) में प्रयोग की गई विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं।]

## प्रश्नावली 6.3


1. बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युगमों में से कौन-कौन से युगम समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए।



आकृति 6.34

2. आकृति 6.35 में,  $\triangle ODC \sim \triangle OBA$ ,  $\angle BOC = 125^\circ$  और  $\angle CDO = 70^\circ$  है।  $\angle DOC$ ,  $\angle DCO$  और  $\angle OAB$  ज्ञात कीजिए।

3. समलंब ABCD, जिसमें  $AB \parallel DC$  है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दर्शाइए कि  $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$  है।



आकृति 6.35

4. आकृति 6.36 में,  $\frac{QR}{QS} = \frac{QT}{PR}$  तथा  $\angle 1 = \angle 2$  है।

दर्शाइए कि  $\triangle PQS \sim \triangle TQR$  है।

5.  $\triangle PQR$  की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि  $\angle P = \angle RTS$  है। दर्शाइए कि  $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$  है।

6. आकृति 6.37 में, यदि  $\triangle ABE \cong \triangle ACD$  है, तो दर्शाइए कि  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$  है।

7. आकृति 6.38 में,  $\triangle ABC$  के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि:

- (i)  $\triangle AEP \sim \triangle CDP$
- (ii)  $\triangle ABD \sim \triangle CBE$
- (iii)  $\triangle AEP \sim \triangle ADB$
- (iv)  $\triangle PDC \sim \triangle BEC$





8. समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि  $\triangle ABE \sim \triangle CFB$  है।

9. आकृति 6.39 में, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि:


- (i)  $\triangle ABC \sim \triangle AMP$
- (ii)  $\frac{CA}{PA} = \frac{BC}{MP}$

10. CD और GH क्रमशः  $\angle ACB$  और  $\angle EGF$  के ऐसे समट्रिभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः  $\triangle ABC$  और  $\triangle FEG$  की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि  $\triangle ABC \sim \triangle FEG$  है, तो दर्शाइए कि:


- (i)  $\frac{CD}{GH} = \frac{AC}{FG}$
- (ii)  $\triangle DCB \sim \triangle HGE$
- (iii)  $\triangle DCA \sim \triangle HGF$



11. आकृति 6.40 में,  $AB = AC$  वाले, एक समद्विबाहु त्रिभुज  $ABC$  की बढ़ाई गई भुजा  $CB$  पर स्थित  $E$  एक बिंदु है। यदि  $AD \perp BC$  और  $EF \perp AC$  है तो सिद्ध कीजिए कि  $\triangle ABD \sim \triangle ECF$  है।
12. एक त्रिभुज  $ABC$  की भुजाएँ  $AB$  और  $BC$  तथा माध्यिका  $AD$  एक अन्य त्रिभुज  $PQR$  की क्रमशः भुजाओं  $PQ$  और  $QR$  तथा माध्यिका  $PM$  के समानुपाती हैं (देखिए आकृति 6.41)। दर्शाइए कि  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  है।



आकृति 6.40



आकृति 6.41

13. एक त्रिभुज  $ABC$  की भुजा  $BC$  पर एक बिंदु  $D$  इस प्रकार स्थित है कि  $\angle ADC = \angle BAC$  है। दर्शाइए कि  $CA^2 = CB \cdot CD$  है।
14. एक त्रिभुज  $ABC$  की भुजाएँ  $AB$  और  $AC$  तथा माध्यिका  $AD$  एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं  $PQ$  और  $PR$  तथा माध्यिका  $PM$  के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  है।
15. लंबाई 6 m वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 m है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 m है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
16.  $AD$  और  $PM$  त्रिभुजों  $ABC$  और  $PQR$  की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  है। सिद्ध कीजिए कि  $\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PM}$  है।

## 6.5 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है:

- दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों, परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हों, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं।
- सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है।
- भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि (i) उनके संगत कोण बराबर हों तथा (ii) उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में (समानुपाती) हों।
- यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएँ एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं।

5. यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
6. यदि दो त्रिभुजों में, संगत कोण बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं (AAA समरूपता कसौटी)।
7. यदि दो त्रिभुजों में, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं (AA समरूपता कसौटी)।
8. यदि दो त्रिभुजों में, संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में हों, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं (SSS समरूपता कसौटी)।
9. यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएँ एक ही अनुपात में हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं (SAS समरूपता कसौटी)।

### पाठकों के लिए विशेष

यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे RHS समरूपता कसौटी कहा जा सकता है।

यदि आप इस कसौटी को अध्याय 8 के उदाहरण 2 में प्रयोग करते हैं तो उपपत्ति और भी सरल हो जाएगी।



1063CH07

## निर्देशांक ज्यामिति

7

### 7.1 भूमिका

कक्षा IX में, आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की  $y$ -अक्ष से दूरी उस बिंदु का  $x$ -निर्देशांक या भुज (abscissa) कहलाती है। किसी बिंदु की  $x$ -अक्ष से दूरी, उस बिंदु का  $y$ -निर्देशांक या कोटि (ordinate) कहलाती है।  $x$ -अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक  $(x, 0)$  के रूप के होते हैं तथा  $y$ -अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक  $(0, y)$  के रूप के होते हैं।

यहाँ आपके लिए एक खेल दिया जा रहा है। एक आलेख कागज पर लांबिक अक्षों (perpendicular axes) का एक युग्म खींचिए। अब निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए और दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें मिलाइए। बिंदु A(4, 8) को B(3, 9) से, B को C(3, 8) से, C को D(1, 6) से, D को E(1, 5) से, E को F(3, 3) से, F को G(6, 3) से, G को H(8, 5) से, H को I(8, 6) से, I को J(6, 8) से, J को K(6, 9) से, K को L(5, 8) से और L को A से मिलाइए। इसके बाद, बिंदुओं P(3.5, 7), Q(3, 6) और R(4, 6) को जोड़ कर एक त्रिभुज बनाइए। साथ ही, एक त्रिभुज बनाने के लिए बिंदुओं X(5.5, 7), Y(5, 6) और Z(6, 6) को मिलाइए। अब एक और त्रिभुज बनाने के लिए, बिंदुओं S(4, 5), T(4.5, 4) और U(5, 5) को मिलाइए। अंत में, बिंदु S को बिंदुओं (0, 5) और (0, 6) से मिलाइए तथा बिंदु U को बिंदुओं (9, 5) और (9, 6) से मिलाइए। आपको कौन-सा चित्र प्राप्त होता है?

साथ ही, आप यह भी देख चुके हैं कि  $ax + by + c = 0$  (जहाँ  $a$  और  $b$  एक साथ शून्य न हों) के रूप की दो चरों वाली एक समीकरण को जब आलेखीय रूप से निरूपित करते हैं, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। साथ ही, अध्याय 2 में आप देख चुके हैं कि

$y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) का आलेख एक परवलय (parabola) होता है। वस्तुतः, आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए, निर्देशांक ज्यामिति (coordinate geometry) एक बीजीय साधन (algebraic tool) के रूप में विकसित की गई है। यह बीजगणित का प्रयोग करके ज्यामिति का अध्ययन करने में सहायता करती है तथा बीजगणित को ज्यामिति द्वारा समझने में भी सहायक होती है। इसी कारण, निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग हैं, जैसे भौतिकी, इंजीनियरिंग, समुद्री-परिवहन (या नौ-गमन) (navigation), भूकंप शास्त्र संबंधी (seismology) और कला।

इस अध्याय में, आप यह सीखेंगे कि दो बिंदुओं, जिनके निर्देशांक दिए हुए हों, के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा तीन दिए हुए बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आप इसका भी अध्ययन करेंगे कि दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं।

## 7.2 दूरी सूत्र


आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें:

एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 km पूर्व (east) और 15 km उत्तर (north) की ओर है। आप शहर B की शहर A से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखें। इस स्थिति को, आलेखीय रूप से, आकृति 7.1 की तरह दर्शाया जा सकता है। अब, आप वर्छित दूरी ज्ञात करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं।


अब, मान लीजिए दो बिंदु  $x$ -अक्ष पर स्थित हैं। क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? उदाहरणार्थ, आकृति 7.2 के दो बिंदुओं A(4, 0) और B(6, 0) पर विचार कीजिए। बिंदु A और B,  $x$ -अक्ष पर स्थित हैं।

आकृति से आप देख सकते हैं कि  $OA = 4$  मात्रक (इकाई) और  $OB = 6$  मात्रक हैं।

अतः, A से B की दूरी  $AB = OB - OA = (6 - 4)$  मात्रक = 2 मात्रक है।



आकृति 7.1



आकृति 7.2

इस प्रकार, यदि दो बिंदु  $x$ -अक्ष पर स्थित हों, तो हम उनके बीच की दूरी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं।

अब, मान लीजिए, हम  $y$ -अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं। क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यदि बिंदु  $C(0, 3)$  और  $D(0, 8)$ ,  $y$ -अक्ष पर स्थित हों, तो हम दूरी ऊपर की भाँति ज्ञात कर सकते हैं अर्थात् दूरी  $CD = (8 - 3) = 5$  मात्रक है (देखिए आकृति 7.2)।

पुनः, क्या आप आकृति 7.2 में, बिंदु  $C$  से बिंदु  $A$  की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? चूँकि  $OA = 4$  मात्रक और  $OC = 3$  मात्रक हैं, इसलिए  $C$  से  $A$  की दूरी  $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$  मात्रक है। इसी प्रकार, आप  $D$  से  $B$  की दूरी  $BD = 10$  मात्रक ज्ञात कर सकते हैं।

अब, यदि हम ऐसे दो बिंदुओं पर विचार करें, जो निर्देशांक अक्षों पर स्थित नहीं हैं, तो क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ! ऐसा करने के लिए, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आइए एक उदाहरण लेकर देखें।

आकृति 7.3 में, बिंदु  $P(4, 6)$  और  $Q(6, 8)$  प्रथम चतुर्थांश (first quadrant) में स्थित हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं? आइए  $P$  और  $Q$  से  $x$ -अक्ष पर क्रमशः लंब  $PR$  और  $QS$  खींचें। साथ ही,  $P$  से  $QS$  पर एक लंब डालिए जो  $QS$  को  $T$  पर प्रतिच्छेद करे। तब  $R$  और  $S$  के निर्देशांक क्रमशः  $(4, 0)$  और  $(6, 0)$  हैं। अतः,  $RS = 2$  मात्रक है। साथ ही,  $QS = 8 - 6 = 2$  मात्रक और  $PT = PR = 6 - 4 = 2$  मात्रक है।

स्पष्ट है कि  $QT = 2$  मात्रक और  $PT = RS = 2$  मात्रक।


अब, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, हमें प्राप्त होता है:

$$\begin{aligned} PQ^2 &= PT^2 + QT^2 \\ &= 2^2 + 2^2 = 8 \end{aligned}$$


अतः  $PQ = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$  मात्रक हुआ।

आप दो भिन्न-भिन्न चतुर्थांशों में स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे?

बिंदुओं  $P(6, 4)$  और  $Q(-5, -3)$  पर विचार कीजिए (देखिए आकृति 7.4)।  $x$ -अक्ष पर लंब  $QS$  खींचिए। साथ ही, बिंदु  $P$  से बढ़ाई हुई  $QS$  पर  $PT$  लंब खींचिए जो  $y$ -अक्ष को बिंदु  $R$  पर प्रतिच्छेद करे।



आकृति 7.3



आकृति 7.4

तब,  $PT = 11$  मात्रक और  $QT = 7$  मात्रक है (क्यों?)

समकोण त्रिभुज  $PTQ$  में, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, हमें प्राप्त होता है:


$$PQ = \sqrt{11^2 + 7^2} = \sqrt{170} \text{ मात्रक}$$

आइए, अब किन्हीं दो बिंदुओं  $P(x_1, y_1)$  और  $Q(x_2, y_2)$  के बीच की दूरी ज्ञात करें।  $x$ -अक्ष पर लंब  $PR$  और  $QS$  खींचिए।  $P$  से  $QS$  पर एक लंब खींचिए, जो उसे  $T$  पर प्रतिच्छेद करे (देखिए आकृति 7.5)।

तब,  $OR = x_1$ ,  $OS = x_2$  है। अतः,  $RS = x_2 - x_1 = PT$  है।

साथ ही,  $SQ = y_2$  और  $ST = PR = y_1$  है। अतः,  $QT = y_2 - y_1$  है।

अब,  $\triangle PTQ$  में, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, हमें प्राप्त होता है:



आकृति 7.5

$$PQ^2 = PT^2 + QT^2$$

$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$\text{अतः } PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ध्यान दें कि चौंकि दूरी सदैव ऋणेतर होती है, हम केवल धनात्मक वर्गमूल लेते हैं।

अतः  $P(x_1, y_1)$  और  $Q(x_2, y_2)$  के बिंदुओं के बीच की दूरी है

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

जो दूरी सूत्र (distance formula) कहलाता है।

**टिप्पणियाँ :**

1. विशेष रूप से, बिंदु  $P(x, y)$  की मूल बिंदु  $O(0, 0)$  से दूरी

$$OP = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ होती है।}$$

2. हम  $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$  भी लिख सकते हैं (क्यों?)

**उदाहरण 1 :** क्या बिंदु  $(3, 2), (-2, -3)$  और  $(2, 3)$  एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है।

**हल :** आइए  $PQ, QR$  और  $PR$  ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करें, जहाँ  $P(3, 2), Q(-2, -3)$  और  $R(2, 3)$  दिए हुए बिंदु हैं। हमें प्राप्त होता है:

$$PQ = \sqrt{(3+2)^2 + (2+3)^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 7.07 \text{ (लगभग)}$$

$$QR = \sqrt{(-2-2)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-6)^2} = \sqrt{52} = 7.21 \text{ (लगभग)}$$

$$PR = \sqrt{(3-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} = 1.41 \text{ (लगभग)}$$

चूंकि इन तीन दूरियों में से किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी से अधिक है, इसलिए इन बिंदुओं  $P, Q$  और  $R$  से एक त्रिभुज बनता है।

साथ ही, यहाँ  $PQ^2 + PR^2 = QR^2$  है। अतः, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, हमें ज्ञात होता है कि  $\angle P = 90^\circ$  है।

इसलिए,  $PQR$  एक समकोण त्रिभुज है।

**उदाहरण 2 :** दर्शाइए कि बिंदु  $(1, 7), (4, 2), (-1, -1)$  और  $(-4, 4)$  एक वर्ग के शीर्ष हैं।

**हल :** मान लीजिए दिए हुए बिंदु  $A(1, 7), B(4, 2), C(-1, -1)$  और  $D(-4, 4)$  हैं।  $ABCD$  को एक वर्ग दर्शाने की एक विधि यह है कि उसका गुणधर्म जैसा कि वर्ग की सभी भुजाएँ बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर होती हैं, का प्रयोग किया जाए। अब,

$$AB = \sqrt{(1-4)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$BC = \sqrt{(4+1)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$CD = \sqrt{(-1+4)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$DA = \sqrt{(1+4)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$AC = \sqrt{(1+1)^2 + (7+1)^2} = \sqrt{4+64} = \sqrt{68}$$

$$BD = \sqrt{(4+4)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{64+4} = \sqrt{68}$$

यहाँ,  $AB = BC = CD = DA$  है और  $AC = BD$  है, अर्थात् चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएँ बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।

**वैकल्पिक हल :** हम चारों भुजाएँ


और एक विकर्ण, मान लीजिए  $AC$  ऊपर की तरह ज्ञात करते हैं। यहाँ  $AD^2 + DC^2 = 34 + 34 = 68 = AC^2$  है। अतः, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा  $\angle D = 90^\circ$  है। चारों भुजाएँ बराबर होने और एक कोण समकोण होने से चतुर्भुज एक वर्ग हो जाता है। अतः ABCD एक वर्ग है।

**उदाहरण 3 :** आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों (desks) की व्यवस्था दर्शाती है। आशिमा, भारती और कैमिला क्रमशः A(3, 1), B(6, 4) और C(8, 6) पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीधे (in a line) में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए।

**हल :** दूरी सूत्र के प्रयोग से, हमें प्राप्त होता है :

$$AB = \sqrt{(6-3)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{(8-6)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$



**आकृति 7.6**

$$AC = \sqrt{(8-3)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

चूंकि  $AB + BC = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2} = AC$  है, अतः हम कह सकते हैं कि A, B और C सरेखी (collinear) हैं। अर्थात्, वे तीनों एक ही सीध में बैठे हैं।

**उदाहरण 4 :**  $x$  और  $y$  में एक संबंध ज्ञात कीजिए, ताकि बिंदु  $(x, y)$  बिंदुओं  $(7, 1)$  और  $(3, 5)$  से समदूरस्थ (equidistant) हो।

**हल :** मान लीजिए  $P(x, y)$  बिंदुओं A(7, 1) और B(3, 5) से समदूरस्थ है।

हमें  $AP = BP$  दिया है। अतः,  $AP^2 = BP^2$  है।

$$\text{अर्थात् } (x - 7)^2 + (y - 1)^2 = (x - 3)^2 + (y - 5)^2$$

$$\text{अर्थात् } x^2 - 14x + 49 + y^2 - 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25$$

$$\text{अर्थात् } x - y = 2$$

यही  $x$  और  $y$  में वांछित संबंध है।


**टिप्पणी :** ध्यान दीजिए कि समीकरण  $x - y = 2$  का आलेख एक रेखा होता है। आप अपने पिछले अध्ययन से यह जानते हैं कि वह बिंदु जो दो दिए हुए बिंदुओं A और B से समदूरस्थ होता है रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। अतः,  $x - y = 2$  का आलेख रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है (देखिए आकृति 7.7)।

**उदाहरण 5 :**  $y$ -अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं A(6, 5) और B(-4, 3) से समदूरस्थ हो।

**हल :** हम जानते हैं कि  $y$ -अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु  $(0, y)$  के रूप का होता है। अतः, मान लीजिए कि बिंदु P(0, y) बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। तब,

$$(6-0)^2 + (5-y)^2 = (-4-0)^2 + (3-y)^2$$

$$\text{या } 36 + 25 + y^2 - 10y = 16 + 9 + y^2 - 6y$$



आकृति 7.7

या

$$4y = 36$$

या

$$y = 9$$

अतः, वांछित बिंदु  $(0, 9)$  है।


आइए अपने हल की जाँच करें:  $AP = \sqrt{(6 - 0)^2 + (5 - 9)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$

$$BP = \sqrt{(-4 - 0)^2 + (3 - 9)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52}$$

**टिप्पणी :** ऊपर दी गई टिप्पणी का प्रयोग करने से, हम देखते हैं कि  $(0, 9)$ ,  $y$ -अक्ष और रेखाखंड  $AB$  के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है।

## प्रश्नावली 7.1

- बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए:
  - $(2, 3), (4, 1)$
  - $(-5, 7), (-1, 3)$
  - $(a, b), (-a, -b)$
- बिंदुओं  $(0, 0)$  और  $(36, 15)$  के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं?
- निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु  $(1, 5), (2, 3)$  और  $(-2, -11)$  सरेखी हैं।
- जाँच कीजिए कि क्या बिंदु  $(5, -2), (6, 4)$  और  $(7, -2)$  एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
- किसी कक्षा में, चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसाकि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, चंपा चमेली से पूछती है, 'क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है?' चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके, बताइए कि इनमें कौन सही है।
- निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार (यदि कोई है तो) बताइए तथा अपने




उत्तर के लिए कारण भी दीजिए:

- (-1, -2), (1, 0), (-1, 2), (-3, 0)
  - (-3, 5), (3, 1), (0, 3), (-1, -4)
  - (4, 5), (7, 6), (4, 3), (1, 2)
7.  $x$ -अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो  $(2, -5)$  और  $(-2, 9)$  से समदूरस्थ हैं।
8.  $y$  का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु  $P(2, -3)$  और  $Q(10, y)$  के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
9. यदि  $Q(0, 1)$  बिंदुओं  $P(5, -3)$  और  $R(x, 6)$  से समदूरस्थ है, तो  $x$  के मान ज्ञात कीजिए। दूरियाँ  $QR$  और  $PR$  भी ज्ञात कीजिए।
10.  $x$  और  $y$  में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु  $(x, y)$  बिंदुओं  $(3, 6)$  और  $(-3, 4)$  से समदूरस्थ हो।

### 7.3 विभाजन सूत्र

आइए अनुच्छेद 7.2 में दी हुई स्थिति को याद करें। मान लीजिए कि टेलीफोन कंपनी शहरों A और B के बीच में एक प्रसारण टॉवर (relay tower) ऐसे स्थान P पर स्थापित करना चाहती है कि टॉवर की B से दूरी उसकी A से दूरी की दुगुनी हो। यदि P रेखाखंड AB पर स्थित



आकृति 7.9

है, तो यह AB को  $1 : 2$  के अनुपात में विभाजित करे। (देखिए आकृति 7.9)। यदि हम A को मूलबिंदु O मानें तथा 1 km को दोनों अक्षों पर 1 मात्रक मानें, तो B के निर्देशांक  $(36, 15)$  होंगे। P की स्थिति जानने के लिए हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने चाहिए। ये निर्देशांक हम किस प्रकार ज्ञात करें?

मान लीजिए P के निर्देशांक  $(x, y)$  हैं। P और B से  $x$ -अक्ष पर लंब खींचिए जो इसे क्रमशः D और E पर मिलें। BE पर लंब PC खींचिए जो उससे C पर मिले। तब, अध्याय 6 में, पढ़ी गई AA समरूपता कसौटी के प्रयोग से,  $\triangle POD$  और  $\triangle BPC$  समरूप हैं।

$$\text{अतः } \frac{OD}{PC} = \frac{OP}{PB} = \frac{1}{2} \quad \text{तथा} \quad \frac{PD}{BC} = \frac{OP}{PB} = \frac{1}{2} \quad \text{है।}$$

$$\text{अतः } \frac{x}{36-x} = \frac{1}{2} \quad \text{तथा} \quad \frac{y}{15-y} = \frac{1}{2} \quad \text{है।}$$

इन समीकरणों से  $x = 12$  और  $y = 5$  प्राप्त होता है।

आप इसकी जाँच कर सकते हैं कि  $P(12, 5)$  प्रतिबंध  $OP : PB = 1 : 2$  को संतुष्ट करता है।

आइए अब उपरोक्त उदाहरण से प्राप्त की गई समझ के आधार पर विभाजन का व्यापक सूत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

किन्हीं दो बिंदुओं  $A(x_1, y_1)$  और  $B(x_2, y_2)$  पर विचार कीजिए और मान लीजिए बिंदु  $P(x, y)$  रेखाखंड  $AB$  को  $m_1 : m_2$  के अनुपात में आंतरिक रूप से (internally) विभाजित करता है, अर्थात्

$$\frac{PA}{PB} = \frac{m_1}{m_2} \text{ है } (\text{देखिए आकृति 7.10})!$$

$x$ -अक्ष पर  $AR, PS$  और  $BT$  लंब खींचिए।  $x$ -अक्ष के समांतर  $AQ$  और  $PC$  खींचिए। तब  $AA$  समरूपता कसौटी से,

$$\Delta PAQ \sim \Delta BPC$$

अतः

$$\frac{PA}{BP} = \frac{AQ}{PC} = \frac{PQ}{BC} \quad (1)$$

अब

$$AQ = RS = OS - OR = x - x_1$$

$$PC = ST = OT - OS = x_2 - x$$

$$PQ = PS - QS = PS - AR = y - y_1$$

$$BC = BT - CT = BT - PS = y_2 - y$$


इन मानों को (1) में प्रतिस्थापित करने पर, हमें प्राप्त होता है:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{y - y_1}{y_2 - y}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} \text{ लेने पर हमें } x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} \text{ प्राप्त होता है।}$$

इसी प्रकार

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{y - y_1}{y_2 - y} \text{ लेने पर हमें } y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \text{ प्राप्त होता है।}$$



आकृति 7.10

अतः, दो बिंदुओं  $A(x_1, y_1)$  और  $B(x_2, y_2)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड  $AB$  को  $m_1 : m_2$  के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु  $P(x, y)$  के निर्देशांक हैं :

$$\left( \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \right) \quad (2)$$

उपरोक्त को विभाजन सूत्र (section formula) कहते हैं।

इसी सूत्र को  $A, P$  और  $B$  से  $y$ -अक्ष पर लंब डालकर और ऊपर की भाँति प्रक्रिया अपनाकर भी प्राप्त किया जा सकता है।

यदि  $P$  रेखाखंड  $AB$  को  $k : 1$  के अनुपात में विभाजित करे, तो बिंदु  $P$  के निर्देशांक

$$\left( \frac{kx_2 + x_1}{k+1}, \frac{ky_2 + y_1}{k+1} \right) \text{ होंगे।}$$

**विशिष्ट स्थिति :** एक रेखाखंड का मध्य-बिंदु उसे  $1 : 1$  के अनुपात में विभाजित करता है। अतः, बिंदुओं  $A(x_1, y_1)$  और  $B(x_2, y_2)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड  $AB$  के मध्य-बिंदु के निर्देशांक

$$\left( \frac{1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2}{1+1}, \frac{1 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2}{1+1} \right) = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \text{ होंगे।}$$

आइए अब विभाजन सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरण हल करें।

**उदाहरण 6 :** उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं  $(4, -3)$  और  $(8, 5)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से  $3 : 1$  के अनुपात में विभाजित करता है।

**हल :** मान लीजिए  $P(x, y)$  वांछित बिंदु है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें

$$x = \frac{3(8) + 1(4)}{3+1} = 7, \quad y = \frac{3(5) + 1(-3)}{3+1} = 3$$

प्राप्त होता है। अतः  $(7, 3)$  ही वांछित बिंदु है।

**उदाहरण 7 :** बिंदु  $(-4, 6)$ , बिंदुओं  $A(-6, 10)$  और  $B(3, -8)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है?

**हल :** मान लीजिए  $(-4, 6)$  रेखाखंड  $AB$  को आंतरिक रूप से  $m_1 : m_2$  के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र के प्रयोग से, हमें प्राप्त होता है:

$$(-4, 6) = \left( \frac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}, \frac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2} \right) \quad (1)$$

याद कीजिए कि यदि  $(x, y) = (a, b)$  हो, तो  $x = a$  और  $y = b$  होता है।

अतः  $-4 = \frac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}$  और  $6 = \frac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2}$  है।

अब  $-4 = \frac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}$  से प्राप्त होता है:

$$-4m_1 - 4m_2 = 3m_1 - 6m_2$$

अर्थात्  $7m_1 = 2m_2$

या  $m_1 : m_2 = 2 : 7$

आपको इसकी जाँच कर लेनी चाहिए कि यह अनुपात  $y$ -निर्देशांक को भी संतुष्ट करता है।

अब  $\frac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2} = \frac{-8 \cdot \frac{m_1}{m_2} + 10}{\frac{m_1}{m_2} + 1}$  ( $m_2$  से ऊपर नीचे भाग देने पर)

$$= \frac{-8 \times \frac{2}{7} + 10}{\frac{2}{7} + 1} = 6$$

अतः बिंदु  $(-4, 6)$ , बिंदुओं  $A(-6, 10)$  और  $B(3, -8)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को  $2 : 7$  के अनुपात में विभाजित करता है।

**वैकल्पिक हल :** अनुपात  $m_1 : m_2$  को  $\frac{m_1}{m_2} : 1$ , या  $k : 1$  के रूप में लिखा जा सकता है। मान

लीजिए बिंदु  $(-4, 6)$  रेखाखंड  $AB$  को आंतरिक रूप से  $k : 1$  के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र द्वारा, हमें प्राप्त होता है:

$$(-4, 6) = \left( \frac{3k - 6}{k + 1}, \frac{-8k + 10}{k + 1} \right) \quad (2)$$

अतः

$$-4 = \frac{3k - 6}{k + 1}$$

या

$$-4k - 4 = 3k - 6$$

या

$$7k = 2$$

या

$$k : 1 = 2 : 7$$

आप  $y$ -निर्देशांक के लिए भी इसकी जाँच कर सकते हैं।

अतः, बिंदु  $(-4, 6)$ , बिंदुओं  $A(-6, 10)$  और  $B(3, -8)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को  $2 : 7$  के अनुपात में विभाजित करता है।

**टिप्पणी :** आप इस अनुपात को दूरियाँ  $PA$  और  $PB$  ज्ञात करके और फिर उनके अनुपात लेकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपको यह जानकारी हो कि बिंदु  $A$ ,  $P$  और  $B$  संरेखी हैं।

**उदाहरण 8 :** बिंदुओं  $A(2, -2)$  और  $B(-7, 4)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम-त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

**हल :** मान लीजिए रेखाखंड  $AB$  को सम-त्रिभाजित

करने वाले बिंदु  $P$  और  $Q$  हैं, अर्थात्  $AP = PQ = QB$  है (देखिए आकृति 7.11)।



Fig. 7.11

अतः,  $P$  रेखाखंड  $AB$  को आंतरिक रूप से  $1 : 2$  के अनुपात में विभाजित करता है। अतः,  $P$  के निर्देशांक सूत्र द्वारा, निम्नलिखित हैं:

$$\left( \frac{1(-7) + 2(2)}{1+2}, \frac{1(4) + 2(-2)}{1+2} \right), \text{ अर्थात् } (-1, 0)$$

अब,  $Q$  रेखाखंड  $AB$  को आंतरिक रूप से  $2 : 1$  के अनुपात में विभाजित करता है। अतः  $Q$  के निर्देशांक हैं:

$$\left( \frac{2(-7) + 1(2)}{2+1}, \frac{2(4) + 1(-2)}{2+1} \right), \text{ अर्थात् } (-4, 2)$$

अतः, बिंदुओं  $A$  और  $B$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम-त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक  $(-1, 0)$  और  $(-4, 2)$  हैं।

**टिप्पणी :** हम  $Q$  के निर्देशांक उसे  $PB$  का मध्य-बिंदु मानते हुए भी ज्ञात कर सकते थे। इसमें हमें मध्य-बिंदु वाले सूत्र का प्रयोग करना पड़ता।

**उदाहरण 9 :** बिंदुओं  $(5, -6)$  और  $(-1, -4)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को  $y$ -अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।

**हल :** मान लीजिए वांछित अनुपात  $k : 1$  है। तब, विभाजन सूत्र द्वारा, उस रेखाखंड को  $k : 1$  के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं :  $\left( \frac{-k+5}{k+1}, \frac{-4k-6}{k+1} \right)$

यह बिंदु  $y$ -अक्ष पर स्थित है और हम जानते हैं कि  $y$ -अक्ष पर भूज 0 होता है।

$$\begin{aligned} \text{अतः} \quad & \frac{-k+5}{k+1} = 0 \\ \text{इसलिए} \quad & k = 5 \text{ है।} \end{aligned}$$

अर्थात् वांछित अनुपात  $5 : 1$  है।  $k$  का मान 5 रखने पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु  $\left( 0, \frac{-13}{3} \right)$  प्राप्त होता है।

**उदाहरण 10 :** यदि बिंदु  $A(6, 1)$ ,  $B(8, 2)$ ,  $C(9, 4)$  और  $D(p, 3)$  एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हों, तो  $p$  का मान ज्ञात कीजिए।

**हल :** हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।

अतः, विकर्ण  $AC$  के मध्य बिंदु के निर्देशांक = विकर्ण  $BD$  के मध्य-बिंदु के निर्देशांक

$$\text{अर्थात्} \quad \left( \frac{6+9}{2}, \frac{1+4}{2} \right) = \left( \frac{8+p}{2}, \frac{2+3}{2} \right)$$

$$\text{या} \quad \left( \frac{15}{2}, \frac{5}{2} \right) = \left( \frac{8+p}{2}, \frac{5}{2} \right)$$

$$\text{अतः} \quad \frac{15}{2} = \frac{8+p}{2}$$

$$\text{या} \quad p = 7$$


## प्रश्नावली 7.2

- उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं  $(-1, 7)$  और  $(4, -3)$  को मिलाने वाले रेखाखंड को  $2 : 3$  के अनुपात में विभाजित करता है।
- बिंदुओं  $(4, -1)$  और  $(-2, -3)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम-त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

3. आपके स्कूल में खेल-कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, एक आयताकार मैदान ABCD में, चूने से परस्पर 1m की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1m की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के  $\frac{1}{4}$  भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत आठवीं पंक्ति में AD के  $\frac{1}{5}$  भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी

क्या है? यदि रशिम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी (बीच में) पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए?

4. बिंदुओं  $(-3, 10)$  और  $(6, -8)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु  $(-1, 6)$  किस अनुपात में विभाजित करता है।
5. वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A  $(1, -5)$  और B  $(-4, 5)$  को मिलाने वाला रेखाखंड  $x$ -अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।
6. यदि बिंदु  $(1, 2), (4, y), (x, 6)$  और  $(3, 5)$ , इसी क्रम में लेने पर, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो  $x$  और  $y$  ज्ञात कीजिए।
7. बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र  $(2, -3)$  है तथा B के निर्देशांक  $(1, 4)$  हैं।
8. यदि A और B क्रमशः  $(-2, -2)$  और  $(2, -4)$  हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि  $AP = \frac{3}{7} AB$  हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो।
9. बिंदुओं A  $(-2, 2)$  और B  $(2, 8)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
10. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसी क्रम में,  $(3, 0), (4, 5), (-1, 4)$  और  $(-2, -1)$  हैं। [संकेत: समचतुर्भुज का क्षेत्रफल =  $\frac{1}{2}$  (उसके विकर्णों का गुणनफल)]



आकृति 7.12

## 7.4 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है:

1.  $P(x_1, y_1)$  और  $Q(x_2, y_2)$  के बीच की दूरी  $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$  है।
2. बिंदु  $P(x, y)$  की मूलबिंदु से दूरी  $\sqrt{x^2 + y^2}$  होती है।
3. उस बिंदु  $P(x, y)$  के निर्देशांक जो बिंदुओं  $A(x_1, y_1)$  और  $B(x_2, y_2)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड को  $m_1 : m_2$  के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, निम्नलिखित होते हैं:
 
$$\left( \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \right)$$
4. बिंदुओं  $P(x_1, y_1)$  और  $Q(x_2, y_2)$  को जोड़ने वाले रेखाखंड  $PQ$  के मध्यबिंदु के निर्देशांक
 
$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$
 होते हैं।

### पाठकों के लिए विशेष

अनुभाग 7.3 में किसी बिंदु  $P$  के लिए जिसके निर्देशांक  $(x, y)$  हैं तथा यदि यह बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं  $A(x_1, y_1)$  और  $B(x_2, y_2)$  को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में  $m_1 : m_2$  के अनुपात में विभाजित करता है तो

$$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$

ध्यान दीजिए कि  $PA : PB = m_1 : m_2$

तथापि यदि बिंदु  $P$  बिंदुओं  $A$  और  $B$  के बीच स्थित नहीं है, परंतु यह रेखाखंड के वाह्य में स्थित है जहाँ  $PA : PB = m_1 : m_2$  है तब हम कहते हैं कि  $P$  बिंदुओं  $A$  और  $B$  को मिलाने वाले रेखाखंड को वाह्यतः विभाजित करता है। ऐसी स्थितियों से संबंधित विभाजन सूत्र का अध्ययन आप उच्चतर कक्षाओं में करेंगे।



1063CH08

## त्रिकोणमिति का परिचय

**8**

*There is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry.*


(संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है, जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके।)

— J.F. Herbart (1890)

### 8.1 भूमिका

आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम अपने आस-पास के परिवेश से कुछ ऐसे उदाहरण लें, जहाँ समकोण त्रिभुजों के बनने की कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के लिए :


- मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुबमीनार देखने गए हैं। अब, यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो, तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है जैसाकि आकृति 8.1 में दिखाया गया है। क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊँचाई ज्ञात कर सकता है?



आकृति 8.1


- मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। इस स्थिति में, एक समकोण त्रिभुज बनने की

कल्पना की जा सकती है जैसाकि आकृति 8.2 में दिखाया गया है, यदि आपको वह ऊँचाई ज्ञात हो, जिस पर लड़की बैठी हुई है, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं?



आकृति 8.2

3. मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है और इस बात को बताने के लिए वह अपनी माँ के पास दौड़कर जाती है। गुब्बारे को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। अब मान लीजिए कि जब पहले-पहल लड़की गुब्बारे को देखती है, तब गुब्बारा बिंदु A पर था। जब माँ-बेटी दोनों ही गुब्बारे को देखने के लिए बाहर निकलकर आती हैं तब तक गुब्बारा एक अन्य बिंदु B तक आ चुका होता है। क्या आप जमीन के उस स्थान से, जहाँ माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं, B की ऊँचाई ज्ञात कर सकते हैं?



आकृति 8.3

ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियाँ अथवा ऊँचाईयाँ कुछ गणितीय तकनीकों को, जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं, लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द ‘trigonometry’ की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ‘tri’ (जिसका अर्थ है तीन), ‘gon’ (जिसका अर्थ है, भुजा) और ‘metron’ (जिसका अर्थ है माप) से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलॉन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद् त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियाँ मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियाँ त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित हैं।

इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे। यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे

कोणों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ हम  $0^\circ$  और  $90^\circ$  के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमिकाएँ (identities), जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ कहा जाता है, स्थापित करेंगे।

## 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात

अनुच्छेद 8.1 में आप विभिन्न स्थितियों में बने कुछ समकोण त्रिभुजों की कल्पना कर चुके हैं।

आइए हम एक समकोण त्रिभुज ABC लें, जैसाकि आकृति 8.4 में दिखाया गया है।

यहाँ,  $\angle CAB$  (या संक्षेप में कोण A) एक न्यून कोण है। कोण A के सापेक्ष भुजा BC की स्थिति पर ध्यान दीजिए। यह भुजा कोण A के सामने है। इस भुजा को हम कोण A की समुख भुजा कहते हैं, भुजा AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है और भुजा AB,  $\angle A$  का एक भाग है। अतः इसे हम कोण A की संलग्न भुजा कहते हैं।


ध्यान दीजिए कि कोण A के स्थान पर कोण C लेने पर भुजाओं की स्थिति बदल जाती है। (देखिए आकृति 8.5)

पिछली कक्षाओं में आप “अनुपात” की संकल्पना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ अब हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ अनुपातों को, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, परिभाषित करेंगे।


समकोण त्रिभुज ABC (देखिए आकृति 8.4) के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं:

$$\angle A \text{ का sine} = \frac{\text{कोण A की समुख भुजा}}{\text{कर्ण}} = \frac{BC}{AC}$$

$$\angle A \text{ का cosine} = \frac{\text{कोण A की संलग्न भुजा}}{\text{कर्ण}} = \frac{AB}{AC}$$



आकृति 8.4



आकृति 8.5

$$\angle A \text{ का tangent} = \frac{\text{कोण } A \text{ की सम्मुख भुजा}}{\text{कोण } A \text{ की संलग्न भुजा}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\angle A \text{ का cosecant} = \frac{1}{\angle A \text{ का sine}} = \frac{\text{कर्ण}}{\text{कोण } A \text{ की सम्मुख भुजा}} = \frac{AC}{BC}$$

$$\angle A \text{ का secant} = \frac{1}{\angle A \text{ का cosine}} = \frac{\text{कर्ण}}{\text{कोण } A \text{ की संलग्न भुजा}} = \frac{AC}{AB}$$

$$\angle A \text{ का cotangent} = \frac{1}{\angle A \text{ का tangent}} = \frac{\text{कोण } A \text{ की संलग्न भुजा}}{\text{कोण } A \text{ की सम्मुख भुजा}} = \frac{AB}{BC}$$

ऊपर परिभाषित किए गए अनुपातों को संक्षेप में क्रमशः  $\sin A$ ,  $\cos A$ ,  $\tan A$ ,  $\operatorname{cosec} A$ ,  $\sec A$  और  $\cot A$  लिखा जाता है। ध्यान दीजिए कि अनुपात  $\operatorname{cosec} A$ ,  $\sec A$  और  $\cot A$  अनुपातों  $\sin A$ ,  $\cos A$  और  $\tan A$  के क्रमशः व्युत्क्रम होते हैं।

और आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि  $\tan A = \frac{BC}{AB} = \frac{\frac{BC}{AC}}{\frac{AB}{AC}} = \frac{\sin A}{\cos A}$  और

$$\cot A = \frac{\cos A}{\sin A}$$

अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं।

क्यों न यहाँ आप एक समकोण त्रिभुज के कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित करने का प्रयास करें (देखिए आकृति 8.5) ?

शब्द “sine” का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ई. में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टीयम में मिलता है। आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध-ज्या का प्रयोग अर्ध-जीवा के लिए किया था जिसने समय-अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टीयम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस (Sinus) के रूप में अनूदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी रूपांतर को लैटिन में अनूदित किया



आर्यभट्ट

476 – 550 सा.यु.

गया। इसके तुरंत बाद sine के रूप में प्रयुक्त शब्द sinus भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद् के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर (1581–1626) ने पहले-पहल संक्षिप्त संकेत ‘sin’ का प्रयोग किया था।

शब्दों ‘cosine’ और ‘tangent’ का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। cosine फलन का उद्गम पूरक कोण के sine का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। आर्थभट्ट ने इसे कोटिज्या का नाम दिया था। नाम cosinus का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहले-पहल संक्षिप्त संकेत ‘cos’ का प्रयोग किया था।

**टिप्पणी:** ध्यान दीजिए कि प्रतीक  $\sin A$  का प्रयोग कोण  $A$ ' के  $\sin$  के संक्षिप्त रूप में किया गया है। यहाँ  $\sin A$ ,  $\sin$  और  $A$  का गुणनफल नहीं है।  $A$  से अलग रहकर ‘ $\sin$ ’ का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसी प्रकार  $\cos A$ , ‘ $\cos$ ’ और  $A$  का गुणनफल नहीं है। इस प्रकार की व्याख्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ भी की जाती है।

अब, यदि हम समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर एक बिंदु P लें या बढ़ी हुई भुजा AC पर बिंदु Q लें और AB पर लंब PM डालें और बढ़ी हुई भुजा AB पर लंब QN डालें (देखिए आकृति 8.6), तो  $\triangle PAM$  के  $\angle A$  के त्रिकोणमितीय अनुपातों और  $\triangle QAN$  के  $\angle A$  के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या अंतर होगा?


इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए आइए पहले हम इन त्रिभुजों को देखें। क्या  $\triangle PAM$  और  $\triangle CAB$  समरूप हैं? आपको याद होगा कि अध्याय 6 में आप AA समरूपता कसौटी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस कसौटी को लागू करने पर आप पाएँगे कि त्रिभुज PAM और CAB समरूप हैं। अतः समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म के अनुसार इन त्रिभुजों की संगत भुजाएँ आनुपातिक हैं।

अतः

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AP}{AC} = \frac{MP}{BC}$$

इससे हमें यह प्राप्त होता है

$$\frac{MP}{AP} = \frac{BC}{AC} = \sin A$$



आकृति 8.6

इसी प्रकार  $\frac{AM}{AP} = \frac{AB}{AC} = \cos A, \frac{MP}{AM} = \frac{BC}{AB} = \tan A$  आदि-आदि

इससे यह पता चलता है कि  $\triangle PAM$  के कोण  $A$  के त्रिकोणमितीय अनुपात और  $\triangle CAB$  के कोण  $A$  के त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई अंतर नहीं होता।

इसी प्रकार आप यह जाँच कर सकते हैं कि  $\triangle QAN$  में भी  $\sin A$  का मान (और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान) समान बना रहता है।

अपने प्रेक्षणों से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोण समान बना रहता हो, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता।

**टिप्पणी :** सुविधा के लिए  $(\sin A)^2, (\cos A)^2$ , आदि के स्थान पर हम क्रमशः  $\sin^2 A, \cos^2 A$  आदि लिख सकते हैं। परंतु  $\operatorname{cosec} A = (\sin A)^{-1} \neq \sin^{-1} A$  (इसे साइन इनवर्स  $A$  कहा जाता है)।  $\sin^{-1} A$  का एक अलग अर्थ होता है जिस पर चर्चा हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। इसी प्रकार की परंपराएँ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों पर भी लागू होती हैं। कभी-कभी ग्रीक अक्षर  $\theta$  (थीटा) का प्रयोग कोण को प्रकट करने के लिए किया जाता है।

यहाँ हमने एक न्यून कोण के छः त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए हैं। यदि हमें कोई एक अनुपात ज्ञात हो, तो क्या हम अन्य अनुपात प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम इस पर विचार करें।

यदि एक समकोण त्रिभुज  $ABC$  में


$$\sin A = \frac{1}{3}, \text{ तब इसका अर्थ यह है कि } \frac{BC}{AC} = \frac{1}{3},$$

अर्थात् त्रिभुज  $ABC$  की भुजाओं  $BC$  और  $AC$  की लंबाइयाँ  $1 : 3$  के अनुपात में हैं (देखिए आकृति 8.7)। अतः यदि  $BC, k$  के बराबर हो, तो  $AC, 3k$  के बराबर होगी, जहाँ  $k$  एक धन संख्या है। कोण  $A$  के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें तीसरी भुजा  $AB$  की लंबाई ज्ञात करनी होती है। क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है? आइए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपेक्षित लंबाई  $AB$  ज्ञात करें।

$$AB^2 = AC^2 - BC^2 = (3k)^2 - (k)^2 = 8k^2 = (2\sqrt{2}k)^2$$

अतः  $AB = \pm 2\sqrt{2}k$

अतः हमें प्राप्त होता है  $AB = 2\sqrt{2}k$  ( $AB = -2\sqrt{2}k$  क्यों नहीं है?)



आकृति 8.7

$$\text{अब } \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{2\sqrt{2}k}{3k} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

इसी प्रकार, आप कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर सकते हैं।

**टिप्पणी :** क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है, इसलिए  $\sin A$  या  $\cos A$  का मान सदा ही 1 से कम होता है (या विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है।)

आइए अब कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** यदि  $\tan A = \frac{4}{3}$ , तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।

**हल :** आइए सबसे पहले हम एक समकोण  $\triangle ABC$  खोंचें (देखिए आकृति 8.8)।

$$\text{अब, हम जानते हैं कि } \tan A = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{3}$$

अतः यदि  $BC = 4k$ , तब  $AB = 3k$ , जहाँ  $k$  धन संख्या है।

अब पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर हमें यह प्राप्त होता है

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = (4k)^2 + (3k)^2 = 25k^2$$

इसलिए

$$AC = 5k$$

अब हम इनकी परिभाषाओं की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं।

$$\sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{4k}{5k} = \frac{4}{5}$$


$$\cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{3k}{5k} = \frac{3}{5}$$

$$\text{अतः } \cot A = \frac{1}{\tan A} = \frac{3}{4}, \operatorname{cosec} A = \frac{1}{\sin A} = \frac{5}{4} \text{ और } \sec A = \frac{1}{\cos A} = \frac{5}{3}$$


**उदाहरण 2 :** यदि  $\angle B$  और  $\angle Q$  ऐसे

न्यूनकोण हों जिससे कि  $\sin B = \sin Q$ , तो सिद्ध कीजिए कि  $\angle B = \angle Q$

**हल :** आइए हम दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR लें, जहाँ  $\sin B = \sin Q$  (देखिए आकृति 8.9)।



आकृति 8.8



आकृति 8.9

यहाँ

$$\sin B = \frac{AC}{AB}$$

और

$$\sin Q = \frac{PR}{PQ}$$

तब

$$\frac{AC}{AB} = \frac{PR}{PQ}$$

अतः

$$\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ} = k \quad (\text{मान लीजिए}) \quad (1)$$

अब, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर हमें ये प्राप्त होते हैं

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2}$$

और

$$QR = \sqrt{PQ^2 - PR^2}$$

$$\text{अतः } \frac{BC}{QR} = \frac{\sqrt{AB^2 - AC^2}}{\sqrt{PQ^2 - PR^2}} = \frac{\sqrt{k^2 PQ^2 - k^2 PR^2}}{\sqrt{PQ^2 - PR^2}} = \frac{k \sqrt{PQ^2 - PR^2}}{\sqrt{PQ^2 - PR^2}} = k \quad (2)$$

(1) और (2) से हमें यह प्राप्त होता है

$$\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$$

तब प्रमेय 6.4 का प्रयोग करने पर  $\triangle ACB \sim \triangle PRQ$  प्राप्त होता है। अतः  $\angle B = \angle Q$ 

**उदाहरण 3 :**  $\triangle ACB$  लीजिए जिसका कोण C समकोण है जिसमें  $AB = 29$  इकाई,  $BC = 21$  इकाई और  $\angle ABC = \theta$  (देखिए आकृति 8.10) हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।


$$(i) \cos^2 \theta + \sin^2 \theta$$

$$(ii) \cos^2 \theta - \sin^2 \theta.$$

**हल :**  $\triangle ACB$  में हमें यह प्राप्त होता है

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{(29)^2 - (21)^2}$$

$$= \sqrt{(29 - 21)(29 + 21)} = \sqrt{(8)(50)} = \sqrt{400} = 20 \text{ इकाई}$$



आकृति 8.10

$$\text{अतः } \sin \theta = \frac{AC}{AB} = \frac{20}{29}, \cos \theta = \frac{BC}{AB} = \frac{21}{29}.$$

$$\text{अब, (i) } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = \left(\frac{20}{29}\right)^2 + \left(\frac{21}{29}\right)^2 = \frac{20^2 + 21^2}{29^2} = \frac{400 + 441}{841} = 1,$$

$$\text{और (ii) } \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \left(\frac{21}{29}\right)^2 - \left(\frac{20}{29}\right)^2 = \frac{(21+20)(21-20)}{29^2} = \frac{41}{841}$$

**उदाहरण 4 :** एक समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका कोण B समकोण है, यदि  $\tan A = 1$  तो सत्यापित कीजिए कि

$$2 \sin A \cos A = 1$$

**हल :**  $\Delta ABC$  में  $\tan A = \frac{BC}{AB} = 1$  (देखिए आकृति 8.11)  
अर्थात्  $BC = AB$

मान लीजिए  $AB = BC = k$ , जहाँ  $k$  एक धन संख्या है।

अब

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2} \\ &= \sqrt{(k)^2 + (k)^2} = k\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{अतः } \sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{और} \quad \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{इसलिए } 2 \sin A \cos A = 2 \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 1, \text{ जो कि अपेक्षित मान है।}$$

**उदाहरण 5 :**  $\Delta OPQ$  में, जिसका कोण P समकोण है,  $OP = 7 \text{ cm}$  और  $OQ - PQ = 1 \text{ cm}$  (देखिए आकृति 8.12),  $\sin Q$  और  $\cos Q$  के मान ज्ञात कीजिए।


**हल :**  $\Delta OPQ$  से हमें यह प्राप्त है कि

$$OQ^2 = OP^2 + PQ^2$$


$$\text{अर्थात् } (1 + PQ)^2 = OP^2 + PQ^2 \quad (\text{क्यों?})$$

$$\text{अर्थात् } 1 + PQ^2 + 2PQ = OP^2 + PQ^2$$

$$\text{अर्थात् } 1 + 2PQ = 7^2 \quad (\text{क्यों?})$$



आकृति 8.11



आकृति 8.12

अर्थात्

$$PQ = 24 \text{ cm} \text{ और } OQ = 1 + PQ = 25 \text{ cm}$$

अतः

$$\sin Q = \frac{7}{25} \text{ और } \cos Q = \frac{24}{25}$$

### प्रश्नावली 8.1

1.  $\triangle ABC$  में, जिसका कोण  $B$  समकोण है,  $AB = 24 \text{ cm}$  और  $BC = 7 \text{ cm}$  है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए :

(i)  $\sin A, \cos A$

(ii)  $\sin C, \cos C$

2. आकृति 8.13 में,  $\tan P - \cot R$  का मान ज्ञात कीजिए।

3. यदि  $\sin A = \frac{3}{4}$ , तो  $\cos A$  और  $\tan A$  का मान परिकलित कीजिए।

4. यदि  $15 \cot A = 8$  हो तो  $\sin A$  और  $\sec A$  का मान ज्ञात कीजिए।

5. यदि  $\sec \theta = \frac{13}{12}$ , हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए।

6. यदि  $\angle A$  और  $\angle B$  न्यून कोण हो, जहाँ  $\cos A = \cos B$ , तो दिखाइए कि  $\angle A = \angle B$

7. यदि  $\cot \theta = \frac{7}{8}$ , तो (i)  $\frac{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)}{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}$ , (ii)  $\cot^2 \theta$  का मान निकालिए?

8. यदि  $3 \cot A = 4$ , तो जाँच कीजिए कि  $\frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} = \cos^2 A - \sin^2 A$  है या नहीं।

9. त्रिभुज  $ABC$  में, जिसका कोण  $B$  समकोण है, यदि  $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ , तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:

(i)  $\sin A \cos C + \cos A \sin C$

(ii)  $\cos A \cos C - \sin A \sin C$

10.  $\triangle PQR$  में, जिसका कोण  $Q$  समकोण है,  $PR + QR = 25 \text{ cm}$  और  $PQ = 5 \text{ cm}$  है।  $\sin P, \cos P$  और  $\tan P$  के मान ज्ञात कीजिए।

11. बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।


(i)  $\tan A$  का मान सदैव 1 से कम होता है।

(ii) कोण  $A$  के किसी मान के लिए  $\sec A = \frac{12}{5}$

(iii)  $\cos A$ , कोण  $A$  के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।

(iv)  $\cot A, \cot A$  और  $A$  का गुणनफल होता है।

(v) किसी भी कोण  $\theta$  के लिए  $\sin \theta = \frac{4}{3}$



### 8.3 कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात


ज्यामिति के अध्ययन से आप  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  और  $90^\circ$  के कोणों की रचना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इस अनुच्छेद में हम इन कोणों और साथ ही  $0^\circ$  वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे।

#### $45^\circ$ के त्रिकोणमितीय अनुपात

$\triangle ABC$  में, जिसका कोण  $B$  समकोण है, यदि एक कोण  $45^\circ$  का हो, तो अन्य कोण भी  $45^\circ$  का होगा अर्थात्  $\angle A = \angle C = 45^\circ$  (देखिए आकृति 8.14)।

अतः  $BC = AB$  (क्यों?)

अब मान लीजिए  $BC = AB = a$



आकृति 8.14

तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार  $AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$

इसलिए  $AC = a\sqrt{2}$ .

त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषाओं को लागू करने पर हमें यह प्राप्त होता है :

$$\sin 45^\circ = \frac{45^\circ \text{ के कोण की समुख भुजा}}{\text{कर्ण}} = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{45^\circ \text{ के कोण की संलग्न भुजा}}{\text{कर्ण}} = \frac{AB}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\tan 45^\circ = \frac{45^\circ \text{ के कोण की समुख भुजा}}{45^\circ \text{ के कोण की संलग्न भुजा}} = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{a} = 1$$

और  $\operatorname{cosec} 45^\circ = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$ ,  $\sec 45^\circ = \frac{1}{\cos 45^\circ} = \sqrt{2}$ ,  $\cot 45^\circ = \frac{1}{\tan 45^\circ} = 1$

#### $30^\circ$ और $60^\circ$ के त्रिकोणमितीय अनुपात

आइए, अब हम  $30^\circ$  और  $60^\circ$  के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। एक समबाहु त्रिभुज  $ABC$  पर विचार करें। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण  $60^\circ$  का होता है, इसलिए  $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$

$A$  से भुजा  $BC$  पर लंब  $AD$  डालिए (देखिए आकृति 8.15)।



आकृति 8.15

अब

$$\Delta ABD \cong \Delta ACD \quad (\text{क्यों?})$$

इसलिए

$$BD = DC$$

और

$$\angle BAD = \angle CAD \quad (\text{CPCT})$$

अब आप यह देख सकते हैं कि:

$\Delta ABD$  एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण D समकोण है, और जहाँ  $\angle BAD = 30^\circ$  और  $\angle ABD = 60^\circ$  (देखिए आकृति 8.15)।

जैसा कि आप जानते हैं, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। आइए, हम यह मान लें कि  $AB = 2a$

$$\text{तब} \quad BD = \frac{1}{2}BC = a$$

$$\text{और} \quad AD^2 = AB^2 - BD^2 = (2a)^2 - (a)^2 = 3a^2$$

$$\text{इसलिए} \quad AD = a\sqrt{3}$$

$$\text{अब} \quad \sin 30^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}, \cos 30^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{और} \quad \cosec 30^\circ = \frac{1}{\sin 30^\circ} = 2, \sec 30^\circ = \frac{1}{\cos 30^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\cot 30^\circ = \frac{1}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}$$


इसी प्रकार

$$\sin 60^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{a\sqrt{3}}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$


$$\cosec 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}, \sec 60^\circ = 2 \text{ और } \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

### $0^\circ$ और $90^\circ$ के त्रिकोणमितीय अनुपात

आइए, हम देखें कि यदि समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाता है, तब इस स्थिति में कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ता है (देखिए आकृति 8.16)। जैसे-जैसे  $\angle A$  छोटा होता जाता है, वैसे-वैसे भुजा BC की लंबाई कम होती जाती है। बिंदु C, बिंदु B के निकट आता जाता है और अंत में, जब  $\angle A, 0^\circ$  के काफी निकट हो जाता है तब AC लगभग वही हो जाता है जो कि AB है (देखिए आकृति 8.17)।



आकृति 8.16



आकृति 8.17

जब  $\angle A, 0^\circ$  के अत्यधिक निकट होता है तब BC, 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। तब  $\sin A = \frac{BC}{AC}$  का मान 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। और, जब  $\angle A, 0^\circ$  के अत्यधिक निकट होता है, तब AC लगभग वही होता है जो कि AB होता है और  $\cos A = \frac{AB}{AC}$  का मान 1 के अत्यधिक समीप होता है।

इसकी सहायता से हम उस स्थिति में  $\sin A$  और  $\cos A$  के मान परिभाषित कर सकते हैं जबकि  $A = 0^\circ$ , हम  $\sin 0^\circ = 0$  और  $\cos 0^\circ = 1$  परिभाषित करते हैं।


इनका प्रयोग करने पर हमें ये प्राप्त होते हैं:

$$\tan 0^\circ = \frac{\sin 0^\circ}{\cos 0^\circ} = 0, \cot 0^\circ = \frac{1}{\tan 0^\circ}, \text{ जो कि परिभाषित नहीं है (क्यों?)}$$

$$\sec 0^\circ = \frac{1}{\cos 0^\circ} = 1 \text{ तथा } \operatorname{cosec} 0^\circ = \frac{1}{\sin 0^\circ}, \text{ और यह भी परिभाषित नहीं है। (क्यों?)}$$

आइए अब हम उस स्थिति में देखें कि  $\angle A$  के त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ क्या होता है जबकि  $\triangle ABC$  के इस कोण को तब तक बढ़ा किया जाता है, जब तक कि  $90^\circ$  का नहीं हो जाता।  $\angle A$  जैसे-जैसे बढ़ा होता जाता है,  $\angle C$  वैसे-वैसे छोटा होता जाता है। अतः ऊपर वाली स्थिति की भाँति भुजा AB की लंबाई कम होती जाती है। बिंदु A, बिंदु B के निकट होता जाता है और, अंत में जब  $\angle A, 90^\circ$  के अत्यधिक निकट आ जाता है, तो  $\angle C, 0^\circ$  के

अत्यधिक निकट आ जाता है और भुजा AC भुजा BC के साथ लगभग संपाती हो जाती है (देखिए आकृति 8.18)।



आकृति 8.18

जब  $\angle C, 0^\circ$  के अत्यधिक निकट होता है तो  $\angle A, 90^\circ$  के अत्यधिक निकट हो जाता है और भुजा AC लगभग वही हो जाती है, जो भुजा BC है। अतः  $\sin A, 1$  के अत्यधिक निकट हो जाता है और, जब  $\angle A, 90^\circ$  के अत्यधिक निकट होता है, तब  $\angle C, 0^\circ$  के अत्यधिक निकट हो जाता है और भुजा AB लगभग शून्य हो जाती है। अतः  $\cos A, 0$  के अत्यधिक निकट हो जाता है।

अतः हम यह परिभाषित करते हैं :  $\sin 90^\circ = 1$  और  $\cos 90^\circ = 0$

अब आप क्यों नहीं  $90^\circ$  के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं?

अब हम तुरंत संदर्भ के लिए एक सारणी 8.1 के रूप में  $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$  और  $90^\circ$  के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्रस्तुत करेंगे।

सारणी 8.1


$\angle A$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$
$\sin A$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos A$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan A$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	अपरिभाषित
$\text{cosec } A$	अपरिभाषित	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
$\sec A$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	अपरिभाषित
$\cot A$	अपरिभाषित	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

**टिप्पणी :** उपर्युक्त सारणी से आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे  $\angle A$  का मान  $0^\circ$  से  $90^\circ$  तक बढ़ता जाता है,  $\sin A$  का मान  $0$  से बढ़कर  $1$  हो जाता है और  $\cos A$  का मान  $1$  से घटकर  $0$  हो जाता है।

आइए, अब हम कुछ उदाहरण लेकर ऊपर की सारणी में दिए गए मानों के प्रयोग को प्रदर्शित करें।

**उदाहरण 6 :**  $\triangle ABC$  में जिसका कोण  $B$  समकोण है,  $AB = 5 \text{ cm}$  और  $\angle ACB = 30^\circ$  (देखिए आकृति 8.19)। भुजाओं  $BC$  और  $AC$  की लंबाईयाँ ज्ञात करें।

**हल :** भुजा  $BC$  की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें  $BC$  और दी हुई भुजा  $AB$  हो। क्योंकि  $BC$  कोण  $C$  की संलग्न भुजा है, और  $AB$  कोण  $C$  की सम्मुख भुजा है, इसलिए



आकृति 8.19

$$\frac{AB}{BC} = \tan C$$

अर्थात्  $\frac{5}{BC} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

जिससे  $BC = 5\sqrt{3} \text{ cm}$  प्राप्त होता है।

भुजा  $AC$  की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम

$$\sin 30^\circ = \frac{AB}{AC} \text{ लेते हैं } \quad (\text{क्यों?})$$

अर्थात्  $\frac{1}{2} = \frac{5}{AC}$

अर्थात्  $AC = 10 \text{ cm}$

ध्यान दीजिए कि ऊपर के उदाहरण में तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए विकल्प के रूप में हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर सकते थे,

अर्थात्  $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{5^2 + (5\sqrt{3})^2} \text{ cm} = 10 \text{ cm}$

**उदाहरण 7 :**  $\triangle PQR$  में, जिसका कोण Q समकोण है (देखिए आकृति 8.20),  $PQ = 3 \text{ cm}$  और  $PR = 6 \text{ cm}$  है।  $\angle QPR$  और  $\angle PRQ$  ज्ञात कीजिए।

**हल :** दिया हुआ है  $PQ = 3 \text{ cm}$  और  $PR = 6 \text{ cm}$

इसलिए

$$\frac{PQ}{PR} = \sin R$$

या

$$\sin R = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

अतः

$$\angle PRQ = 30^\circ$$

और, इसलिए

$$\angle QPR = 60^\circ \quad (\text{क्यों?})$$


आप यहाँ यह देख सकते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कोई एक अन्य भाग (जो या तो न्यून कोण हो या कोई एक भुजा हो) ज्ञात हो, तो त्रिभुज की शेष भुजाएँ और कोण ज्ञात किए जा सकते हैं।

**उदाहरण 8 :** यदि  $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$ ,  $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$ ,  $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$ ,  $A > B$ , तो A और B ज्ञात कीजिए।

**हल :** क्योंकि  $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$ , इसलिए,  $A - B = 30^\circ$  (क्यों?) (1)

और, क्योंकि  $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$ , इसलिए,  $A + B = 60^\circ$  (क्यों?) (2)

(1) और (2) को हल करने पर हमें  $A = 45^\circ$  और  $B = 15^\circ$  प्राप्त होता है।



**आकृति 8.20**

## प्रश्नावली 8.2

1. निम्नलिखित के मान निकालिए :

$$(i) \sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ \quad (ii) 2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$$

$$(iii) \frac{\cos 45^\circ}{\sec 30^\circ + \operatorname{cosec} 30^\circ} \quad (iv) \frac{\sin 30^\circ + \tan 45^\circ - \operatorname{cosec} 60^\circ}{\sec 30^\circ + \cos 60^\circ + \cot 45^\circ}$$

$$(v) \frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$$

2. सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए:

$$(i) \frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} =$$

- (A)  $\sin 60^\circ$       (B)  $\cos 60^\circ$       (C)  $\tan 60^\circ$

(D)  $\sin 30^\circ$

$$(ii) \frac{1 - \tan^2 45^\circ}{1 + \tan^2 45^\circ} =$$

- (A)  $\tan 90^\circ$       (B) 1      (C)  $\sin 45^\circ$

(D) 0

(iii)  $\sin 2A = 2 \sin A$  तब सत्य होता है, जबकि A बराबर है:

- (A)  $0^\circ$       (B)  $30^\circ$       (C)  $45^\circ$

(D)  $60^\circ$

$$(iv) \frac{2 \tan 30^\circ}{1 - \tan^2 30^\circ} \text{ बराबर है:}$$

- (A)  $\cos 60^\circ$       (B)  $\sin 60^\circ$       (C)  $\tan 60^\circ$

(D)  $\sin 30^\circ$

3. यदि  $\tan(A+B) = \sqrt{3}$  और  $\tan(A-B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ;  $0^\circ < A+B \leq 90^\circ$ ;  $A > B$  तो A और B का मान ज्ञात कीजिए।

4. बताइए कि निम्नलिखित में कौन-कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

$$(i) \sin(A+B) = \sin A + \sin B.$$

(ii)  $\theta$  में वृद्धि होने के साथ  $\sin \theta$  के मान में भी वृद्धि होती है।

(iii)  $\theta$  में वृद्धि होने के साथ  $\cos \theta$  के मान में भी वृद्धि होती है।


(iv)  $\theta$  के सभी मानों पर  $\sin \theta = \cos \theta$

(v)  $A = 0^\circ$  पर  $\cot A$  परिभाषित नहीं है।

#### 8.4 त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ

आपको याद होगा कि एक समीकरण को एक सर्वसमिका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमिका को त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहा जाता है। जबकि यह संबंधित कोण (कोणों) के सभी मानों के लिए सत्य होता है।

इस भाग में, हम एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका सिद्ध करेंगे और इसका प्रयोग अन्य उपयोगी त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं को सिद्ध करने में करेंगे।



आकृति 8.21

$\triangle ABC$  में, जो  $B$  पर समकोण है (देखिए आकृति 8.21)

$$\text{हमें यह प्राप्त है } AB^2 + BC^2 = AC^2 \quad (1)$$

(1) के प्रत्येक पद को  $AC^2$  से भाग देने पर हमें यह प्राप्त होता है

$$\frac{AB^2}{AC^2} + \frac{BC^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{AC^2}$$

$$\text{या } \left(\frac{AB}{AC}\right)^2 + \left(\frac{BC}{AC}\right)^2 = \left(\frac{AC}{AC}\right)^2$$

$$\text{अर्थात् } (\cos A)^2 + (\sin A)^2 = 1$$

$$\text{अर्थात् } \cos^2 A + \sin^2 A = 1 \quad (2)$$

यह सभी  $A$  के लिए, जहाँ  $0^\circ \leq A \leq 90^\circ$ , सत्य होता है। अतः यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है।

आइए, अब हम (1) को  $AB^2$  से भाग दें। ऐसा करने पर हमें यह प्राप्त होता है

$$\frac{AB^2}{AB^2} + \frac{BC^2}{AB^2} = \frac{AC^2}{AB^2}$$

$$\text{या } \left(\frac{AB}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BC}{AB}\right)^2 = \left(\frac{AC}{AB}\right)^2$$

$$\text{अर्थात् } 1 + \tan^2 A = \sec^2 A \quad (3)$$

क्या यह समीकरण,  $A = 0^\circ$  के लिए सत्य है? हाँ, यह सत्य है। क्या यह  $A = 90^\circ$  के लिए भी सत्य है?  $A = 90^\circ$  के लिए  $\tan A$  और  $\sec A$  परिभाषित नहीं है। अतः (3), ऐसे सभी  $A$  के लिए सत्य होता है, जहाँ  $0^\circ \leq A < 90^\circ$

आइए हम यह देखें कि (1) को  $BC^2$  से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है।

$$\frac{AB^2}{BC^2} + \frac{BC^2}{BC^2} = \frac{AC^2}{BC^2}$$

$$\text{अर्थात् } \left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + \left(\frac{BC}{BC}\right)^2 = \left(\frac{AC}{BC}\right)^2$$

$$\text{अर्थात् } \cot^2 A + 1 = \operatorname{cosec}^2 A \quad (4)$$

ध्यान दीजिए कि  $A = 0^\circ$  के लिए  $\operatorname{cosec} A$  और  $\cot A$  परिभाषित नहीं है। अतः ऐसे सभी  $A$  के लिए (4) सत्य होता है जहाँ  $0^\circ < A \leq 90^\circ$

इन सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात् यदि कोई एक अनुपात ज्ञात हो, तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं।

आइए हम यह देखें कि इन सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमें  $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$  ज्ञात है। तब  $\cot A = \sqrt{3}$

$$\text{क्योंकि } \sec^2 A = 1 + \tan^2 A = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, \quad \sec A = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \text{और } \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{और, क्योंकि } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{3}{4}} = \frac{1}{2}. \quad \text{इसलिए } \operatorname{cosec} A = 2$$

**उदाहरण 9 :** अनुपातों  $\cos A$ ,  $\tan A$  और  $\sec A$  को  $\sin A$  के पदों में व्यक्त कीजिए।

**हल :** क्योंकि

$$\cos^2 A + \sin^2 A = 1, \quad \text{इसलिए}$$

$$\cos^2 A = 1 - \sin^2 A, \quad \text{अर्थात् } \cos A = \pm \sqrt{1 - \sin^2 A}$$

इससे यह प्राप्त होता है

$$\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} \quad (\text{क्यों?})$$

$$\text{अतः} \quad \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sin A}{\sqrt{1 - \sin^2 A}} \quad \text{और} \quad \sec A = \frac{1}{\cos A} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 A}}$$

**उदाहरण 10 :** सिद्ध कीजिए कि  $\sec A (1 - \sin A) (\sec A + \tan A) = 1$

**हल :**

$$\begin{aligned} \text{वाम पक्ष} &= \sec A (1 - \sin A) (\sec A + \tan A) = \left( \frac{1}{\cos A} \right) (1 - \sin A) \left( \frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A} \right) \\ &= \frac{(1 - \sin A)(1 + \sin A)}{\cos^2 A} = \frac{1 - \sin^2 A}{\cos^2 A} \\ &= \frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} = 1 = \text{दाय়া पক্ষ} \end{aligned}$$

**उदाहरण 11 :** सिद्ध कीजिए कि  $\frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\operatorname{cosec} A - 1}{\operatorname{cosec} A + 1}$

**हल :** वाम पक्ष  $= \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\frac{\cos A}{\sin A} - \cos A}{\frac{\cos A}{\sin A} + \cos A}$

$$\frac{\cos A \left( \frac{1}{\sin A} - 1 \right)}{\cos A \left( \frac{1}{\sin A} + 1 \right)} = \frac{\left( \frac{1}{\sin A} - 1 \right)}{\left( \frac{1}{\sin A} + 1 \right)} = \frac{\operatorname{cosec} A - 1}{\operatorname{cosec} A + 1} = \text{दाँया पक्ष}$$

**उदाहरण 12 :** सर्वसमिका  $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$  का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta}$$

**हल :** क्योंकि हमें  $\sec \theta$  और  $\tan \theta$  से संबंधित सर्वसमिका प्रयुक्त करनी है, इसलिए आइए हम सबसे पहले सर्वसमिका के वाम पक्ष के अंश और हर को  $\cos \theta$  से भाग देकर वाम पक्ष को  $\sec \theta$  और  $\tan \theta$  के पदों में रूपांतरित करें।

$$\begin{aligned} \text{वाम पक्ष} &= \frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = \frac{\tan \theta - 1 + \sec \theta}{\tan \theta + 1 - \sec \theta} \\ &= \frac{(\tan \theta + \sec \theta) - 1}{(\tan \theta - \sec \theta) + 1} = \frac{\{(\tan \theta + \sec \theta) - 1\} (\tan \theta - \sec \theta)}{\{(\tan \theta - \sec \theta) + 1\} (\tan \theta - \sec \theta)} \\ &= \frac{(\tan^2 \theta - \sec^2 \theta) - (\tan \theta - \sec \theta)}{\{(\tan \theta - \sec \theta) + 1\} (\tan \theta - \sec \theta)} \\ &= \frac{-1 - \tan \theta + \sec \theta}{(\tan \theta - \sec \theta + 1) (\tan \theta - \sec \theta)} \\ &= \frac{-1}{\tan \theta - \sec \theta} = \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta}, \end{aligned}$$

जो सिद्ध की जाने वाली अपेक्षित सर्वसमिका का दाँया पक्ष है।

### प्रश्नावली 8.3

1. त्रिकोणमितीय अनुपातों  $\sin A$ ,  $\sec A$  और  $\tan A$  को  $\cot A$  के पदों में व्यक्त कीजिए।
2.  $\angle A$  के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को  $\sec A$  के पदों में लिखिए।
3. सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए :
  - (i)  $9 \sec^2 A - 9 \tan^2 A$  बराबर है:
 

(A) 1	(B) 9	(C) 8	(D) 0
-------	-------	-------	-------
  - (ii)  $(1 + \tan \theta + \sec \theta)(1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta)$  बराबर है:
 

(A) 0	(B) 1	(C) 2	(D) -1
-------	-------	-------	--------
  - (iii)  $(\sec A + \tan A)(1 - \sin A)$  बराबर है:
 

(A) $\sec A$	(B) $\sin A$	(C) $\operatorname{cosec} A$	(D) $\cos A$
--------------	--------------	------------------------------	--------------
  - (iv)  $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A}$  बराबर है:
 

(A) $\sec^2 A$	(B) -1	(C) $\cot^2 A$	(D) $\tan^2 A$
----------------	--------	----------------	----------------
4. निम्नलिखित सर्वसमिकाएँ सिद्ध कीजिए, जहाँ वे कोण, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण है :

$$(i) (\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$(ii) \frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$$

$$(iii) \frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} = 1 + \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$$

[संकेत: व्यंजक को  $\sin \theta$  और  $\cos \theta$  के पदों में लिखिए]

$$(iv) \frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$$

[संकेत: वाम पक्ष और दाँया पक्ष को अलग-अलग सरल कीजिए।]

(v) सर्वसमिका  $\operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A$  को लागू करके

$$\frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1} = \operatorname{cosec} A + \cot A$$

$$(vi) \sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}} = \sec A + \tan A$$

$$(vii) \frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta} = \tan \theta$$

$$(viii) (\sin A + \operatorname{cosec} A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$$

$$(ix) (\operatorname{cosec} A - \sin A)(\sec A - \cos A) = \frac{1}{\tan A + \cot A}$$

[संकेत : वाम पक्ष और दाँया पक्ष को अलग-अलग सरल कीजिए]

$$(x) \left( \frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} \right) = \left( \frac{1 - \tan A}{1 - \cot A} \right)^2 = \tan^2 A$$

## 8.5 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है:

1. समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका कोण B समकोण है,

$$\sin A = \frac{\text{कोण } A \text{ की सम्मुख भुजा}}{\text{कर्ण}}, \cos A = \frac{\text{कोण } A \text{ की संलग्न भुजा}}{\text{कर्ण}}$$

$$\tan A = \frac{\text{कोण } A \text{ की सम्मुख भुजा}}{\text{कोण } A \text{ की संलग्न भुजा}}$$

$$2. \operatorname{cosec} A = \frac{1}{\sin A}; \sec A = \frac{1}{\cos A}; \tan A = \frac{1}{\cot A}, \cot A = \frac{\sin A}{\cos A}$$

3. यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो, तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं।

4.  $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$  और  $90^\circ$  के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान।
5.  $\sin A$  या  $\cos A$  का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, जबकि  $\sec A$  या  $\operatorname{cosec} A$  का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है।
6.  $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

$$\sec^2 A - \tan^2 A = 1 \quad \text{जहाँ } 0^\circ \leq A < 90^\circ$$

$$\operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A \quad \text{जहाँ } 0^\circ < A \leq 90^\circ$$




1063CH09

## त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग

9

### 9.1 ऊँचाइयाँ और दूरियाँ


आइए हम अध्याय 8 में दी गई आकृति 8.1 पर विचार करें, जिसे नीचे आकृति 9.1 में पुनः खींचा गया है।



**आकृति 9.1**

इस आकृति में, छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC को दृष्टि-रेखा (line of sight) कहा जाता है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि-रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC को छात्र की आँख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण (angle of elevation) कहा जाता है।


इस प्रकार, दृष्टि-रेखा प्रेक्षक की आँख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में, दृष्टि-रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है अर्थात् वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना होता है। (देखिए आकृति 9.2)।



आकृति 9.2

आइए अब हम आकृति 8.2 में दी गई स्थिति पर विचार करें। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। इस स्थिति में, दृष्टि-रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है। दृष्टि-रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को **अवनमन कोण** (angle of depression) कहा जाता है।

अतः देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि-रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है अर्थात् वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है (देखिए आकृति 9.3)।



आकृति 9.3

अब आप आकृति 8.3 में बनी दृष्टि-रेखाएँ और इस तरह बने कोणों को पहचान सकते हैं। ये कोण उन्नयन कोण हैं या अवनमन कोण?

आइए हम आकृति 9.1 को पुनः देखें। यदि आप सही मायने में बिना मापे ही मीनार की ऊँचाई CD ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस जानकारी की आवश्यकता होती है? इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है:

- (i) दूरी DE जहाँ छात्र मीनार के पाद-बिंदु से इस दूरी पर खड़ा है।
- (ii) मीनार के शिखर का उन्नयन कोण  $\angle BAC$
- (iii) छात्र की ऊँचाई AE

यह मानकर कि ऊपर बतायी गयीं तीनों जानकारियाँ हमें ज्ञात हैं तो हम किस प्रकार मीनार की ऊँचाई ज्ञात कर सकते हैं?

आकृति में  $CD = CB + BD$  यहाँ  $BD = AE$  है जो कि छात्र की ऊँचाई है।

$BC$  ज्ञात करने के लिए हम  $\angle BAC$  या  $\angle A$  के त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करेंगे।

$\triangle ABC$  में, भुजा  $BC$  ज्ञात कोण  $\angle A$  के संबंध में सम्मुख भुजा है। यहाँ हम किन-किन त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग कर सकते हैं? इनमें से किसके दो मान हमें ज्ञात है और हमें किसका मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है?  $\tan A$  या  $\cot A$  का प्रयोग करने से हमारी खोज का क्षेत्र कम हो जाता है, क्योंकि इन अनुपातों में  $AB$  और  $BC$  का प्रयोग होता है।


अतः  $\tan A = \frac{BC}{AB}$  या  $\cot A = \frac{AB}{BC}$ , जिसे हल करने पर हमें  $BC$  प्राप्त हो जाएगा।

$BC$  और  $AE$  जोड़ने पर मीनार की ऊँचाई प्राप्त हो जाएगी।

आइए अब हम कुछ उदाहरण हल करके अभी-अभी चर्चित किए गए प्रक्रम की व्याख्या करें।

**उदाहरण 1 :** धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद-बिंदु से 15 m दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :** आइए पहले हम प्रश्न को निरूपित करने के लिए एक सरल आरेख बनाएँ (देखिए आकृति 9.4)। यहाँ  $AB$  मीनार को निरूपित करता है,  $CB$  मीनार से बिंदु की दूरी है और  $\angle ACB$  उन्नयन कोण है। हम मीनार की ऊँचाई अर्थात्  $AB$  ज्ञात करना चाहते हैं और, यहाँ  $ACB$  एक त्रिभुज है जो  $B$  पर समकोण है।



आकृति 9.4

प्रश्न को हल करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात  $\tan 60^\circ$  (या  $\cot 60^\circ$ ) लेते हैं, क्योंकि इस अनुपात में AB और BC दोनों होते हैं।


$$\text{अब} \quad \tan 60^\circ = \frac{AB}{BC}$$

$$\text{अर्थात्} \quad \sqrt{3} = \frac{AB}{15}$$

$$\text{अर्थात्} \quad AB = 15\sqrt{3}$$

अतः मीनार की ऊँचाई  $15\sqrt{3}$  m है।

**उदाहरण 2 :** एक बिजली मिस्त्री को एक 5m ऊँचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3m नीचे एक बिंदु तक वह पहुँचना चाहती है (देखिए आकृति 9.5)। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से  $60^\circ$  के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए? और यह भी बताइए कि खंभे का पाद-बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद-बिंदु से होना चाहिए? (यहाँ आप  $\sqrt{3} = 1.73$  ले सकते हैं।)



**हल :** आकृति 9.5 में, बिजली मिस्त्री को खंभे AD पर बिंदु B तक पहुँचना है।

$$\text{अतः} \quad BD = AD - AB = (5 - 1.3)m = 3.7 \text{ m}$$

यहाँ BC सीढ़ी को प्रकट करता है। हमें इसकी लंबाई अर्थात् समकोण त्रिभुज BDC का कर्ण ज्ञात करना है।

अब, क्या आप यह बता सकते हैं कि हमें किस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करना चाहिए?

यह त्रिकोणमिति अनुपात  $\sin 60^\circ$  होना चाहिए।

$$\text{अतः} \quad \frac{BD}{BC} = \sin 60^\circ \quad \text{या} \quad \frac{3.7}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

इसलिए  $BC = \frac{3.7 \times 2}{\sqrt{3}} = 4.28 \text{ m}$  (लगभग)

अर्थात् सीढ़ी की लंबाई 4.28 m होनी चाहिए।

अब  $\frac{DC}{BD} = \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

अर्थात्  $DC = \frac{3.7}{\sqrt{3}} = 2.14 \text{ m}$  (लगभग)


अतः उसे सीढ़ी के पाद को खंभे से 2.14 m की दूरी पर रखना चाहिए।

**उदाहरण 3 :** 1.5 m लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 m की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण  $45^\circ$  है। चिमनी की ऊँचाई बताइए।

**हल :** यहाँ AB चिमनी है, CD प्रेक्षक है और  $\angle ADE$  उन्नयन कोण है (देखिए आकृति 9.6)। यहाँ ADE एक त्रिभुज है जिसमें कोण E समकोण है और हमें चिमनी की ऊँचाई ज्ञात करनी है।

यहाँ  $AB = AE + BE = (AE + 1.5) \text{ m}$

और  $DE = CB = 28.5 \text{ m}$



आकृति 9.6

AE ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात लेना चाहिए जिसमें AE और DE दोनों हो। इसके लिए आइए हम उन्नयन कोण का tangent लें।

अब  $\tan 45^\circ = \frac{AE}{DE}$


अर्थात्  $1 = \frac{AE}{28.5}$

इसलिए  $AE = 28.5$

अतः चिमनी की ऊँचाई (AB) =  $(28.5 + 1.5) \text{ m} = 30 \text{ m}$

**उदाहरण 4 :** भूमि के एक बिंदु P से एक 10 m ऊँचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण  $30^\circ$  है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण  $45^\circ$  है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। (यहाँ आप  $\sqrt{3} = 1.732$  ले सकते हैं।)

**हल :** आकृति 9.7 में, AB भवन की ऊँचाई प्रकट करता है, BD ध्वजदंड प्रकट करता है और P दिया हुआ बिंदु प्रकट करता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज PAB और PAD हैं। हमें ध्वजदंड की लंबाई अर्थात् DB और बिंदु P से भवन की दूरी अर्थात् PA ज्ञात करना है।



आकृति 9.7

क्योंकि हमें भवन की ऊँचाई AB ज्ञात है इसलिए पहले हम समकोण  $\triangle PAB$  लेंगे।

$$\text{यहाँ} \quad \tan 30^\circ = \frac{AB}{AP}$$

$$\text{अर्थात्} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{10}{AP}$$

$$\text{इसलिए} \quad AP = 10\sqrt{3}$$

$$\text{अर्थात् } P \text{ से भवन की दूरी } 10\sqrt{3} \text{ m} = 17.32 \text{ m}$$

आइए अब हम यह मान लें कि  $DB = x$  m है तब  $AD = (10 + x)$  m

$$\text{अब समकोण } \triangle PAD \text{ में} \quad \tan 45^\circ = \frac{AD}{AP} = \frac{10 + x}{10\sqrt{3}}$$

$$\text{इसलिए} \quad 1 = \frac{10 + x}{10\sqrt{3}}$$

$$\text{अर्थात्} \quad x = 10 (\sqrt{3} - 1) = 7.32$$

अतः ध्वजदंड की लंबाई 7.32 m है।


**उदाहरण 5 :** एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 m अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश (altitude)  $60^\circ$  से घटकर  $30^\circ$  हो जाता है अर्थात् छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है और DB छाया की लंबाई है

जबकि उन्नयन कोण  $30^\circ$  है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :** मान लीजिए कि AB की लंबाई h मीटर है और BC, x मीटर है। प्रश्न के अनुसार DB, BC से 40m अधिक लंबा है।

$$\text{अतः } DB = (40 + x) \text{ m}$$

अब, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ABD हैं।



आकृति 9.8

$$\Delta ABC \text{ में} \quad \tan 60^\circ = \frac{AB}{BC}$$

$$\text{या} \quad \sqrt{3} = \frac{h}{x} \quad (1)$$

$$\Delta ABD \text{ में} \quad \tan 30^\circ = \frac{AB}{BD}$$

$$\text{अर्थात्} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x+40} \quad (2)$$

(1) से हमें यह प्राप्त होता है

$$h = x\sqrt{3}$$

इस मान को (2) में प्रतिस्थापित करने पर हमें यह प्राप्त होता है  $(x\sqrt{3})\sqrt{3} = x + 40$ , अर्थात्  $3x = x + 40$

$$\text{अर्थात्} \quad x = 20$$

$$\text{इसलिए} \quad h = 20\sqrt{3} \quad [(1) \text{ से}]$$

अतः मीनार की ऊँचाई  $20\sqrt{3}$  m है।

**उदाहरण 6 :** एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 m ऊँचे भवन के शिखर और तल के अवनमन-कोण क्रमशः  $30^\circ$  और  $45^\circ$  हैं। बहुमंजिल भवन की ऊँचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

**हल :** आकृति 9.9 में PC बहुमंजिल भवन को और AB, 8 m ऊँचे भवन को प्रकट करता है। हम बहुमंजिल भवन की ऊँचाई, अर्थात् PC और दो भवनों के बीच की दूरी अर्थात् AC ज्ञात करना चाहते हैं।

आकृति को अच्छी तरह देखिए। आप यहाँ देखेंगे कि PB समांतर रेखाओं PQ और BD की एक तिर्यक-छेदी रेखा है। अतः  $\angle QPB$  और  $\angle PBD$  एकांतर कोण हैं और इसलिए बराबर हैं।

अतः  $\angle PBD = 30^\circ$ , इसी प्रकार,  $\angle PAC = 45^\circ$

समकोण  $\triangle PBD$  में

$$\frac{PD}{BD} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ या } BD = PD\sqrt{3}$$

समकोण  $\triangle PAC$  में हम पाते हैं

$$\frac{PC}{AC} = \tan 45^\circ = 1$$

अर्थात्

$$PC = AC$$

और

$$PC = PD + DC$$

इसलिए  $PD + DC = AC$


क्योंकि  $AC = BD$  और  $DC = AB = 8 \text{ m}$ , इसलिए  $PD + 8 = BD = PD\sqrt{3}$  (क्यों?)

$$\text{इससे यह प्राप्त होता है: } PD = \frac{8}{\sqrt{3} - 1} = \frac{8(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = 4(\sqrt{3} + 1) \text{ m}$$


अतः बहुमंजिल भवन की ऊँचाई  $\{4(\sqrt{3} + 1) + 8\} \text{ m} = 4(3 + \sqrt{3}) \text{ m}$  है और दो भवनों के बीच की दूरी भी  $4(3 + \sqrt{3}) \text{ m}$  है।

**उदाहरण 7 :** एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः  $30^\circ$  और  $45^\circ$  हैं। यदि पुल किनारों से  $3 \text{ m}$  की ऊँचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

**हल :** आकृति 9.10 में, A और B नदी के समुख किनारों के बिंदुओं को प्रकट करते हैं, जिससे कि AB नदी की चौड़ाई है।  $3 \text{ m}$  की ऊँचाई पर बने पुल पर एक बिंदु P है अर्थात्  $DP = 3 \text{ m}$  है। हम नदी की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं जो कि  $\triangle APB$  की भुजा AB की लंबाई है।



आकृति 9.9



आकृति 9.10

अब  $AB = AD + DB$

समकोण  $\triangle APD$  में  $\angle A = 30^\circ$

$$\text{अतः} \quad \tan 30^\circ = \frac{PD}{AD}$$

$$\text{अर्थात्} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3}{AD} \quad \text{या} \quad AD = 3\sqrt{3} \text{ m}$$


अतः समकोण  $\triangle PBD$  में,  $\angle B = 45^\circ$  है। इसलिए  $BD = PD = 3$  m

$$\text{अब} \quad AB = BD + AD = 3 + 3\sqrt{3} = 3(1 + \sqrt{3}) \text{ m}$$

इसलिए नदी की चौड़ाई  $3(\sqrt{3} + 1)$  m है।

### प्रश्नावली 9.1


- सर्कस का एक कलाकार एक 20m लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण  $30^\circ$  का हो तो खंभे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए (देखिए आकृति 9.11)।



आकृति 9.11


- आँधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ  $30^\circ$  का कोण बनाता है। पेड़ के पाद-बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8m है। पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
- एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलनपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 m की ऊँचाई पर हो और भूमि के साथ  $30^\circ$  के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3m की ऊँचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनपट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ  $60^\circ$  का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलनपट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए?
- भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद-बिंदु से 30m की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण  $30^\circ$  है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

5. भूमि से  $60\text{ m}$  की ऊँचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव  $60^\circ$  है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
6.  $1.5\text{ m}$  लंबा एक लड़का  $30\text{ m}$  ऊँचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण  $30^\circ$  से  $60^\circ$  हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है।
7. भूमि के एक बिंदु से एक  $20\text{ m}$  ऊँचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः  $45^\circ$  और  $60^\circ$  है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
8. एक पेड़स्टल के शिखर पर एक  $1.6\text{ m}$  ऊँची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है और उसी बिंदु से पेड़स्टल के शिखर का उन्नयन कोण  $45^\circ$  है। पेड़स्टल की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
9. एक मीनार के पाद-बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण  $30^\circ$  है और भवन के पाद-बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है। यदि मीनार  $50\text{ m}$  ऊँची हो, तो भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
10. एक  $80\text{ m}$  चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः  $60^\circ$  और  $30^\circ$  है। खंभों की ऊँचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए।
11. एक नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर ऊर्ध्वधरतः खड़ा है। टॉवर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है। इसी तट पर इस बिंदु से  $20\text{ m}$  दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण  $30^\circ$  है। (देखिए आकृति 9.12)। टॉवर की ऊँचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
12.  $7\text{ m}$  ऊँचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है और इसके पाद का अवनमन कोण  $45^\circ$  है। टॉवर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
13. समुद्र-तल से  $75\text{ m}$  ऊँची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण  $30^\circ$  और  $45^\circ$  हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।



आकृति 9.12

14. 1.2 m लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 m की ऊँचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर  $30^\circ$  हो जाता है (देखिए आकृति 9.13)। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।



आकृति 9.13

15. एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को  $30^\circ$  के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। छः सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण  $60^\circ$  हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

## 9.2 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है :

1. (i) दृष्टि-रेखा प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है।  
 (ii) देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि-रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है अर्थात् वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है।  
 (iii) देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि-रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है अर्थात् वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है।
2. त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊँचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है।




1063CH10

# वृत्त 10

## 10.1 भूमिका

आपने कक्षा IX में पढ़ा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु (केंद्र) से अचर दूरी (त्रिज्या) पर होते हैं। आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में भी पढ़ा है। आइए अब एक तल में स्थित एक वृत्त तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें।


आइए, हम एक वृत्त तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें। दी गई निम्न आकृति 10.1 में तीन संभावनाएँ हो सकती हैं।



आकृति 10.1

आकृति 10.1 (i) में, रेखा PQ तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस दशा में PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आकृति 10.1 (ii) में रेखा PQ और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु A और B हैं। इस दशा में हम रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। आकृति 10.1 (iii) में रेखा PQ और वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु A है। इस दशा में रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है।

आपने कुएँ के ऊपर स्थिर की हुई एक घिरनी को देखा होगा जिसका उपयोग कुएँ से पानी निकालने के लिए किया जाता है। आकृति 10.2 को देखिए। यहाँ घिरनी के दोनों ओर की रस्सी को यदि किरण की तरह समझें तो वह घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त पर स्पर्श रेखा की तरह होगी।



आकृति 10.2

ऊपर दी गई स्थितियों के अतिरिक्त क्या वृत्त के सापेक्ष रेखा की कोई अन्य स्थिति हो सकती है? आप देख सकते हैं कि इन स्थितियों के अतिरिक्त रेखा की वृत्त के सापेक्ष कोई अन्य स्थिति नहीं हो सकती है। इस अध्याय में हम वृत्त की स्पर्श रेखा के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके कुछ गुणों का भी अध्ययन करेंगे।


## 10.2 वृत्त की स्पर्श रेखा

पिछले परिच्छेद में आपने देखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।

वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अस्तित्व को समझने के लिए हम निम्न क्रियाकलाप करें।

**क्रियाकलाप 1 :** एक वृत्ताकार तार लीजिए तथा वृत्ताकार तार के एक बिंदु P पर एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए कि वह बिंदु P के परितः एक समतल में घूम सके। इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए तथा तार AB को बिंदु P के परितः धीमे-धीमे घुमाइए जिससे सीधे तार की विभिन्न अवस्थाएँ प्राप्त हो सकें [देखिए आकृति 10.3(i)]।

विभिन्न स्थितियों में तार, वृत्ताकार तार को बिंदु P एवं एक अन्य बिंदु Q<sub>1</sub> या Q<sub>2</sub> या Q<sub>3</sub> आदि पर प्रतिच्छेदित करता है। एक स्थिति में, आप देखेंगे कि वह वृत्त को केवल एक बिंदु P पर ही प्रतिच्छेदित करेगा (AB की स्थिति A'B' को देखिए)। ये यह दर्शाता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व है। पुनः घुमाने पर आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि AB की अन्य सभी स्थितियों में वह वृत्त को बिंदु P तथा एक अन्य बिंदु R<sub>1</sub> या R<sub>2</sub> या R<sub>3</sub> आदि पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है।



आकृति 10.3 (i)

उपर्युक्त क्रियाकलाप करते हुए आपने अवश्य प्रेक्षण किया होगा कि जैसे-जैसे स्थिति AB से स्थिति A' B' की ओर बढ़ती है, रेखा AB और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु Q<sub>1</sub>, उभयनिष्ठ बिंदु P की ओर निकट आता जाता है। अंततः, AB की स्थिति A'B' में वह बिंदु P के संपाती हो जाता है। पुनः ध्यान दीजिए कि क्या होता है जब A''B'', P के परितः दक्षिणावर्त घुमाया जाता है? उभयनिष्ठ बिंदु R<sub>3</sub> धीरे-धीरे बिंदु P की ओर अग्रसर होता है तथा अंततः P से संपाती हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं:


किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएँ।

**क्रियाकलाप 2 :** एक कागज पर एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। छेदक रेखा के समांतर दोनों ओर अनेक रेखाएँ खींचिए। आप पाएँगे कि कुछ चरणों के बाद रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे-धीरे कम हो रही है अर्थात् रेखा तथा वृत्त के दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पास आ रहे हैं [देखिए आकृति 10.3(ii)]। एक स्थिति में छेदक रेखा के एक ओर यह लंबाई तथा दूसरी स्थिति में यह दूसरी ओर शून्य हो जाती है। छेदक रेखा की स्थितियों P'Q' तथा P''Q'' की आकृति 10.3 (ii) में अवलोकन कीजिए। ये दोनों रेखाएँ दी गयी छेदक रेखा PQ के समांतर दो स्पर्श रेखाएँ हैं इससे आपको यह जानने में सहायता मिलती है कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएँ नहीं होती हैं।


इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएँ।

स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु [आकृति 10.1 (iii) में बिंदु A] कहते हैं तथा स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं।

अब आप अपने चारों ओर देखिए। क्या आपने एक साइकिल अथवा एक बैलगाड़ी को चलते देखा है? इनके पहियों की ओर देखिए। एक पहिए की सभी तीलियाँ इसकी त्रिज्याओं के अनुरूप हैं। अब पहिए की स्थिति का धरती पर गति करने के सापेक्ष व्याख्या कीजिए। क्या आपको कहीं स्पर्श रेखा दिखती है? (देखिए आकृति 10.4)। वास्तव



आकृति 10.3(ii)



आकृति 10.4

में पहिया एक रेखा के अनुदिश गति करता है जो पहिये को निरूपित करने वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यह भी देखिए कि सभी स्थितियों में आकृति 10.4 धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब दृष्टिगोचर होती है (देखिए आकृति 10.4)। अब हम स्पर्श रेखा के इस गुण को सिद्ध करेंगे।

**प्रमेय 10.1 :** वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।

**उपपत्ति :** हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। हमें सिद्ध करना है कि OP, XY पर लंब है।

XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए और OQ को मिलाइए (देखिए आकृति 10.5)।

बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए (क्यों? ध्यान दीजिए कि यदि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी)। अतः, OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। अर्थात्

$$OQ > OP$$


क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। इसलिए OP, XY पर लंब है (जैसा कि प्रमेय A1.7 में दर्शाया गया है)।

### टिप्पणी :

- उपर्युक्त प्रमेय से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है।
- स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर ‘अभिलंब’ भी कहते हैं।

### प्रश्नावली 10.1

- एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं?
- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:
  - किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे \_\_\_\_\_ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।
  - वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को \_\_\_\_\_ कहते हैं।
  - एक वृत्त की \_\_\_\_\_ समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं।
  - वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को \_\_\_\_\_ कहते हैं।



आकृति 10.5

3. 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि  $OQ = 12$  सेमी। PQ की लंबाई है:
- (A) 12 सेमी      (B) 13 सेमी      (C) 8.5 सेमी      (D)  $\sqrt{119}$  सेमी
4. एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएँ खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो।

### 10.3 एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या

किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करें:


**क्रियाकलाप 3 :** एक कागज पर एक वृत्त खींचिए। एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है इसलिए इन रेखाओं में से कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती [देखिए आकृति 10.6 (i)]।

पुनः, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखाएँ खींचिए। आपने पहले से ही प्रेक्षण किया है कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है [देखिए आकृति 10.6 (ii)]।

अंत में वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखाएँ खींचने का प्रयत्न करिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? आप पाएँगे कि इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं (देखिए आकृति 10.6 (iii)]।

संक्षेप में हम इन यथार्थों को निम्न स्थितियों में प्रकट कर सकते हैं।

**स्थिति 1 :** वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है।



आकृति 10.6

**स्थिति 2 :** वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है।

**स्थिति 3 :** वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएँ हैं।

आकृति 10.6 (iii) में स्पर्श रेखाओं  $PT_1$  तथा  $PT_2$  के क्रमशः  $T_1$  तथा  $T_2$  स्पर्श बिंदु हैं।

वाह्य बिंदु  $P$  से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु  $P$  से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं।

ध्यान दीजिए कि आकृति 10.6 (iii) में  $PT_1$  और  $PT_2$  बिंदु  $P$  से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हैं। लंबाइयों  $PT_1$  और  $PT_2$  में एक उभयनिष्ठ गुण है। क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं?  $PT_1$  और  $PT_2$  को मापिए। क्या ये बराबर हैं? वास्तव में सदैव ऐसा ही है। आइए इस तथ्य की एक उपपत्ति निम्न प्रमेय में दें।

**प्रमेय 10.2 :** वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

**उपपत्ति :** हमें केंद्र  $O$  वाला एक वृत्त, वृत्त के बाहर का एक बिंदु  $P$  तथा  $P$  से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ  $PQ$ ,  $PR$  दी हैं (देखिए आकृति 10.7)। हमें सिद्ध करना है कि  $PQ = PR$

इसके लिए हम  $OP$ ,  $OQ$  और  $OR$  को मिलाते हैं। तब  $\angle OQP$  तथा  $\angle ORP$  समकोण हैं क्योंकि ये त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण हैं और प्रमेय 10.1 से ये समकोण हैं। अब समकोण त्रिभुजों  $OQP$  तथा  $ORP$  में,

$$OQ = OR \quad (\text{एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ})$$

$$OP = OP \quad (\text{उभयनिष्ठ})$$

अतः  $\triangle OQP \cong \triangle ORP$

(RHS सर्वांगसमता द्वारा)

इससे प्राप्त होता है

$$PQ = PR \quad (\text{CPCT})$$

**टिप्पणी :**

1. प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है:

$$PQ^2 = OP^2 - OQ^2 = OP^2 - OR^2 = PR^2 \quad (\text{क्योंकि } OQ = OR)$$

जिससे प्राप्त होता है कि  $PQ = PR$

2. यह भी ध्यान दीजिए कि  $\angle OPQ = \angle OPR$ । अतः  $OP$  कोण  $QPR$  का अर्धक है, अर्थात् वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होता है।




Fig. 10.7

आइए, अब कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है।

**हल :** हमें केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त  $C_1$  और  $C_2$  तथा बड़े वृत्त  $C_1$  की जीवा AB, जो छोटे वृत्त  $C_2$  को बिंदु P पर स्पर्श करती है, दिए हैं (देखिए आकृति 10.8)।

हमें सिद्ध करना है कि  $AP = BP$

आइए OP को मिलाएँ। इस प्रकार AB,  $C_2$  के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। अतः प्रमेय 10.1 से

$$OP \perp AB$$

अब AB वृत्त  $C_1$  की एक जीवा है और  $OP \perp AB$  है। अतः, OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है,

$$\text{अर्थात्} \quad AP = BP$$

**उदाहरण 2 :** केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएँ TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि  $\angle PTQ = 2\angle OPQ$  है।

**हल :** हमें केंद्र O वाला एक वृत्त, एक बाह्य बिंदु T तथा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ TP और TQ, जहाँ P, Q स्पर्श बिंदु हैं, दिए हैं (देखिए आकृति 10.9)। हमें सिद्ध करना है कि

$$\angle PTQ = 2\angle OPQ$$

माना

$$\angle PTQ = \theta$$


अब प्रमेय 10.2 से  $TP = TQ$ । अतः  $TPQ$  एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

$$\text{इसलिए} \quad \angle TPQ = \angle TQP = \frac{1}{2}(180^\circ - \theta) = 90^\circ - \frac{1}{2}\theta$$


प्रमेय 10.1 से  $\angle OPT = 90^\circ$  है।

$$\text{अतः} \quad \angle OPQ = \angle OPT - \angle TPQ = 90^\circ - \left(90^\circ - \frac{1}{2}\theta\right) = \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{2}\angle PTQ$$

इससे  $\angle PTQ = 2\angle OPQ$  प्राप्त होता है।



आकृति 10.8



आकृति 10.9

**उदाहरण 3 :** 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त की 8 cm लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएँ परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं (देखिए आकृति 10.10)। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए।

**हल :** OT को मिलाएँ। माना यह PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करती है। तब  $\Delta TPQ$  समद्विबाहु है और TO,  $\angle PTQ$  का कोणार्धक है। इसलिए  $OT \perp PQ$  और इस प्रकार OT, PQ का अर्धक है जिससे प्राप्त होता है  $PR = RQ = 4 \text{ cm}$

$$\text{साथ ही } OR = \sqrt{OP^2 - PR^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} \text{ cm} = 3 \text{ cm}$$

$$\text{अब } \angle TPR + \angle RPO = 90^\circ = \angle TPR + \angle PTR \quad (\text{क्यों?})$$

$$\text{अतः } \angle RPO = \angle PTR$$

इसलिए समकोण त्रिभुज TRP और समकोण त्रिभुज PRO, AA समरूपता द्वारा समरूप हैं। इससे  $\frac{TP}{PO} = \frac{RP}{RO}$  प्राप्त होता है। अर्थात्  $\frac{TP}{5} = \frac{4}{3}$  अर्थात्  $TP = \frac{20}{3} \text{ cm}$

**टिप्पणी :** TP को पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निम्न प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं:

$$\text{माना } TP = x \text{ और } TR = y \text{ तो}$$

$$x^2 = y^2 + 16 \quad (\text{समकोण } \Delta PRT \text{ लेकर}) \quad (1)$$


$$x^2 + 5^2 = (y + 3)^2 \quad (\text{समकोण } \Delta OPT \text{ लेकर}) \quad (2)$$

(1) को (2) में से घटाकर, हम पाते हैं

$$25 = 6y - 7 \quad \text{या} \quad y = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$$

$$\text{इसलिए } x^2 = \left(\frac{16}{3}\right)^2 + 16 = \frac{16}{9}(16 + 9) = \frac{16 \times 25}{9} \quad [(1) \text{ से}]$$

$$\text{या } x = \frac{20}{3} \text{ cm}$$



## प्रश्नावली 10.2

प्रश्न सं. 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए।

1. एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। वृत्त की त्रिज्या है:

- (A) 7 cm                                               (B) 12 cm  
 (C) 15 cm                                               (D) 24.5 cm

2. आकृति 10.11 में, यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार हैं कि  $\angle POQ = 110^\circ$ , तो  $\angle PTQ$  बराबर है:

- (A)  $60^\circ$                                                    (B)  $70^\circ$   
 (C)  $80^\circ$                                                    (D)  $90^\circ$

3. यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएँ परस्पर  $80^\circ$  के कोण पर झुकी हों, तो  $\angle POA$  बराबर है :

- (A)  $50^\circ$                                                    (B)  $60^\circ$                                                    (C)  $70^\circ$   
 (D)  $80^\circ$

4. सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं।

5. सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।


6. एक बिंदु A से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

7. दो संकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 cm तथा 3 cm हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो।


8. एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है (देखिए आकृति 10.12)। सिद्ध कीजिए :

$$AB + CD = AD + BC$$


9. आकृति 10.13 में XY तथा X'Y', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएँ हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, XY को A तथा X'Y' को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि  $\angle AOB = 90^\circ$  है।



आकृति 10.11




आकृति 10.12



आकृति 10.13

10. सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है।
11. सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है।
12. 4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC (जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है) की लंबाइयाँ क्रमशः 8 cm और 6 cm हैं (देखिए आकृति 10.14)। भुजाएँ AB और AC ज्ञात कीजिए।
13. सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने-सामने की भुजाएँ केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।



#### 10.4 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है:

1. वृत्त की स्पर्श रेखा का अर्थ।
2. वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
3. बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं।



1063CH12


## वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

# 11


### 11.1 त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल

आप पिछली कक्षाओं में शब्दों त्रिज्यखंड (*sector*) और वृत्तखंड (*segment of a circle*) से पूर्व परिचित हैं। आपको याद होगा कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा (परिबद्ध) हो, उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है तथा वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक वृत्तखंड कहलाता है। इस प्रकार, आकृति 11.1 में, छायांकित भाग OAPB केंद्र O वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है।  $\angle AOB$  इस त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए कि इसी आकृति में अछायांकित भाग OAQB भी वृत्त का त्रिज्यखंड है। स्पष्ट कारणों से OAPB एक लघु त्रिज्यखंड (*minor sector*) कहलाता है तथा OAQB एक दीर्घ त्रिज्यखंड (*major sector*) कहलाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि इस दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण  $360^\circ - \angle AOB$  है।

अब आकृति 11.2 को देखिए, जिसमें AB केंद्र O वाले वृत्त की एक जीवा है। अतः छायांकित भाग APB एक वृत्तखंड है। आप यह भी देख सकते हैं कि अछायांकित भाग AQB भी जीवा AB द्वारा निर्मित एक अन्य वृत्तखंड है। स्पष्ट कारणों से, APB लघु वृत्तखंड कहलाता है तथा AQB दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है।



आकृति 11.1



आकृति 11.2

**टिप्पणी :** जब तक अन्यथा न कहा जाए, 'वृत्तखंड' और 'त्रिज्यखंड' लिखने से हमारा तात्पर्य क्रमशः लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड से होगा।

आइए उपरोक्त ज्ञान के आधार पर, इनके क्षेत्रफलों के परिकलित करने के कुछ संबंध (या सूत्र) ज्ञात करने का प्रयत्न करें।

मान लीजिए  $OAPB$  केंद्र  $O$  और त्रिज्या  $r$  वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है (देखिए आकृति 11.3)। मान लीजिए  $\angle AOB$  का अंशीय (degree) माप  $\theta$  है।

आप जानते हैं कि एक वृत्त [वस्तुतः एक वृत्तीय क्षेत्र या चक्रती (disc)] का क्षेत्रफल  $\pi r^2$  होता है।

एक तरीके से, हम इस वृत्तीय क्षेत्र को केंद्र  $O$  पर  $360^\circ$  का कोण बनाने वाला (अंशीय माप  $360$ ) एक त्रिज्यखंड मान सकते हैं। फिर ऐकिक विधि (Unitary Method) का प्रयोग करके, हम त्रिज्यखंड  $OAPB$  का क्षेत्रफल नीचे दर्शाए अनुसार ज्ञात कर सकते हैं:

जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप  $360$  है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल =  $\pi r^2$


अतः, जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप  $1$  है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल =  $\frac{\pi r^2}{360}$

इसलिए जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप  $\theta$  है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल =  $\frac{\pi r^2}{360} \times \theta = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$


इस प्रकार, हम वृत्त के एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए, निम्नलिखित संबंध (या सूत्र) प्राप्त करते हैं:

$$\text{कोण } \theta \text{ वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल} = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2,$$

जहाँ  $r$  वृत्त की त्रिज्या है और  $\theta$  त्रिज्यखंड का अंशों में कोण है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है: क्या हम इस त्रिज्यखंड की संगत चाप  $APB$  की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। पुनः, ऐकिक विधि का प्रयोग करने तथा संपूर्ण वृत्त ( $360^\circ$  कोण वाले) की लंबाई  $2\pi r$  लेने पर, हम चाप  $APB$  की



आकृति 11.3



आकृति 11.4

वांछित लंबाई  $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$  प्राप्त करते हैं।

अतः कोण  $\theta$  वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई =  $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

आइए अब केंद्र O और त्रिज्या  $r$  वाले वृत्तखंड APB के क्षेत्रफल पर विचार करें (देखिए आकृति 11.4)। आप देख सकते हैं कि

वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल = त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल –  $\Delta OAB$  का क्षेत्रफल

$$= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 - \Delta OAB \text{ का क्षेत्रफल}$$

**टिप्पणी :** क्रमशः आकृति 11.3 और आकृति 11.4 से, आप देख सकते हैं कि


दीर्घ त्रिज्यखंड OAQB का क्षेत्रफल =  $\pi r^2$  – लघु त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल  
तथा            दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल =  $\pi r^2$  – लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल

अब आइए इन अवधारणाओं (या परिणामों) को समझने के लिए कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** त्रिज्या 4 cm वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण  $30^\circ$  है। साथ ही, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$  का प्रयोग कीजिए)।

**हल :** दिया हुआ त्रिज्यखंड OAPB है (देखिए आकृति 11.5)।

$$\begin{aligned}\text{त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल} &= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \\ &= \frac{30}{360} \times 3.14 \times 4 \times 4 \text{ cm}^2 \\ &= \frac{12.56}{3} \text{ cm}^2 = 4.19 \text{ cm}^2 \text{ (लगभग)}\end{aligned}$$



**आकृति 11.5**


संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल

$$\begin{aligned}&= \pi r^2 - \text{त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल} \\ &= (3.14 \times 16 - 4.19) \text{ cm}^2 \\ &= 46.05 \text{ cm}^2 = 46.1 \text{ cm}^2 \text{ (लगभग)}\end{aligned}$$

वैकल्पिक रूप से,

$$\begin{aligned}
 \text{दोर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल} &= \frac{(360 - \theta)}{360} \times \pi r^2 \\
 &= \left( \frac{360 - 30}{360} \right) \times 3.14 \times 16 \text{ cm}^2 \\
 &= \frac{330}{360} \times 3.14 \times 16 \text{ cm}^2 = 46.05 \text{ cm}^2 \\
 &= 46.1 \text{ cm}^2 (\text{लगभग})
 \end{aligned}$$

**उदाहरण 2 :** आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 cm है और  $\angle AOB = 120^\circ$  है। [ $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए]



आकृति 11.6

**हल :** वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल

$$= \text{त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल} - \Delta OAB \text{ का क्षेत्रफल} \quad (1)$$

$$\text{अब, त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल} = \frac{120}{360} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \text{ cm}^2 = 462 \text{ cm}^2 \quad (2)$$

$\Delta OAB$  का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए  $OM \perp AB$  खींचिए, जैसाकि आकृति 11.7 में दिखाया गया है।

ध्यान दीजिए कि  $OA = OB$  है। अतः, RHS सर्वांगसमता से,  $\Delta AMO \cong \Delta BMO$  है।

इसलिए M जीवा AB का मध्य-बिंदु है तथा  $\angle AOM = \angle BOM = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$  है।

मान लीजिए

$$OM = x \text{ cm है।}$$

इसलिए  $\Delta OMA$  से,


$$\frac{OM}{OA} = \cos 60^\circ$$

या

$$\frac{x}{21} = \frac{1}{2} \quad \left( \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \right)$$

या

$$x = \frac{21}{2}$$



आकृति 11.7

अतः

$$OM = \frac{21}{2} \text{ cm}$$

साथ ही

$$\frac{AM}{OA} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

अतः

$$AM = \frac{21\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$$

इसलिए

$$AB = 2 AM = \frac{2 \times 21\sqrt{3}}{2} \text{ cm} = 21\sqrt{3} \text{ cm}$$

अतः

$$\begin{aligned} \Delta OAB \text{ का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} AB \times OM = \frac{1}{2} \times 21\sqrt{3} \times \frac{21}{2} \text{ cm}^2 \\ &= \frac{441}{4}\sqrt{3} \text{ cm}^2 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{इसलिए वृत्तखण्ड AYB का क्षेत्रफल} &= \left( 462 - \frac{441}{4}\sqrt{3} \right) \text{ cm}^2 \quad [(1), (2) \text{ और } (3) \text{ से}] \\ &= \frac{21}{4} (88 - 21\sqrt{3}) \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

## अभ्यास 11.1

(जब तक अन्यथा न कहा जाए,  $\pi = \frac{22}{7}$  का प्रयोग कीजिए।)

1. 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण  $60^\circ$  है।
2. एक वृत्त के चतुर्थांश (quadrant) का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 22 cm है।
3. एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
4. 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए:
  - (i) संगत लघु वृत्तखण्ड (ii) संगत दीर्घ त्रिज्यखण्ड ( $\pi = 3.14$  का प्रयोग कीजिए)।
5. त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर  $60^\circ$  का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए:
  - (i) चाप की लंबाई (ii) चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल
  - (iii) संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखण्ड का क्षेत्रफल
6. 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर  $60^\circ$  का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखण्डों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$  और  $\sqrt{3} = 1.73$  का प्रयोग कीजिए।)

7. त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर  $120^\circ$  का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

( $\pi = 3.14$  और  $\sqrt{3} = 1.73$  का प्रयोग कीजिए।)

8. 15 m भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूँटे से एक घोड़े को 5 m लंबी रस्सी से बाँध दिया गया है (देखिए आकृति 11.8)। ज्ञात कीजिए:

(i) मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है।

(ii) चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 m लंबी रस्सी के स्थान पर 10 m लंबी रस्सी से बाँध दिया जाए। ( $\pi = 3.14$  का प्रयोग कीजिए।)

9. एक वृत्ताकार ब्रूच (brooch) को चाँदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए:

(i) कुल वांछित चाँदी के तार की लंबाई


(ii) ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल

10. एक छतरी में आठ ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं (देखिए आकृति 11.10)। छतरी को 45 cm त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।


11. किसी कार के दो वाइपर (Wipers) हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई

25 cm है और  $115^\circ$  के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए।


12. जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, एक लाइट हाउस (light house)  $80^\circ$  कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 km की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ( $\pi = 3.14$  का प्रयोग कीजिए।)



आकृति 11.8



आकृति 11.9




आकृति 11.10

13. एक गोल मेज़पोश पर छः समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसाकि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज़पोश की त्रिज्या 28 cm है, तो ₹ 0.35 प्रति वर्ग सेटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ( $\sqrt{3} = 1.7$  का प्रयोग कीजिए)

14. निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए:  
त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण  $p^\circ$  है, निम्नलिखित है:

$$(A) \frac{p}{180} \times 2\pi R \quad (B) \frac{p}{180} \times \pi R^2 \quad (C) \frac{p}{720} \times 2\pi R^2 \quad (D) \frac{p}{360} \times 2\pi R$$



आकृति 11.11

## 11.2 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है:

- त्रिज्या  $r$  वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड, जिसका कोण अंशों में  $\theta$  है, के संगत चाप की लंबाई  $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$  होती है।
- त्रिज्या  $r$  वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड, जिसका कोण अंशों में  $\theta$  है, का क्षेत्रफल  $\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$  होता है।
- एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल = संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल – संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल




1063CH13

## पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन


# 12

### 12.1 भूमिका


कक्षा IX से, आप कुछ ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन और गोला से परिचित हो चुके हैं (देखिए आकृति 12.1)। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं।




(i)



(ii)



(iii)




(iv)

### आकृति 12.1


अपने दैनिक जीवन में हमें ऐसे अनेक ठोस देखने को मिलते हैं जो उपरोक्त दो या अधिक आधारभूत ठोसों के संयोजनों से (अर्थात् इनको मिलाकर) बनते हैं।

आपने एक ट्रक के पीछे रखे बड़े कंटेनर (container) को अवश्य ही देखा होगा (देखिए आकृति 12.2), जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल या पानी ले जाया जाता है। क्या इसका आकार उपरोक्त चारों ठोसों में से किसी एक के आकार जैसा है? आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह ठोस एक बेलन और उसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोले लगाने पर बना है।



### आकृति 12.2

पुनः, आपने ऐसी वस्तु भी अवश्य देखी होगी जो आकृति 12.3 में दर्शाई गई है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? यह निश्चय ही एक परख नली (test tube) है। आपने इसे अपनी विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग किया होगा। यह परखनली भी एक बेलन और एक अर्धगोले से मिलकर बनी है। इसी प्रकार, यात्रा करते समय भी उपरोक्त ठोसों के संयोजनों से बने अनेक बड़े और सुंदर भवनों अथवा स्मारकों को आपने देखा होगा।



आकृति 12.3

यदि किन्हीं कारणवश, आप इन ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन या धारिता ज्ञात करना चाहें तो आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? आप ऐसे ठोसों को अब तक पढ़ी हुई चारों ठोस आकृतियों में से किसी एक के रूप में वर्णिकृत नहीं कर सकते।

इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि इस प्रकार के ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं?

## 12.2 ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल

आइए उस कंटेनर पर विचार करें जो हमने आकृति 12.2 में देखा था। इस प्रकार के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें? अब, जब भी हमारे सम्मुख कोई नई समस्या आती है तो हम सर्वप्रथम यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि क्या हम इसे ऐसी छोटी समस्याओं में तोड़ सकते हैं जिन्हें हम पहले हल कर चुके हैं। हम देख सकते हैं कि यह ठोस एक बेलन के दोनों सिरों पर एक-एक अर्धगोला लगाने से बना है। यह आकृति 12.4 में दिखाए ठोस जैसा लगेगा, जबकि हम सभी टुकड़ों को एक साथ मिला लेते हैं।



आकृति 12.4


यदि हम नयी बनी हुई वस्तु को देखें, तो हमें केवल दोनों अर्धगोलों तथा बेलन के केवल वक्रपृष्ठ दिखाई देंगे।

इसलिए इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इससे हमें प्राप्त होता है:

ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) = एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA)  
+ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल  
+ दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

आइए एक अन्य स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए हम अर्धगोले और एक शंकु को जोड़कर एक खिलौना बना रहे हैं। आइए हम उन चरणों को देखें जिनका हम अनुसरण करेंगे।

पहले हम एक शंकु और एक अर्धगोला लेंगे और फिर उनके सपाट पृष्ठों को साथ-साथ लाने का प्रयत्न करेंगे। निस्संदेह, खिलौने के पृष्ठ को चिकना रखने के लिए हम शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर लेंगे। इस खिलौने के बनाने में संबद्ध चरण आकृति 12.5 में दर्शाए अनुसार होंगे:



**आकृति 12.5**

अपने प्रयत्न के फलस्वरूप हमें एक गोल आधार वाला सुंदर खिलौना प्राप्त हो जाता है। अब, हम यदि यह जानना चाहें कि इस खिलौने के पृष्ठ पर रंग करवाने के लिए कितने पेंट की आवश्यकता होगी, तो हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? हमें इस खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की आवश्यकता है, जो अर्धगोले के CSA और शंकु के CSA को मिलाकर बनता है।

अतः, हम कह सकते हैं कि

खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = अर्धगोले का CSA + शंकु का CSA


अब, आइए कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 :** रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों (Crayons) से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है (देखिए आकृति 12.6)। लट्टू की पूरी ऊँचाई 5 cm है और इसका व्यास 3.5 cm है।

उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

$$(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए})$$

**हल :** यह लट्टू बिल्कुल उस वस्तु जैसा है जिसकी चर्चा हमने आकृति 12.5 में की थी। अतः, हम वहाँ पर प्राप्त परिणाम को सुविधाजनक रूप से यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात्



आकृति 12.6

$$\text{लट्टू का TSA} = \text{अर्धगोले का CSA} + \text{शंकु का CSA}$$

$$\text{अब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल} = \frac{1}{2}(4\pi r^2) = 2\pi r^2$$

$$= \left( 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2} \right) \text{cm}^2$$

साथ ही, शंकु की ऊँचाई = लट्टू की ऊँचाई – अर्धगोलीय भाग की ऊँचाई (त्रिज्या)

$$= \left( 5 - \frac{3.5}{2} \right) \text{cm} = 3.25 \text{ cm}$$

$$\text{अतः शंकु की तिर्यक ऊँचाई} (l) = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{\left(\frac{3.5}{2}\right)^2 + (3.25)^2} \text{ cm} = 3.7 \text{ cm} \text{ (लगभग)}$$

$$\text{इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल} = \pi r l = \left( \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times 3.7 \right) \text{cm}^2$$


इससे लट्टू का प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$= \left( 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2} \right) \text{cm}^2 + \left( \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times 3.7 \right) \text{cm}^2$$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} (3.5 + 3.7) \text{cm}^2 = \frac{11}{2} \times (3.5 + 3.7) \text{cm}^2 = 39.6 \text{ cm}^2 \text{ (लगभग)}$$

आप देख सकते हैं कि लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर नहीं है।

**उदाहरण 2 :** आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक (block) का आधार 5 cm का या किनारे (edge) वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 cm है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ( $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए।)




आकृति 12.7

**हल :** घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल =  $6 \times (\text{कोर})^2 = 6 \times 5 \times 5 \text{ cm}^2 = 150 \text{ cm}^2$

अब, घन का वह भाग जिस पर अर्धगोला लगा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं होगा।

$$\begin{aligned}
 \text{अतः ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= \text{घन का TSA} - \text{अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल} \\
 &\quad + \text{अर्धगोले का CSA} \\
 &= 150 - \pi r^2 + 2 \pi r^2 = (150 + \pi r^2) \text{ cm}^2 \\
 &= 150 \text{ cm}^2 + \left( \frac{22}{7} \times \frac{4.2}{2} \times \frac{4.2}{2} \right) \text{ cm}^2 \\
 &= 150 \text{ cm}^2 + 13.86 \text{ cm}^2 = 163.86 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

**उदाहरण 3 :** लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट (rocket) एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसाकि आकृति 12.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊँचाई 26 cm है, जबकि शंकवाकार भाग की ऊँचाई 6 cm है। शंकवाकार के भाग के आधार का व्यास 5 cm और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 cm है। यदि शंकवाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रँगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$  लीजिए।)



आकृति 12.8

**हल :** शंकु की त्रिज्या को  $r$  से, शंकु की तिर्यक ऊँचाई को  $l$  से, शंकु की ऊँचाई को  $h$  से, बेलन की त्रिज्या को  $r'$  से, बेलन की ऊँचाई को  $h'$  से व्यक्त कीजिए। तब,  $r = 2.5 \text{ cm}$ ,  $h = 6 \text{ cm}$ ,  $r' = 1.5 \text{ cm}$ ,  $h' = 26 - 6 = 20 \text{ cm}$  तथा

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{2.5^2 + 6^2} \text{ cm} = 6.5 \text{ cm}$$

यहाँ, शंकवाकार भाग का वृत्तीय आधार बेलन के आधार पर टिका हुआ है परंतु शंकु का आधार बेलन के आधार से बड़ा है। अतः, शंकु के आधार के एक भाग [वलय (ring)] को भी रँगा जाएगा।


अतः, नारंगी रंग से रँगे भाग का क्षेत्रफल = शंकु का CSA + शंकु के आधार का क्षेत्रफल  
                                                   – बेलन के आधार का क्षेत्रफल  

$$\begin{aligned} &= \pi r l + \pi r^2 - \pi(r')^2 \\ &= \pi[(2.5 \times 6.5) + (2.5)^2 - (1.5)^2] \text{ cm}^2 \\ &= \pi[20.25] \text{ cm}^2 = 3.14 \times 20.25 \text{ cm}^2 \\ &= 63.585 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

अब, पीले रंग से रँगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल = बेलन का CSA +  
                                                   बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल  

$$\begin{aligned} &= 2\pi r' h' + \pi(r')^2 \\ &= \pi r' (2h' + r') \\ &= 3.14 \times 1.5 [2 \times 20 + 1.5] \text{ cm}^2 \\ &= 4.71 \times 41.5 \text{ cm}^2 \\ &= 195.465 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

**उदाहरण 4 :** मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी-स्नानागार (bird-bath) बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है (देखिए आकृति 12.9)। बेलन की ऊँचाई 1.45 m है और उसकी त्रिज्या 30 cm है। इस पक्षी-स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



आकृति 12.9

**हल :** मान लीजिए कि बेलन की ऊँचाई  $h$  है तथा बेलन और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या  $r$  है। तब,


पक्षी-स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = बेलन का CSA + अर्धगोले का CSA

$$\begin{aligned} &= 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r) \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 30(145 + 30) \text{ cm}^2 \\ &= 33000 \text{ cm}^2 = 3.3 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

## प्रश्नावली 12.1


जब तक अन्यथा न कहा जाए,  $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए।

- दो घनों, जिनमें से प्रत्येक का आयतन  $64 \text{ cm}^3$  है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास  $14 \text{ cm}$  है और इस बर्तन (पात्र) की कुल ऊँचाई  $13 \text{ cm}$  है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- एक खिलौना त्रिज्या  $3.5 \text{ cm}$  वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊँचाई  $15.5 \text{ cm}$  है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- भुजा  $7 \text{ cm}$  वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- दवा का एक कैप्सूल (capsule) एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक-एक अर्धगोला लगा हुआ है (देखिए आकृति 12.10)। पूरे कैप्सूल की लंबाई  $14 \text{ mm}$  है और उसका व्यास  $5 \text{ mm}$  है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊँचाई और व्यास क्रमशः  $2.1 \text{ m}$  और  $4 \text{ m}$  है तथा शंकु की तिर्यक ऊँचाई  $2.8 \text{ m}$  है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस (canvas) का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही, ₹ $500$  प्रति  $\text{m}^2$  की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। (ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है।)



## आकृति 12.10

8. ऊँचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊँचाई और इसी व्यास वाला एक शंकवाकार खोल (cavity) काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
9. लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, एक वस्तु बनाई गई है, जैसाकि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊँचाई 10 cm है और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।




आकृति 12.11

### 12.3 ठोसों के संयोजन का आयतन

पिछले अनुच्छेद में हमने यह चर्चा की है कि दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के ठोसों के आयतन किस प्रकार परिकलित किए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने में हमने दोनों घटकों (ठोसों) के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ा नहीं था क्योंकि इनको मिलाने की प्रक्रिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुछ भाग लुप्त हो गया था। परंतु आयतन परिकलित करने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन वास्तव में दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है, जैसाकि हम नीचे दिए उदाहरण में देखेंगे।

**उदाहरण 5 :** शांता किसी शेड (shed) में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है (देखिए आकृति 12.12)। यदि इस शेड के आधार की विमाएँ 7 m  $\times$  15 m हैं तथा घनाभाकार भाग की ऊँचाई 8 m है तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए।

**पुनः** यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 m<sup>3</sup> स्थान घेरती है तथा शेड



आकृति 12.12

के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 m<sup>3</sup> के औसत से स्थान घेरता है तब शेड में कितनी हवा होगी? ( $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए।)

**हल :** शेड के अंदर हवा का आयतन (जब इसमें कोई व्यक्ति या मशीनरी नहीं है) घनाभ के अंदर की हवा और अर्धबेलन के अंदर की हवा के आयतनों को मिला कर प्राप्त होगा। अब, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 15 m, 7 m और 8 m हैं।

साथ ही, अर्धबेलन का व्यास 7 m और ऊँचाई 15 m है।

$$\text{इसलिए वाँछित आयतन} = \text{घनाभ का आयतन} + \frac{1}{2} \text{ बेलन का आयतन}$$

$$= \left[ 15 \times 7 \times 8 + \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \times 15 \right] \text{m}^3 = 1128.75 \text{ m}^3$$


आगे, मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान = 300 m<sup>3</sup>

तथा 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान =  $20 \times 0.08 \text{ m}^3 = 1.6 \text{ m}^3$

अतः, शेड में उस समय हवा का आयतन, जब उसमें मशीनरी और श्रमिक हैं

$$= 1128.75 - (300.00 + 1.60) = 827.15 \text{ m}^3$$

**उदाहरण 6 :** एक जूस (juice) बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 cm था, परंतु गिलास के निचले आधार (तली) में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊँचाई 10 cm थी, तो गिलास की आभासी (apparent) धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$  लीजिए।)



**आकृति 12.13**

**हल :** चूँकि गिलास का आंतरिक व्यास = 5 cm है और ऊँचाई = 10 cm है, इसलिए

$$\text{गिलास की आभासी धारिता} = \pi r^2 h$$

$$= 3.14 \times 2.5 \times 2.5 \times 10 \text{ cm}^3 = 196.25 \text{ cm}^3$$

परंतु इसकी वास्तविक धारिता उपरोक्त धारिता से आधार में बने अर्धगोले के आयतन के बराबर कम है।


$$\text{अर्थात्} \quad \text{कमी बराबर है} \frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \times 3.14 \times 2.5 \times 2.5 \times 2.5 \text{ cm}^3 = 32.71 \text{ cm}^3$$

अतः गिलास की वास्तविक धारिता = आभासी धारिता – अर्धगोले का आयतन

$$= (196.25 - 32.71) \text{ cm}^3$$

$$= 163.54 \text{ cm}^2$$

**उदाहरण 7 :** एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊँचाई 2 cm है और आधार का व्यास 4 cm है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$  लीजिए।)



आकृति 12.14

**हल :** मान लीजिए  $BPC$  अर्धगोला है तथा  $ABC$  अर्धगोले के आधार पर खड़ा एक शंकु है (देखिए आकृति 12.14)। अर्धगोले (और शंकु की भी) की त्रिज्या  $= \frac{1}{2} \times 4 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$  है। इसलिए खिलौने का आयतन  $= \frac{2}{3} \pi r^3 + \frac{1}{3} \pi r^2 h$

$$= \left[ \frac{2}{3} \times 3.14 \times (2)^3 + \frac{1}{3} \times 3.14 \times (2)^2 \times 2 \right] \text{cm}^3 = 25.12 \text{ cm}^3$$

अब, मान लीजिए कि दिए गए ठोस के परिगत लंब वृत्तीय बेलन  $EFGH$  है। इस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या  $= HP = BO = 2 \text{ cm}$  है तथा इसकी ऊँचाई

$$EH = AO + OP = (2 + 2) \text{ cm} = 4 \text{ cm} \text{ है।}$$

अतः, वांछित आयतन = लंब वृत्तीय बेलन का आयतन - खिलौने का आयतन  
 $= (3.14 \times 2^2 \times 4 - 25.12) \text{ cm}^3$   
 $= 25.12 \text{ cm}^3$


इस प्रकार, दोनों आयतनों का अंतर  $= 25.12 \text{ cm}^3$  है।

## प्रश्नावली 12.2

(जब तक अन्यथा न कहा जाए,  $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए।)


- एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या  $1 \text{ cm}$  है तथा शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन  $\pi$  के पदों में ज्ञात कीजिए।
- एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास  $3 \text{ cm}$  है और इसकी लंबाई  $12 \text{ cm}$  है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊँचाई  $2 \text{ cm}$  हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। (यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं।)

3. एक गुलाबजामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाबजामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यदि प्रत्येक गुलाबजामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 cm और व्यास 2.8 cm है (देखिए आकृति 12.15)।



आकृति 12.15

4. एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 cm × 10 cm × 3.5 cm हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए (देखिए आकृति 12.16)।



आकृति 12.16

5. एक बर्टन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊँचाई 8 cm है और इसके ऊपरी सिरे (जो खुला हुआ है) की त्रिज्या 5 cm है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्टन में सीसे की कुछ गोलियाँ जिनमें प्रत्येक 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्टन में डाली गई सीसे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
6. ऊँचाई 220 cm और आधार व्यास 24 cm वाले एक बेलन, जिस पर ऊँचाई 60 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 cm<sup>3</sup> लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 g होता है। ( $\pi = 3.14$  लीजिए।)
7. एक ठोस में, ऊँचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 cm है और ऊँचाई 180 cm है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए।
8. एक गोलाकार काँच के बर्टन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है और व्यास 2 cm है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्टन का आयतन 345 cm<sup>3</sup> है। जाँच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन अंतरिक मापन है और  $\pi = 3.14$ ।

## 12.4 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है :

1. आधारभूत ठोसों घनाभ, बेलन, शंकु और गोले और अर्धगोले में से किन्हीं दो ठोसों के संयोजन (को मिलाने से) से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्धारित करना।
2. ठोसों घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और अर्धगोले में से किन्हीं दो ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के आयतन ज्ञात करना।



1063CH14

## सांख्यिकी 13

### 13.1 भूमिका

कक्षा IX में, आप दिए हुए आँकड़ों को अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बंटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आपने आँकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेखों, जैसे दंड आलेख, आयत चित्र (इनमें असमान चौड़ाई वाले वर्ग अंतराल भी सम्मिलित थे) और बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना भी सीखा था। तथ्य तो यह है कि आप अवर्गीकृत आँकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि (numerical representatives) ज्ञात करके एक कदम आगे बढ़ गए थे। इन संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक (measures of central tendency) कहते हैं। हमने ऐसे तीन मापकों अर्थात् माध्य (mean), माध्यक (median) और बहुलक (mode) का अध्ययन किया था। इस अध्याय में, हम इन तीनों मापकों, अर्थात् माध्य, माध्यक और बहुलक, का अध्ययन अवर्गीकृत आँकड़ों से वर्गीकृत आँकड़ों के लिए आगे बढ़ाएँगे। हम संचयी बारंबारता (cumulative frequency) और संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणाओं की चर्चा भी करेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों (cumulative frequency curves), जो तोरण (ogives) कहलाती हैं, को किस प्रकार खींचा जाता है।

### 13.2 वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य

जैसाकि हम पहले से जानते हैं, दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य (या औसत) सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। कक्षा IX से, याद कीजिए कि यदि प्रेक्षणों  $x_1, x_2, \dots, x_n$  की बारंबारताएँ क्रमशः  $f_1, f_2, \dots, f_n$  हों, तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण  $x_1, f_1$  बार आता है; प्रेक्षण  $x_2, f_2$  बार आता है, इत्यादि।

अब, सभी प्रेक्षणों के मानों का योग  $= f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n$  है तथा प्रेक्षणों की संख्या  $f_1 + f_2 + \dots + f_n$  है।

अतः, इनका माध्य  $\bar{x}$  निम्नलिखित द्वारा प्राप्त होगा :

$$\bar{x} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

याद कीजिए कि उपरोक्त को संक्षिप्त रूप में एक यूनानी अक्षर  $\Sigma$  [बड़ा सिगमा (capital sigma)] से व्यक्त करते हैं। इस अक्षर का अर्थ है जोड़ना (summation) अर्थात्

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

इसे और अधिक संक्षिप्त रूप में,  $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$  लिखते हैं, यह समझते हुए कि  $i$  का मान 1 से  $n$  तक विचरण करता है।

आइए इस सूत्र का निम्नलिखित उदाहरण में माध्य ज्ञात करने के लिए उपयोग करें।

**उदाहरण 1:** किसी स्कूल की कक्षा X के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में, 100 में से प्राप्त किए गए अंक, नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए।

प्राप्तांक ( $x_i$ )	10	20	36	40	50	56	60	70	72	80	88	92	95
विद्यार्थियों की संख्या ( $f_i$ )	1	1	3	4	3	2	4	4	1	1	2	3	1

**हल:** याद कीजिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए, हमें प्रत्येक  $x_i$  से उसकी संगत बारंबारता  $f_i$  द्वारा गुणनफल की आवश्यकता है। अतः, आइए इन गुणनफलों को सारणी 13.1 में दर्शाए अनुसार एक स्तंभ में रखें।

## सारणी 13.1

प्राप्तांक ( $x_i$ )	विद्यार्थियों की संख्या ( $f_i$ )	$f_i x_i$
10	1	10
20	1	20
36	3	108
40	4	160
50	3	150
56	2	112
60	4	240
70	4	280
72	1	72
80	1	80
88	2	176
92	3	276
95	1	95
योग	$\sum f_i = 30$	$\sum f_i x_i = 1779$

अब 
$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{1779}{30} = 59.3$$

अतः, प्राप्त किया गया माध्य अंक 59.3 है।

हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश स्थितियों में, आँकड़े इतने बड़े होते हैं कि उनका एक अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में बाँट कर (वर्गीकृत करके) छोटा किया जाता है। अतः, हमें दिए हुए अवर्गीकृत आँकड़ों को, वर्गीकृत आँकड़ों में बदलने की आवश्यकता होती है तथा इन आँकड़ों के माध्य ज्ञात करने की विधि निकालने की आवश्यकता होती है।

आइए उदाहरण 1 के अवर्गीकृत आँकड़ों को चौड़ाई, मान लीजिए, 15 के वर्ग अंतराल बनाकर वर्गीकृत आँकड़ों में बदलें। याद रखिए कि वर्ग अंतरालों की बारंबारताएँ निर्दिष्ट करते समय, किसी उपरि वर्ग सीमा (upper class limit) में आने वाले प्रेक्षण अगले वर्ग अंतराल में लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, अंक 40 प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को वर्ग अंतराल 25-40 में न लेकर अंतराल 40-55 में लिया जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए, आइए इनकी एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएँ (देखिए सारणी 13.2)।

### सारणी 13.2

वर्ग अंतराल	10 - 25	25 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 85	85 - 100
विद्यार्थियों की संख्या	2	3	7	6	6	6

अब, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए, हमें एक ऐसे बिंदु (मान) की आवश्यकता है, जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य-बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। अतः, प्रत्येक वर्ग के मध्य-बिंदु (mid-point) [या वर्ग चिह्न (class mark)] को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि (representative) माना जा सकता है। याद कीजिए कि हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु (या वर्ग चिह्न) उसकी उपरि और निचली सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं। अर्थात्

$$\text{वर्ग चिह्न} = \frac{\text{उपरि वर्ग सीमा} + \text{निचली वर्ग सीमा}}{2}$$

सारणी 13.2 के संदर्भ में, वर्ग 10-25 का वर्ग चिह्न  $\frac{10+25}{2}$ , अर्थात् 17.5 है। इसी प्रकार, हम अन्य वर्ग अंतरालों के वर्ग चिह्न ज्ञात कर सकते हैं। हम इन वर्ग चिह्नों को सारणी 13.3 में रखते हैं। ये वर्ग चिह्न  $x_i$ 's का काम करते हैं। व्यापक रूप में वर्ग अंतराल के वर्ग चिह्न  $x_i$  के संगत बारंबारता  $f_i$  लिखी जाती है। अब हम उदाहरण 1 की ही तरह, माध्य परिकलित करने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

### सारणी 13.3

वर्ग अंतराल	विद्यार्थियों की संख्या ( $f_i$ )	वर्ग चिह्न ( $x_i$ )	$f_i x_i$
10 - 25	2	17.5	35.0
25 - 40	3	32.5	97.5
40 - 55	7	47.5	332.5
55 - 70	6	62.5	375.0
70 - 85	6	77.5	465.0
85 - 100	6	92.5	555.0
योग	$\sum f_i = 30$		$\sum f_i x_i = 1860.0$

अंतिम स्तंभ में दिए मानों के योग से हमें  $\sum f_i x_i$  प्राप्त होता है। अतः, दिए हुए आँकड़ों का माध्य  $\bar{x}$ , नीचे दर्शाए अनुसार प्राप्त होता है:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{1860.0}{30} = 62$$

माध्य ज्ञात करने की इस नयी विधि को **प्रत्यक्ष विधि (direct method)** कहा जा सकता है।

हम देखते हैं कि सारणियों 13.1 और 13.3 में, समान आँकड़ों का प्रयोग किया गया है तथा इनमें माध्य परिकलित करने के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग किया गया है। परंतु इन दोनों में हमें परिणाम (माध्य) भिन्न-भिन्न प्राप्त हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और इनमें से कौन-सा माध्य अधिक सही है? दोनों मानों के अंतर का कारण सारणी 13.3 में की गई मध्य-बिंदु कल्पना है। 59.3 सही माध्य है, जबकि 62 एक सन्निकट माध्य है।

कभी-कभी जब  $x_i$  और  $f_i$  के मान बड़े होते हैं, तो  $x_i$  और  $f_i$  के गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है तथा इसमें समय भी अधिक लगता है। अतः, ऐसी स्थितियों के लिए, आइए इन परिकलनों को सरल बनाने की विधि सोचें।

हम  $f_i$  के साथ कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम प्रत्येक  $x_i$  को एक छोटी संख्या में बदल सकते हैं, जिससे हमारे परिकलन सरल हो जाएँगे। हम ऐसा कैसे करेंगे? प्रत्येक  $x_i$  में से एक निश्चित संख्या घटाने के बारे में आपका क्या विचार है? आइए यह विधि अपनाने का प्रयत्न करें।

इसमें पहला चरण यह हो सकता है कि प्राप्त किए गए सभी  $x_i$  में से किसी  $x_i$  को कल्पित माध्य (*assumed mean*) के रूप में चुन लें तथा इसे ' $a$ ' से व्यक्त करें। साथ ही, अपने परिकलन कार्य को और अधिक कम करने के लिए, हम ' $a$ ' को ऐसा  $x_i$  ले सकते हैं जो  $x_1, x_2, \dots, x_n$  के मध्य में कहीं आता हो। अतः, हम  $a = 47.5$  या  $a = 62.5$  चुन सकते हैं। आइए  $a = 47.5$  चुनें।

अगला चरण है कि  $a$  और प्रत्येक  $x_i$  के बीच का अंतर  $d_i$  ज्ञात किया जाए, अर्थात् प्रत्येक  $x_i$  से ' $a$ ' का विचलन (*deviation*) ज्ञात किया जाए।

अर्थात्

$$\begin{aligned} d_i &= x_i - a \\ &= x_i - 47.5 \end{aligned}$$

तीसरा चरण है कि प्रत्येक  $d_i$  और उसके संगत  $f_i$  का गुणनफल ज्ञात करके सभी  $f_i d_i$  का योग ज्ञात किया जाए। ये परिकलन सारणी 13.4 में दर्शाए गए हैं।

## सारणी 13.4

वर्ग अंतराल	विद्यार्थियों की संख्या ( $f_i$ )	वर्ग चिह्न ( $x_i$ )	$d_i = x_i - 47.5$	$f_i d_i$
10 - 25	2	17.5	-30	-60
25 - 40	3	32.5	-15	-45
40 - 55	7	47.5	0	0
55 - 70	6	62.5	15	90
70 - 85	6	77.5	30	180
85 - 100	6	92.5	45	270
योग	$\sum f_i = 30$			$\sum f_i d_i = 435$

अतः, सारणी 13.4 से, विचलनों का माध्य  $\bar{d} = \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$

आइए, अब  $\bar{d}$  और  $\bar{x}$  में संबंध ज्ञात करने का प्रयत्न करें।

चूंकि  $d_i$  ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्येक  $x_i$  में से  $a$  को घटाया है, इसलिए माध्य  $\bar{x}$  ज्ञात करने के लिए, हम  $\bar{d}$  में  $a$  जोड़ते हैं। इसे गणितीय रूप से, नीचे दर्शाए अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है :

$$\text{विचलनों का माध्य} \quad \bar{d} = \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$$

$$\text{अतः} \quad \bar{d} = \frac{\sum f_i (x_i - a)}{\sum f_i}$$

$$= \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} - \frac{\sum f_i a}{\sum f_i}$$

$$= \bar{x} - a \frac{\sum f_i}{\sum f_i}$$

$$= \bar{x} - a$$

$$\text{अतः} \quad \bar{x} = a + \bar{d}$$

$$\text{अर्थात्} \quad \bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$$

अब सारणी 13.4 से,  $a$ ,  $\sum f_i d_i$  और  $\sum f_i$  के मान रखने पर, हमें प्राप्त होता है

$$\bar{x} = 47.5 + \frac{435}{30} = 47.5 + 14.5 = 62$$

अतः, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 62 है।

माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि **कल्पित माध्य विधि (assumed mean method)** कहलाती है।

**क्रियाकलाप 1 :** सारणी 13.3 से, प्रत्येक  $x_i$  (17.5, 32.5, इत्यादि) को 'a' मानकर माध्य परिकलित कीजिए। आप क्या देखते हैं? आप पाएँगे कि प्रत्येक स्थिति में माध्य एक ही, अर्थात् 62 आता है। (क्यों?)

अतः, हम यह कह सकते हैं कि प्राप्त किए गए माध्य का मान चुने हुए 'a' के मान पर निर्भर नहीं करता।

ध्यान दीजिए कि सारणी 13.4 के स्तंभ में दिए सभी मान 15 के गुणज (multiples) हैं। अतः, यदि हम स्तंभ 4 के सभी मानों को 15 से भाग दे दें, तो हमें  $f_i$  से गुणा करने के लिए छोटी संख्याएँ प्राप्त हो जाएँगी। [यहाँ 15, प्रत्येक वर्ग अंतराल की वर्ग माप (साइज) है।]

अतः, आइए मान लें कि  $u_i = \frac{x_i - a}{h}$  है, जहाँ  $a$  कल्पित माध्य है और  $h$  वर्गमाप है।

अब हम सभी  $u_i$  परिकलित करते हैं और पहले की तरह ही प्रक्रिया जारी रखते हैं (अर्थात्  $f_i u_i$  ज्ञात करते हैं और फिर  $\sum f_i u_i$  ज्ञात करते हैं। आइए  $h = 15$  लेकर, सारणी 13.5 बनाएँ।

### सारणी 13.5

वर्ग अंतराल	$f_i$	$x_i$	$d_i = x_i - a$	$u_i = \frac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
10 - 25	2	17.5	-30	-2	-4
25 - 40	3	32.5	-15	-1	-3
40 - 55	7	47.5	0	0	0
55 - 70	6	62.5	15	1	6
70 - 85	6	77.5	30	2	12
85 - 100	6	92.5	45	3	18
योग	$\sum f_i = 30$				$\sum f_i u_i = 29$

मान लीजिए

$$\bar{u} = \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \text{ है।}$$

यहाँ भी हम  $\bar{u}$  और  $\bar{x}$  में संबंध ज्ञात करेंगे।

हमें प्राप्त है

$$u_i = \frac{x_i - a}{h}$$

अतः

$$\begin{aligned}\bar{u} &= \frac{\sum f_i \frac{(x_i - a)}{h}}{\sum f_i} = \frac{1}{h} \left[ \frac{\sum f_i x_i - a \sum f_i}{\sum f_i} \right] \\ &= \frac{1}{h} \left[ \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} - a \frac{\sum f_i}{\sum f_i} \right] \\ &= \frac{1}{h} [\bar{x} - a]\end{aligned}$$

या

$$h\bar{u} = \bar{x} - a$$

अर्थात्

$$\bar{x} = a + h\bar{u}$$

अतः

$$\bar{x} = a + h \left( \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \right)$$

अब, सारणी 14.5 से  $a, h, \sum f_i u_i$  और  $\sum f_i$  के मान प्रतिस्थापित करने पर, हमें प्राप्त होता है:

$$\bar{x} = 47.5 + 15 \times \left( \frac{29}{30} \right)$$

$$= 47.5 + 14.5 = 62$$

अतः, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया माध्य अंक 62 है।

माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि पग-विचलन विधि (step deviation method) कहलाती है।

ध्यान दीजिए कि

- पग-विचलन विधि तभी सुविधाजनक होगी, जबकि सभी  $d_i$  में कोई सार्व गुणनखंड है।
- तीनों विधियों से प्राप्त माध्य एक ही है।

- कल्पित माध्य विधि और पग-विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप हैं।
- सूत्र  $\bar{x} = a + h\bar{u}$  का तब भी प्रयोग किया जा सकता है, जबकि  $a$  और  $h$  ऊपर दी हुई संख्याओं की भाँति न हों, बल्कि वे शून्य के अतिरिक्त ऐसी वास्तविक संख्याएँ हों ताकि  $u_i = \frac{x_i - a}{h}$  हो।

आइए इन विधियों का प्रयोग एक अन्य उदाहरण से करें।

**उदाहरण 2 :** नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों (union territories) के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में, महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

महिला शिक्षकों का प्रतिशत	15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85
राज्यों/संघीय क्षेत्रों की संख्या	6	11	7	4	4	2	1

(स्रोत : एन.सी.ई.आर.टी द्वारा किया गया सातवाँ अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वे)

**हल :** आइए प्रत्येक वर्ग अंतराल का  $x_i$  ज्ञात करें और उन्हें एक स्तंभ में रखें (देखिए सारणी 13.6)।

### सारणी 13.6

महिला शिक्षकों का प्रतिशत	राज्यों/संघीय क्षेत्रों की संख्या ( $f_i$ )	$x_i$
15 - 25	6	20
25 - 35	11	30
35 - 45	7	40
45 - 55	4	50
55 - 65	4	60
65 - 75	2	70
75 - 85	1	80

यहाँ, हम  $a = 50$ ,  $h = 10$ , लेते हैं। तब  $d_i = x_i - 50$  और  $u_i = \frac{x_i - 50}{10}$  होगा।

अब हम  $d_i$  और  $u_i$  ज्ञात करते हैं और इन्हें सारणी 13.7 में रखते हैं।

### सारणी 13.7

महिला शिक्षकों का प्रतिशत	राज्यों/संघीय क्षेत्रों की संख्या ( $f_i$ )	$x_i$	$d_i = x_i - 50$	$u_i = \frac{x_i - 50}{10}$	$f_i x_i$	$f_i d_i$	$f_i u_i$
15 - 25	6	20	-30	-3	120	-180	-18
25 - 35	11	30	-20	-2	330	-220	-22
35 - 45	7	40	-10	-1	280	-70	-7
45 - 55	4	50	0	0	200	0	0
55 - 65	4	60	10	1	240	40	4
65 - 75	2	70	20	2	140	40	4
75 - 85	1	80	30	3	80	30	3
योग	35				1390	-360	-36

उपरोक्त सारणी से, हमें  $\sum f_i = 35$ ,  $\sum f_i x_i = 1390$ ,  $\sum f_i d_i = -360$ ,  $\sum f_i u_i = -36$  प्राप्त होता है।

प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने से,  $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{1390}{35} = 39.71$

कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने से,

$$\bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i} = 50 + \frac{(-360)}{35} = 39.71$$

पग-विचलन विधि के प्रयोग से,

$$\bar{x} = a + \left( \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \right) \times h = 50 + \left( \frac{-36}{35} \right) \times 10 = 39.71$$

अतः, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत 39.71 है।

**टिप्पणी :** सभी तीनों विधियों से प्राप्त परिणाम एक ही समान है। अतः, माध्य ज्ञात करने की विधि चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि  $x_i$  और  $f_i$  के मान क्या हैं। यदि  $x_i$  और  $f_i$  पर्याप्त रूप से छोटे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि ही उपयुक्त रहती है। यदि  $x_i$  और  $f_i$  के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं, तो हम कल्पित माध्य विधि या पग-विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वर्गमाप असमान हैं और  $x_i$  संख्यात्मक रूप से बड़े हैं, तो भी हम सभी  $d_i$  का एक उपयुक्त सर्वनिष्ठ गुणनखंड  $h$  लेकर, पग-विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं।

**उदाहरण 3 :** नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में, गेंदबाज़ों द्वारा लिए गए विकिटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए, लिए गए विकिटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है?

विकिटों की संख्या	20 - 60	60 - 100	100 - 150	150 - 250	250 - 350	350 - 450
गेंदबाज़ों की संख्या	7	5	16	12	2	3

**हल :** यहाँ वर्ग माप भिन्न-भिन्न हैं तथा  $x_i$  संख्यात्मक रूप से बड़े हैं। आइए  $a = 200$  और  $h = 20$  लेकर पग-विचलन विधि का प्रयोग करें। तब, हम सारणी 13.8 में दर्शाए अनुसार आँकड़े प्राप्त करते हैं:

### सारणी 13.8

लिए गए विकिटों की संख्या	गेंदबाज़ों की संख्या ( $f_i$ )	$x_i$	$d_i = x_i - 200$	$u_i = \frac{d_i}{20}$	$u_i f_i$
20 - 60	7	40	-160	-8	-56
60 - 100	5	80	-120	-6	-30
100 - 150	16	125	-75	-3.75	-60
150 - 250	12	200	0	0	0
250 - 350	2	300	100	5	10
350 - 450	3	400	200	10	30
<b>योग</b>	<b>45</b>				<b>-106</b>

अतः,  $\bar{u} = \frac{-106}{45}$  है। इसलिए,  $\bar{x} = 200 + 20\left(\frac{-106}{45}\right) = 200 - 47.11 = 152.89$  है।

यह हमें बताता है कि उपरोक्त 45 गेंदबाज़ों ने एकदिवसीय क्रिकेट मैचों में 152.89 की औसत से विकिट लिए हैं।

आइए देखें कि इस अनुच्छेद में पढ़ी अवधारणाओं को आप किस प्रकार अनुप्रयोग कर सकते हैं।

### क्रियाकलाप 2 :

अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को तीन समूहों में बाँटिए और प्रत्येक समूह से निम्नलिखित में से एक क्रियाकलाप करने को कहिए :

1. आपके स्कूल द्वारा हाल ही में ली गई परीक्षा में, अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक एकत्रित कीजिए। इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए।
2. अपने शहर में 30 दिन का रिकॉर्ड किए गए दैनिक अधिकतम तापमान एकत्रित कीजिए। इन आँकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए।
3. अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊँचाइयाँ (cm में) मापिए और उनका एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए।

जब सभी समूह आँकड़े एकत्रित करके उनकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणियाँ बनालें, तब प्रत्येक समूह से अपने बारंबारता बंटन का माध्य निकालने को कहिए। इसमें वे जो विधि उपयुक्त समझें उसका प्रयोग करें।

### प्रश्नावली 13.1

1. विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आँकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए।

पौधों की संख्या	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14
घरों की संख्या	1	2	1	5	6	2	3

माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों?

2. किसी फैक्टरी के 50 श्रमिकों की दैनिक मज़दूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए :

दैनिक मज़दूरी (रुपयों में)	500-520	520-540	540-560	560-580	580-600
श्रमिकों की संख्या	12	14	8	6	10

एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मज़दूरी ज्ञात कीजिए।

3. निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेबखर्च दर्शाता है। माध्य जेबखर्च ₹ 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए :

दैनिक जेब भत्ता (रुपयों में)	11 - 13	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25
बच्चों की संख्या	7	6	9	13	f	5	4

4. किसी अस्पताल में, एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन (beat) की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार सॉक्षिप्ट रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए :

हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या	65 - 68	68 - 71	71 - 74	74 - 77	77 - 80	80 - 83	83 - 86
महिलाओं की संख्या	2	4	3	8	7	4	2

5. किसी फुटकर बाज़ार में, फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएँ भिन्न-भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार, आमों का बंटन निम्नलिखित था :

आमों की संख्या	50 - 52	53 - 55	56 - 58	59 - 61	62 - 64
पेटियों की संख्या	15	110	135	115	25

एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है?

6. निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है :

दैनिक व्यय (रुपयों में)	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350
परिवारों की संख्या	4	5	12	2	2

एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यव ज्ञात कीजिए।

7. वायु में सल्फर डाई-ऑक्साइड ( $\text{SO}_2$ ) की सांद्रता (भाग प्रति मिलियन में) को ज्ञात करने के लिए, एक नगर के 30 मोहल्लों से आँकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है :

$\text{SO}_2$ की सांद्रता	बारंबारता
0.00 - 0.04	4
0.04 - 0.08	9
0.08 - 0.12	9
0.12 - 0.16	2
0.16 - 0.20	4
0.20 - 0.24	2

वायु में  $\text{SO}_2$  की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए।

8. किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड (record) की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए :

दिनों की संख्या	0 - 6	6 - 10	10 - 14	14 - 20	20 - 28	28 - 38	38 - 40
विद्यार्थियों की संख्या	11	10	7	4	4	3	1

9. निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर (प्रतिशत में) दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए :

साक्षरता दर (% में)	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 - 95
नगरों की संख्या	3	10	11	8	3

### 13.3 वर्गीकृत आँकड़ों का बहुलक

कक्षा IX से याद कीजिए कि बहुलक (mode) दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात् उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। साथ ही, हमने अवर्गीकृत आँकड़ों के बहुलक ज्ञात करने की भी चर्चा कक्षा IX में की थी। यहाँ, हम वर्गीकृत आँकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। यह संभव है कि एक

से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में, आँकड़ों को बहुबहुलकीय (*multi modal*) आँकड़े कहा जाता है। यद्यपि, वर्गीकृत आँकड़े भी बहुबहुलकीय हो सकते हैं, परंतु हम अपनी चर्चा को केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं तक ही सीमित रखेंगे।

आइए पहले एक उदाहरण की सहायता से यह याद करें कि अवर्गीकृत आँकड़ों का बहुलक हमने किस प्रकार ज्ञात किया था।

**उदाहरण 4 :** किसी गेंदबाज़ द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकिटों की संख्याएँ निम्नलिखित हैं :

2      6      4      5      0      2      1      3      2      3

इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

**हल :** आइए उपरोक्त आँकड़ों के लिए, एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएँ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

विकिटों की संख्या	0	1	2	3	4	5	6
क्रिकेट मैचों की संख्या	1	1	3	2	1	1	1

स्पष्ट है कि गेंदबाज़ ने अधिकतम मैचों (3) में 2 विकिट लिए हैं। अतः, इन आँकड़ों का बहुलक 2 है।

एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ, हम केवल वह वर्ग (class) ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग (**modal class**) कहते हैं। बहुलक इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है, जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है :

$$\text{बहुलक} = l + \left( \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

जहाँ  $l$  = बहुलक वर्ग की निम्न (निचली) सीमा

$h$  = वर्ग अंतराल की माप (यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं)

$f_1$  = बहुलक वर्ग की बारंबारता

$f_0$  = बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तथा

$f_2$  = बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है।

इस सूत्र का प्रयोग दर्शाने के लिए, आइए एक उदाहरण लें।

**उदाहरण 5 :** विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हुए :

परिवार माप	1 - 3	3 - 5	5 - 7	7 - 9	9 - 11
परिवारों की संख्या	7	8	2	2	1

इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

**हल :** यहाँ, अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 3-5 है। अतः, बहुलक वर्ग 3-5 है।

अब,

बहुलक वर्ग = 3 - 5, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ( $l$ ) = 3 तथा वर्ग माप ( $h$ ) = 2 है।

बहुलक वर्ग की बारंबारता ( $f_1$ ) = 8

बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ( $f_0$ ) = 7 तथा

बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता ( $f_2$ ) = 2 है।

आइए इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करें। हमें प्राप्त होता है :

$$\begin{aligned} \text{बहुलक} &= l + \left( \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h \\ &= 3 + \left( \frac{8 - 7}{2 \times 8 - 7 - 2} \right) \times 2 = 3 + \frac{2}{7} = 3.286 \end{aligned}$$

अतः, उपरोक्त आँकड़ों का बहुलक 3.286 है।

**उदाहरण 6 :** गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। साथ ही, बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए।

**हल :** उदाहरण 1 की सारणी 13.3 को देखिए। चूँकि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या (7) वाला अंतराल 40-55 है, इसलिए बहुलक वर्ग 40-55 है। अतः,

बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ( $l$ ) = 40 है,

वर्ग माप ( $h$ ) = 15 है,

बहुलक वर्ग की बारंबारता ( $f_1$ ) = 7 है,

बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता ( $f_0$ ) = 3 है,

तथा बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता ( $f_2$ ) = 6 है।

अब, सूत्र का प्रयोग करने पर, हमें प्राप्त होता है :

$$\begin{aligned}\text{बहुलक} &= l + \left( \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h \\ &= 40 + \left( \frac{7 - 3}{14 - 6 - 3} \right) \times 15 = 52\end{aligned}$$

अतः, बहुलक अंक 52 है।

अब, उदाहरण 1 से आप जानते हैं कि माध्य अंक 62 है।

अतः, अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने 62 अंक प्राप्त किए हैं।

### टिप्पणी :

1. उदाहरण 6 में, बहुलक माध्य से छोटा है। परंतु किन्हीं और समस्याओं (प्रश्नों) के लिए यह माध्य के बराबर या उससे बड़ा भी हो सकता है।

2. यह स्थिति की माँग पर निर्भर करता है कि हमारी रुचि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों में है या फिर अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों में है। पहली स्थिति में, माध्य की आवश्यकता होगी तथा दूसरी स्थिति में बहुलक की आवश्यकता होगी।

**क्रियाकलाप 3 :** क्रियाकलाप 2 में बनाए गए समूहों और उनको निर्दिष्ट किए कार्यों के साथ क्रियाकलाप जारी रखिए। प्रत्येक समूह से आँकड़ों का बहुलक ज्ञात करने को कहिए। उनसे इसकी तुलना माध्य से करने को कहिए तथा दोनों के अर्थों की व्याख्या करने को कहिए।

**टिप्पणी :** असमान वर्ग मापों वाले वर्गोंकृत आँकड़ों का बहुलक भी परिकलित किया जा सकता है। परंतु यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे।

### प्रश्नावली 13.2

1. निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है :

<b>आयु (वर्षों में)</b>	5 - 15	15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65
<b>रोगियों की संख्या</b>	6	11	21	23	14	5

उपरोक्त आँकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए।

2. निम्नलिखित आँकड़े, 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल (घंटों में) की सूचना देते हैं :

<b>जीवनकाल (घंटों में)</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100	100 - 120
<b>बारंबारता</b>	10	35	52	61	38	29

उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए।

3. निम्नलिखित आँकड़े किसी गाँव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए।

<b>व्यय (₹ में)</b>	<b>परिवारों की संख्या</b>
1000 - 1500	24
1500 - 2000	40
2000 - 2500	33
2500 - 3000	28
3000 - 3500	30
3500 - 4000	22
4000 - 4500	16
4500 - 5000	7

4. निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, राज्यों के अनुसार, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आँकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए।

प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्रों की संख्या
15 - 20	3
20 - 25	8
25 - 30	9
30 - 35	10
35 - 40	3
40 - 45	0
45 - 50	0
50 - 55	2

5. दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज़ों द्वारा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है :

बनाए गए रन	बल्लेबाज़ों की संख्या
3000 - 4000	4
4000 - 5000	18
5000 - 6000	9
6000 - 7000	7
7000 - 8000	6
8000 - 9000	3
9000 - 10,000	1
10,000 - 11,000	1

इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

6. एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएँ नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

कारों की संख्या	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
बारंबारता	7	14	13	12	20	11	15	8

### 13.4 अर्गेंटूत आँकड़ों का माध्यक

जैसाकि आप कक्षा IX में पढ़ चुके हैं, माध्यक (median) केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है, जो आँकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। याद कीजिए कि अर्गेंटूत आँकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए, पहले हम प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब, यदि  $n$  विषम है, तो माध्यक  $\left(\frac{n+1}{2}\right)$  वें प्रेक्षण का मान होता है। यदि  $n$  सम है, तो माध्यक  $\frac{n}{2}$  वें और  $\frac{n}{2} + 1$  वें प्रेक्षणों के मानों का औसत (माध्य) होता है।

माना, हमें निम्नलिखित आँकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है जो एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक देते हैं।

प्राप्तांक	20	29	28	33	42	38	43	25
विद्यार्थियों की संख्या	6	28	24	15	2	4	1	20

पहले प्राप्त अंकों का आरोही क्रम तैयार करें और बारंबारता सारणी को निम्न प्रकार से बनाएँ।

सारणी 13.9

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता
20	6
25	20
28	24
29	28
33	15
38	4
42	2
43	1
योग	100

यहाँ  $n = 100$  है जो सम संख्या है। माध्यक प्रेक्षण  $\frac{n}{2}$  वें तथा  $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$  वें प्रेक्षण का औसत होगा। अर्थात् 50वें तथा 51वें प्रेक्षणों का औसत। इन प्रेक्षणों को ज्ञात करने के लिए, हम निम्न प्रकार बढ़ते हैं।

### सारणी 13.10

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या
20	6
25 तक	$6 + 20 = 26$
28 तक	$26 + 24 = 50$
29 तक	$50 + 28 = 78$
33 तक	$78 + 15 = 93$
38 तक	$93 + 4 = 97$
42 तक	$97 + 2 = 99$
43 तक	$99 + 1 = 100$

अब हम इस सूचना को दर्शाता एक नया स्तंभ उपरोक्त बारंबारता सारणी में जोड़ते हैं तथा उसे संचयी बारंबारता स्तंभ का नाम देते हैं।

### सारणी 13.11

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या	संचयी बारंबारता
20	6	6
25	20	26
28	24	50
29	28	78
33	15	93
38	4	97
42	2	99
43	1	100

उपरोक्त सारणी से हम पाते हैं:

$$\begin{array}{ll} \text{50वाँ प्रेक्षण } 28 \text{ है} & (\text{क्यों?}) \\ \text{51वाँ प्रेक्षण } 29 \text{ है} & \\ \text{इसलिए, माध्यक} = \frac{28 + 29}{2} = 28.5 & \end{array}$$

**टिप्पणी :** सारणी 13.11 के भाग में सम्मिलित स्तंभ 1 और 3 संचयी बारंबारता सारणी के नाम से जाना जाता है। माध्यक अंक 28.5 सूचित करता है कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 28.5 से कम अंक और दूसरे अन्य 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 28.5 से अधिक अंक प्राप्त किए।

आइए देखें कि निम्नलिखित स्थिति में समूहित आँकड़े का माध्यक कैसे प्राप्त करते हैं।

निमानुसार एक निश्चित परीक्षा में 100 में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समूहित बारंबारता बंटन पर विचार करें।

### सारणी 13.12

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या
0 - 10	5
10 - 20	3
20 - 30	4
30 - 40	3
40 - 50	3
50 - 60	4
60 - 70	7
70 - 80	9
80 - 90	7
90 - 100	8

उपरोक्त सारणी से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें।

कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं? स्पष्टतया, उत्तर 5 है।

कितने विद्यार्थियों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं? ध्यान दीजिए कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में वे विद्यार्थी सम्मिलित हैं, जिन्होंने वर्ग 0 - 10 में अंक प्राप्त किए हैं और वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने वर्ग 10 - 20 में अंक प्राप्त किए हैं। अतः, 20

से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या  $5 + 3$  अर्थात्  $8$  है। हम कहते हैं कि वर्ग  $10 - 20$  की संचयी बारंबारता (*cumulative frequency*)  $8$  है।

इसी प्रकार, हम अन्य वर्गों की संचयी बारंबारताएँ भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात् हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि  $30$  से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं,  $40$  से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, ...,  $100$  से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। हम इन्हें नीचे एक सारणी 13.13 के रूप में दे रहे हैं :

### सारणी 13.13

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या (संचयी बारंबारता)
10 से कम	$5$
20 से कम	$5 + 3 = 8$
30 से कम	$8 + 4 = 12$
40 से कम	$12 + 3 = 15$
50 से कम	$15 + 3 = 18$
60 से कम	$18 + 4 = 22$
70 से कम	$22 + 7 = 29$
80 से कम	$29 + 9 = 38$
90 से कम	$38 + 7 = 45$
100 से कम	$45 + 8 = 53$

उपरोक्त बंटन से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। यहाँ  $10, 20, 30, \dots 100$ , संगत वर्ग अंतरालों की उपरि सीमाएँ हैं।

हम इसी प्रकार उन विद्यार्थियों की संख्याओं के लिए भी जिन्होंने  $0$  से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं,  $10$  से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं,  $20$  से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं, इत्यादि के लिए एक सारणी बना सकते हैं। सारणी 13.12 से हम देख सकते हैं कि सभी  $53$  विद्यार्थियों ने  $0$  से अधिक या  $0$  के बराबर अंक प्राप्त किए हैं। चूँकि अंतराल  $0 - 10$  में  $5$  विद्यार्थी हैं, इसलिए  $53 - 5 = 48$  विद्यार्थियों ने  $10$  से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम  $20$  से अधिक या उसके बराबर  $48 - 3 = 45$ ,  $30$  से अधिक या उसके बराबर  $45 - 4 = 41$ , इत्यादि विद्यार्थी प्राप्त करते हैं, जिन्हें सारणी 13.14 में दर्शाया गया है।

## सारणी 13.14

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या (संचयी बारंबारता)
0 से अधिक या उसके बराबर	53
10 से अधिक या उसके बराबर	$53 - 5 = 48$
20 से अधिक या उसके बराबर	$48 - 3 = 45$
30 से अधिक या उसके बराबर	$45 - 4 = 41$
40 से अधिक या उसके बराबर	$41 - 3 = 38$
50 से अधिक या उसके बराबर	$38 - 3 = 35$
60 से अधिक या उसके बराबर	$35 - 4 = 31$
70 से अधिक या उसके बराबर	$31 - 7 = 24$
80 से अधिक या उसके बराबर	$24 - 9 = 15$
90 से अधिक या उसके बराबर	$15 - 7 = 8$

उपरोक्त सारणी या बंटन अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। यहाँ 0, 10, 20, ..., 90 संगत वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएँ हैं।

अब, वर्गीकृत आँकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए, हम उपरोक्त दोनों प्रकार के संचयी बारंबारता बंटनों में से किसी बंटन का प्रयोग कर सकते हैं।

हम सारणी 13.12 और सारणी 13.13 को मिलाकर एक नयी सारणी 13.15 बना लें जो नीचे दी गई है :

## सारणी 13.15

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या ( $f$ )	संचयी बारंबारता (cf)
0 - 10	5	5
10 - 20	3	8
20 - 30	4	12
30 - 40	3	15
40 - 50	3	18
50 - 60	4	22
60 - 70	7	29
70 - 80	9	38
80 - 90	7	45
90 - 100	8	53

अब, वर्गीकृत आँकड़ों के सबसे मध्य के प्रेक्षण को हम केवल संचयी बारंबारताएँ देख कर ही नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि सबसे मध्य का प्रेक्षण किसी अंतराल में होगा। अतः, यह आवश्यक है कि इस मध्य प्रेक्षण को उस वर्ग अंतराल में खोजा जाए, जो आँकड़ों को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। परंतु यह वर्ग अंतराल कौन-सा है?

इस अंतराल को ज्ञात करने के लिए, हम सभी वर्गों की संचयी बारंबारताएँ और  $\frac{n}{2}$  ज्ञात करते हैं। अब, हम वह वर्ग खोजते हैं जिसकी संचयी बारंबारता  $\frac{n}{2}$  से अधिक और उसके निकटतम है। इस वर्ग को माध्यक वर्ग (*median class*) कहते हैं। उपरोक्त बंटन में,  $n = 53$  है। अतः,  $\frac{n}{2} = 26.5$  हुआ। अब, 60 - 70 ही वह वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता 29,

$\frac{n}{2}$  अर्थात् 26.5 से अधिक और उसके निकटतम है।

अतः, 60 - 70 माध्यक वर्ग है।

माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद, हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करते हैं :

$$\text{माध्यक} = l + \left( \frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \right) \times h,$$

जहाँ  $l$  = माध्यक वर्ग की निम्न सीमा

$n$  = प्रेक्षणों की संख्या

$cf$  = माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता

$f$  = माध्यक वर्ग की बारंबारता

$h$  = वर्ग माप (यह मानते हुए कि वर्ग माप बराबर हैं)

अब  $\frac{n}{2} = 26.5$ ,  $l = 60$ ,  $cf = 22$ ,  $f = 7$ ,  $h = 10$

को सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर, हमें प्राप्त होता है :

$$\begin{aligned} \text{माध्यक} &= 60 + \left( \frac{26.5 - 22}{7} \right) \times 10 = 60 + \frac{45}{7} \\ &= 66.4 \end{aligned}$$

अतः, लगभग आधे विद्यार्थियों ने 66.4 से कम अंक प्राप्त किए हैं और शेष आधे विद्यार्थियों ने 66.4 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं।

**उदाहरण 7 :** किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊँचाईयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त किए गए:

ऊँचाई (cm में)	लड़कियों की संख्या
140 से कम	4
145 से कम	11
150 से कम	29
155 से कम	40
160 से कम	46
165 से कम	51

माध्यक ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :** माध्यक ऊँचाई ज्ञात करने के लिए, हमें वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारताओं की आवश्यकता है।

चूँकि दिया हुआ बंटन कम प्रकार का है, इसलिए हमें वर्ग अंतरालों की उपरि सीमाएँ 140, 145, 150, ..., 165 प्राप्त होती हैं तथा इनके संगत वर्ग अंतराल क्रमशः: 140 से कम, 140-145, 145-150, ..., 160-165 हैं। दिए हुए बंटन से, हम देखते हैं कि ऐसी 4 लड़कियाँ हैं जिनकी ऊँचाई 140 से कम है, अर्थात् वर्ग अंतराल 140 से कम की बारंबारता 4 है। अब 145 cm से कम ऊँचाई वाली 11 लड़कियाँ हैं और 140 cm से कम ऊँचाई वाली 4 लड़कियाँ हैं। अतः, अंतराल 140 - 145 में ऊँचाई रखने वाली लड़कियों की संख्या  $11 - 4 = 7$  होगी। अर्थात् वर्ग अंतराल 140 - 145 की बारंबारता 7 है। इसी प्रकार, 145 - 150 की बारंबारता  $29 - 11 = 18$  है, 150 - 155 की बारंबारता  $40 - 29 = 11$  है, इत्यादि। अतः संचयी बारंबारताओं के साथ हमारी बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित रूप की हो जाती है:

### सारणी 13.16

वर्ग अंतराल	बारंबारता	संचयी बारंबारता
140 से कम	4	4
140 - 145	7	11
145 - 150	18	29
150 - 155	11	40
155 - 160	6	46
160 - 165	5	51

अब  $n = 51$  है। अतः,  $\frac{n}{2} = \frac{51}{2} = 25.5$  है। यह प्रेक्षण अंतराल 145 - 150 में आता है। तब,

$$l \text{ (निम्न सीमा)} = 145,$$

माध्यक वर्ग 145 - 150 के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता (cf) = 11,  
माध्यक वर्ग 145 - 150 की बारंबारता  $f = 18$  तथा वर्ग माप  $h = 5$  है।

$$\text{सूत्र, माध्यक} = l + \left( \frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \right) \times h \text{ का प्रयोग करने पर, हमें प्राप्त होता है :}$$

$$\begin{aligned}\text{माध्यक} &= 145 + \left( \frac{25.5 - 11}{18} \right) \times 5 \\ &= 145 + \frac{72.5}{18} = 149.03\end{aligned}$$

अतः, लड़कियों की माध्यक ऊँचाई 149.03 cm है।

इसका अर्थ है कि लगभग 50% लड़कियों की ऊँचाईयाँ 149.03 cm से कम या उसके बराबर हैं तथा शेष 50% की ऊँचाईयाँ 149.03 cm से अधिक हैं।

**उदाहरण 8 :** निम्नलिखित आँकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, तो  $x$  और  $y$  का मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग अंतराल	बारंबारता
0 - 100	2
100 - 200	5
200 - 300	$x$
300 - 400	12
400 - 500	17
500 - 600	20
600 - 700	$y$
700 - 800	9
800 - 900	7
900 - 1000	4

हल :

वर्ग अंतराल	बारंबारता	संचयी बारंबारता
0 - 100	2	2
100 - 200	5	7
200 - 300	$x$	$7 + x$
300 - 400	12	$19 + x$
400 - 500	17	$36 + x$
500 - 600	20	$56 + x$
600 - 700	$y$	$56 + x + y$
700 - 800	9	$65 + x + y$
800 - 900	7	$72 + x + y$
900 - 1000	4	$76 + x + y$

यह दिया है कि  $n = 100$  है।

$$\text{अतः, } 76 + x + y = 100 \quad \text{अर्थात् } x + y = 24 \quad (1)$$

माध्यक 525 है, जो वर्ग 500-600 में स्थित है।

$$\text{अतः, } l = 500, \quad f = 20, \quad cf = 36 + x, \quad h = 100 \text{ है।}$$

सूत्र                  माध्यक =  $l + \left( \frac{\frac{n}{f} - cf}{f} \right) h$ , का प्रयोग करने पर, हमें प्राप्त होता है :

$$525 = 500 + \left( \frac{50 - 36 - x}{20} \right) \times 100$$

$$\text{या} \quad 525 - 500 = (14 - x) \times 5$$

$$\text{या} \quad 25 = 70 - 5x$$

$$\text{या} \quad 5x = 70 - 25 = 45$$

$$\text{अतः} \quad x = 9$$

इसलिए (1) से हमें प्राप्त होता है कि  $9 + y = 24$

अर्थात्

$$y = 15$$

अब जब हमने तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का अध्ययन कर लिया है, तो आइए इस बात की चर्चा करें कि एक विशिष्ट आवश्यकता के लिए, कौन-सा मापक अधिक उपयुक्त रहेगा।

केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक माध्य है, क्योंकि यह सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है तथा दोनों चरम मानों के बीच में स्थित होता है। अर्थात्, यह संपूर्ण आँकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। यह हमें दो या अधिक दिए हुए बंटनों की तुलना करने में भी सहायक है। उदाहरणार्थ, किसी परीक्षा में, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के औसत (माध्य) की तुलना करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस स्कूल का प्रदर्शन बेहतर रहा।

परंतु आँकड़ों के चरम मान माध्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरणार्थ, लगभग एक-सी बारंबारताओं वाले वर्गों का माध्य दिए हुए आँकड़ों का एक अच्छा प्रतिनिधि होगा। परंतु यदि एक वर्ग की बारंबारता मान लीजिए 2 हो और शेष पाँच वर्गों की बारंबारताएँ 20, 25, 20, 21 और 18 हों, तो इनका माध्य आँकड़ों का सही प्रतिबिंब प्रदान नहीं करेगा। अतः ऐसी स्थितियों के लिए, माध्य आँकड़ों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

उन समस्याओं में, जहाँ व्यक्तिगत प्रेक्षण महत्वपूर्ण नहीं होते और हम एक 'प्रतीकात्मक' (typical) प्रेक्षण ज्ञात करना चाहते हैं, तो माध्यक अधिक उपयुक्त रहता है। उदाहरणार्थ, किसी राष्ट्र के श्रमिकों की प्रतीकात्मक उत्पादकता दर, औसत मजदूरी, इत्यादि के लिए माध्यक एक उपयुक्त मापक रहता है। ये ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें चरम (अर्थात् बहुत बड़े या बहुत छोटे) मान संबद्ध हो सकते हैं। अतः, इन स्थितियों में, हम माध्य के स्थान पर, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक माध्यक लेते हैं।

ऐसी स्थितियों में, जहाँ अधिकतर आने वाला मान स्थापित करना हो या सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो, तो बहुलक सबसे अधिक अच्छा विकल्प होता है। उदाहरणार्थ, सबसे अधिक देखे जाने वाला लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम ज्ञात करने, उस उपभोक्ता वस्तु को ज्ञात करने, जिसकी माँग सबसे अधिक है, लोगों द्वारा वाहनों का सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला रंग ज्ञात करने, इत्यादि में बहुलक उपयुक्त मापक है।

### टिप्पणियाँ :

1. इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है, जो निम्नलिखित है:

$$3 \text{ माध्यक} = \text{बहुलक} + 2 \text{ माध्य}$$

2. असमान वर्गमापों वाले वर्गीकृत आँकड़ों के माध्यक भी परिकलित किए जा सकते हैं। परंतु यहाँ हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे।

### प्रश्नावली 13.3

- निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आँकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए।

मासिक खपत (इकाइयों में)	उपभोक्ताओं की संख्या
65 - 85	4
85 - 105	5
105 - 125	13
125 - 145	20
145 - 165	14
165 - 185	8
185 - 205	4

- यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक  $28.5$  हो तो  $x$  और  $y$  के मान ज्ञात कीजिए :

वर्ग अंतराल	बारंबारता
0 - 10	5
10 - 20	$x$
20 - 30	20
30 - 40	15
40 - 50	$y$
50 - 60	5
योग	60

- एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आँकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो।

आयु (वर्षों में)	पॉलिसी धारकों की संख्या
20 से कम	2
25 से कम	6
30 से कम	24
35 से कम	45
40 से कम	78
45 से कम	89
50 से कम	92
55 से कम	98
60 से कम	100

4. एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाईयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आँकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है :

लंबाई (mm में)	पत्तियों की संख्या
118 - 126	3
127 - 135	5
136 - 144	9
145 - 153	12
154 - 162	5
163 - 171	4
172 - 180	2

पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए।

**संकेत :** माध्यक ज्ञात करने के लिए, आँकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 117.5 - 126.5, 126.5 - 135.5, . . . , 171.5 - 180.5 में बदल जाते हैं।

5. निम्नलिखित सारणी 400 नियाँन लैंपों के जीवन कालों (life time) को प्रदर्शित करती है :

जीवन काल (घंटों में)	लैंपों की संख्या
1500 - 2000	14
2000 - 2500	56
2500 - 3000	60
3000 - 3500	86
3500 - 4000	74
4000 - 4500	62
4500 - 5000	48

एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए।

6. एक स्थानीय टेलीफ़ोन निर्देशिका से 100 कुलनाम (surnames) लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ :

अक्षरों की संख्या	1 - 4	4 - 7	7 - 10	10 - 13	13 - 16	16 - 29
कुलनामों की संख्या	6	30	40	16	4	4

कुलनामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुलनामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही, कुलनामों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

7. नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए।

भार (किलोग्राम में)	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75
विद्यार्थियों की संख्या	2	3	8	6	6	3	2

### 13.5 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है :

1. वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य निम्नलिखित प्रकार ज्ञात किया जा सकता है :

$$(i) \text{ प्रत्यक्ष विधि: } \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$(ii) \text{ कल्पित माध्य विधि } \bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$$

$$(iii) \text{ पग-विचलन विधि: } \bar{x} = a + \left( \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \right) \times h$$

इनमें यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारता उसके मध्य-बिंदु, अर्थात् वर्ग चिह्न पर केंद्रित है।

2. वर्गीकृत आँकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है :

$$\text{बहुलक} = l + \left( \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

जहाँ संकेत अपना स्वाभाविक अर्थ रखते हैं।

3. किसी बारंबारता बट्टन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है।

4. वर्गीकृत आँकड़ों का माध्यक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है :

$$\text{माध्यक} = l + \left( \frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \right) \times h$$

जहाँ संकेत अपना स्वाभाविक अर्थ रखते हैं।

### पाठकों के लिए विशेष

वर्गीकृत आँकड़ों के बहुलक और माध्यक का परिकलन करने के लिए, सूत्र का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ग अंतराल सतत हैं। इसी प्रकार का प्रतिबंध का प्रयोग तोरण की संरचना के लिए भी करते हैं। अग्रतः, तोरण की स्थिति में प्रयुक्त पैमाना दोनों अक्षों पर समान नहीं भी हो सकता है।



1063CH15

## प्रायिकता 14

*The theory of probabilities and the theory of errors now constitute a formidable body of great mathematical interest and of great practical importance*

(प्रायिकताओं के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत अब अति गणितीय रूचि का तथा अति व्यावहारिक महत्व का एक विशाल समूह स्थापित करते हैं।)

— R.S. Woodward

### 14.1 प्रायिकता — एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण

आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें:

मान लीजिए एक सिक्के को यादृच्छ्या उछाला जाता है।

जब हम एक सिक्के की बात करते हैं, तब हम यह कल्पना करते हैं कि वह न्यायसंगत (fair) है। अर्थात् वह सममित (symmetrical) है, ताकि कोई कारण न हो कि वह एक ही ओर, दूसरी ओर की अपेक्षा, अधिक गिरे। हम सिक्के के इस गुण को उसका अपक्षपातपूर्ण (unbiased) होना कहते हैं। ‘यादृच्छ्या उछाल’ (random toss) से हमारा तात्पर्य है कि सिक्के को बिना किसी पक्षपात (bias) या रुकावट के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाता है।

हम पहले से जानते हैं कि सिक्का दो संभव विधियों में से केवल एक ही विधि से गिर सकता है – या तो चित ऊपर होगा या फिर पट ऊपर होगा [हम सिक्के के, उसके किनारे (edge) के अनुदिश गिरने की संभावना को अस्वीकार करते हैं, जो उदाहरणार्थ, तब संभव है जब सिक्का रेत पर गिरे]। हम यह तर्कसंगतरूप से मान सकते हैं कि प्रत्येक

परिणाम, चित या पट, का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि परिणाम चित और पट समप्रायिक (*equally likely*) हैं। समप्रायिक परिणामों के एक अन्य उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक पासे को फेंकते हैं। हमारे लिए, एक पासे का अर्थ सदैव एक न्यायसंगत पासे से होगा। संभव परिणाम क्या है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की समान संभावना है। अतः, पासे को फेंकने से प्राप्त होने वाले समप्रायिक परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं।

क्या प्रत्येक प्रयोग के परिणाम समप्रायिक होते हैं? आइए देखें।

मान लीजिए एक थैले में 4 लाल गेंदें और 1 नीली गेंद है तथा आप इस थैले में से, बिना थैले के अंदर कुछ देखें, एक गेंद निकालते हैं। इसके क्या परिणाम हैं? क्या एक लाल गेंद और एक नीली गेंद के परिणाम समप्रायिक हैं? चूँकि यहाँ 4 लाल गेंदें हैं और नीली गेंद केवल एक ही, अतः आप यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि आपके द्वारा एक नीली गेंद की अपेक्षा एक लाल गेंद निकालने की संभावना अधिक है। अतः ये परिणाम (एक लाल गेंद और एक नीली गेंद) समप्रायिक नहीं हैं। परंतु थैले में से किसी भी रंग की गेंद निकालने के परिणाम समप्रायिक हैं।

अतः, सभी प्रयोगों के परिणामों का समप्रायिक होना आवश्यक नहीं है। परंतु, इस अध्याय में, हम आगे यह मानकर चलेंगे कि सभी प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं।

कक्षा IX में, हमने एक घटना E की प्रयोगात्मक या आनुभविक प्रायिकता  $P(E)$  को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया था :

$$P(E) = \frac{\text{अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है}}{\text{अभिप्रयोगों की कुल संख्या}}$$

प्रायिकता की आनुभविक व्याख्या का बड़ी संख्या में दोहराए जा सकने वाले किसी भी प्रयोग से जुड़े प्रत्येक घटना के लिए अनुप्रयोग किया जा सकता है। किसी प्रयोग को दोहराने की आवश्यकता एक गंभीर परिसीमा है, क्योंकि अनेक स्थितियों में यह अधिक व्यय वाला हो सकता है या यह भी हो सकता है कि ऐसा करना संभव ही न हो। निस्संदेह, सिक्का उछालने या पासा फेंकने के प्रयोगों में, इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। परंतु एक उपग्रह (satellite) छोड़ने के प्रयोग को यह परिकलित करने के लिए बार-बार दोहराने की छोड़ते समय उसकी असफलता की आनुभवित प्रायिकता क्या है, के बारे में आप क्या सोचते हैं? अथवा यह कि एक भूकंप के कारण कोई बहुमंजिली इमारत नष्ट होगी या नहीं, की आनुभविक प्रायिकता परिकलित करने के लिए भूकंप की परिघटना के दोबारा घटित होने के बारे में आप क्या कह सकते हैं?

ऐसे प्रयोगों में, जहाँ हम कुछ कल्पनाओं को सही मानने को तैयार हो जाएँ, हम एक प्रयोग के दोहराने से बच सकते हैं, क्योंकि वे कल्पनाएँ सीधे सही (सैद्धांतिक) प्रायिकता परिकलित करने में हमारी सहायता करती हैं। परिणामों के समप्रायिक होने की कल्पना (जो अनेक प्रयोगों में मान्य होती है, जैसे कि ऊपर सिक्का उछालने और पासा फेंकने के दोनों उदाहरणों में है) इन कल्पनाओं में से एक है जो हमें किसी घटना की प्रायिकता की निम्नलिखित परिभाषा की ओर अग्रसर करती है।

किसी घटना E की **सैद्धांतिक प्रायिकता** (*theoretical probability*) [जिसे परंपरागत प्रायिकता (*classical probability*) भी कहा जाता है।] P(E) निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जाती है

$$P(E) = \frac{E \text{ के अनुकूल परिणामों की संख्या}{\text{प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या}}$$

यहाँ हम यह कल्पना करते हैं कि प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं।

हम संक्षिप्त रूप में, सैद्धांतिक प्रायिकता को केवल प्रायिकता ही कहेंगे।

प्रायिकता की उपरोक्त परिभाषा 1795 में पियरे-साइमन लाप्लास (Pierre-Simon Laplace) ने दी थी।

प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में हुआ, जब एक इतालवी भौतिकशास्त्री एवं गणितज्ञ जे. कार्डन ने इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था : **The Book on Games of Chance** अपने प्रादुर्भाव से ही, प्रायिकता के अध्ययन को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन गणितज्ञों में जेम्स बर्नूली (1654-1705), एड़ी मोइवरे (1667-1754) और पियरे-साइमन लाप्लास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक सार्थक योगदान दिया। लाप्लास द्वारा 1812 में लिखी गई कृति (*Theorie Analytique des Probabilités*) को एक अकेले व्यक्ति द्वारा प्रायिकता के सिद्धांत के लिए किया गया सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में, प्रायिकता का अनेक क्षेत्रों, जैसे कि जैविकी, अर्थशास्त्र, वंश संबंधी शास्त्र (genetics), भौतिकी, समाजशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है।



**पियरे-साइमन लाप्लास  
(1749 – 1827)**

आइए ऐसे प्रयोगों से संबंधित कुछ घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें, जिनमें समप्रायिक होने की कल्पना मान्य है।

**उदाहरण 1 :** एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही, एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

**हल :** एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में, संभव परिणामों की संख्या 2 है – चित (H) और पट (T)। मान लीजिए घटना E ‘चित प्राप्त करना’ है। तब, E के अनुकूल (अर्थात् चित प्राप्त करने के अनुकूल) परिणाम 1 है। अतः,

$$P(E) = P(\text{चित}) = \frac{E \text{ के अनुकूल परिणामों की संख्या}}{\text{सभी संभव परिणामों की संख्या}} = \frac{1}{2}$$

इसी प्रकार, यदि घटना F पट प्राप्त करना है, तो

$$P(F) = P(\text{पट}) = \frac{1}{2} \quad (\text{क्यों?})$$

**उदाहरण 2 :** एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदे एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झाँकें, इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद

(i) पीली होगी?

(ii) लाल होगी?

(iii) नीली होगी?

**हल :** कृतिका थैले में से, उसमें बिना झाँके, गेंद निकालती है। अतः, उसके द्वारा कोई भी गेंद निकालना समप्रायिक है।

माना ‘पीली गेंद निकालना’ घटना Y है, ‘लाल गेंद निकालना’ घटना R है तथा ‘नीली गेंद निकालना’ घटना B है।

अब, सभी संभव परिणामों की संख्या = 3 है।

(i) घटना Y के अनुकूल परिणामों की संख्या = 1

अतः  $P(Y) = \frac{1}{3}$

इसी प्रकार,  $P(R) = \frac{1}{3}$  और  $P(B) = \frac{1}{3}$

### टिप्पणी :

(1) किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो **प्रारंभिक घटना** (*elementary event*) कहलाती है। उदाहरण 1 में दोनों घटनाएँ E और F प्रारंभिक घटनाएँ हैं।

इसी प्रकार, उदाहरण 2 में, घटना Y, R और B में प्रत्येक एक प्रारंभिक घटना है।

(2) उदाहरण 1 में, हम देखते हैं कि  $P(E) + P(F) = 1$

उदाहरण 2 में, हम देखते हैं कि  $P(Y) + P(B) + P(R) = 1$

ध्यान दीजिए कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। यह व्यापक रूप में भी सत्य है।

**उदाहरण 3 :** मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। (i) 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? (ii) 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है?

**हल :** (i) यहाँ मान लीजिए कि '4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना' घटना E है। सभी संभव परिणाम छः हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। स्पष्टतः, घटना E के अनुकूल परिणाम 5 और 6 हैं। अतः E के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है। इसलिए

$$P(E) = P(4 \text{ से बड़ी संख्या}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

(ii) मान लीजिए '4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना' घटना F है।

सभी संभव परिणाम = 6 हैं।

घटना F के अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 और 4 हैं।

अतः F के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है।

इसलिए  $P(F) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

क्या उपरोक्त उदाहरण में दी हुई घटना E और F प्रारंभिक घटनाएँ हैं? नहीं, ये प्रारंभिक घटनाएँ नहीं हैं, क्योंकि घटना E के 2 परिणाम हैं तथा घटना F के 4 परिणाम हैं।

**टिप्पणी :** उदाहरण 1 से, हम देखते हैं कि

$$P(E) + P(F) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad (1)$$

जहाँ घटना E 'एक चित प्राप्त करना' है तथा घटना F 'एक पट प्राप्त करना' है।

उदाहरण 3 के (i) और (ii) से भी हम देखते हैं कि

$$P(E) + P(F) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \quad (2)$$

जहाँ घटना E '4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना' तथा घटना F '4 के बराबर या कम संख्या प्राप्त करना' है।

ध्यान दीजिए कि 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने का अर्थ वही है जो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने का है और इसी प्रकार इसका विलोम भी यही प्रकट करता है।

उपरोक्त (1) और (2) में, क्या घटना 'F', 'E नहीं' (not E) के समान नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। हम घटना 'E नहीं', को  $\bar{E}$  से व्यक्त करते हैं।

$$\text{अतः, } P(E) + P(E \text{ नहीं}) = 1$$

$$\text{अर्थात् } P(E) + P(\bar{E}) = 1 \text{ है, जिससे } P(\bar{E}) = 1 - P(E) \text{ प्राप्त होता है।}$$

**व्यापक रूप में, किसी घटना E के लिए यह सत्य है कि**

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

घटना 'E नहीं' को निरूपित करने वाली घटना  $\bar{E}$  घटना E की **पूरक (complement)** घटना कहलाती है। हम यह भी कहते हैं कि E और  $\bar{E}$  परस्पर **पूरक घटनाएँ** हैं।

आगे बढ़ने से पहले, आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने का प्रयत्न करें:

(i) पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है?

(ii) पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है?

**आइए (i) का उत्तर दें:**

हम जानते हैं कि पासे को एक बार फेंकने पर केवल छः ही संभावित परिणाम हैं। ये परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। चूँकि पासे के किसी भी फलक पर 8 अंकित नहीं है, इसलिए 8 के अनुकूल कोई भी परिणाम नहीं है, अर्थात् ऐसे परिणामों की संख्या शून्य (0) है। दूसरे शब्दों में, पासे को एक बार फेंकने पर, संख्या 8 प्राप्त करना **असंभव (impossible)** है।

$$\text{अतः } P(8 \text{ प्राप्त करना}) = \frac{0}{6} = 0$$

अर्थात् उस घटना, जिसका घटित होना असंभव है, की प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना को एक **असंभव घटना (impossible event)** कहते हैं।

**आइए (ii) का उत्तर दें:**

चूँकि पासे के प्रत्येक फलक पर ऐसी संख्या लिखी है जो 7 से छोटी है, इसलिए पासे को एक बार फेंकने पर यह निश्चित है कि प्राप्त संख्या सदैव 7 से छोटी होगी। अतः, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या सभी संभावित परिणामों की संख्या के बराबर होगी, जो 6 है।

इसलिए

$$P(E) = P(7 \text{ से छोटी संख्या प्राप्त करना}) = \frac{6}{6} = 1$$

अतः उस घटना, जिसका घटित होना निश्चित (*sure*) है, की प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को एक निश्चित (*sure*) या निर्धारित (*certain*) घटना कहते हैं।

**टिप्पणी :** प्रायिकता  $P(E)$  की परिभाषा से, हम देखते हैं कि अंश (घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या) सदैव हर (सभी संभव परिणामों की संख्या) से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। अतः,

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

आइए अब एक उदाहरण, ताशों (playing cards) से संबंधित लों। क्या आपने ताशों की एक गड्ढी देखी है? इसमें 52 पत्ते (cards) होते हैं, जो 4 समूहों में बँटे होते हैं। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ये 4 समूह हुकुम (spades) ( $\spadesuit$ ), पान (hearts) ( $\heartsuit$ ), ईट (diamonds) ( $\diamondsuit$ ) और चिड़ी (clubs) ( $\clubsuit$ ) हैं। चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं तथा पान और ईट लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक समूह के पत्ते : इक्का (ace), बादशाह (king), बेगम (queen), गुलाम (jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 होते हैं। बादशाह, बेगम और गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड (face cards) कहलाते हैं।

**उदाहरण 4 :** अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता :

(i) एक इक्का होगा।

(ii) एक इक्का नहीं होगा।

**हल :** गड्ढी को अच्छी प्रकार से फेटने से परिणामों का समप्रायिक होना सुनिश्चित हो जाता है।

(i) एक गड्ढी में 4 इक्के होते हैं। मान लीजिए घटना E ‘एक इक्का होना’ है।

E के अनुकूल परिणामों की संख्या = 4

सभी संभव परिणामों की संख्या = 52 (क्यों?)

$$\text{अतः } P(E) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

(ii) मान लीजिए घटना F ‘एक इक्का नहीं’ है।

माना F के अनुकूल परिणामों की संख्या =  $52 - 4 = 48$  (क्यों?)

सभी संभव परिणामों की संख्या = 52

$$\text{अतः } P(F) = \frac{48}{52} = \frac{12}{13}$$

**टिप्पणी :** ध्यान दीजिए कि F और कुछ नहीं बल्कि  $\bar{E}$  ही है। अतः, हम P(F) को इस प्रकार भी परिकलित कर सकते हैं :  $P(F) = P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{1}{13} = \frac{12}{13}$ .

**उदाहरण 5 :** दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है?

**हल :** मान लीजिए S और R क्रमशः संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की घटनाएँ व्यक्त करते हैं।

$$\text{संगीता के जीतने की प्रायिकता} = P(S) = 0.62 \text{ (दिया है)}$$

$$\text{रेशमा के जीतने की प्रायिकता} = P(R) = 1 - P(S)$$

$$\begin{aligned} & [ \text{चूँकि घटनाएँ R और S पूरक हैं} ] \\ & = 1 - 0.62 = 0.38 \end{aligned}$$

**उदाहरण 6 :** सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों (i) के जन्म-दिन भिन्न-भिन्न हों? (ii) का जन्मदिन एक ही हो? [लीप का वर्ष (Leap year) को छोड़ते हुए]

**हल :** दोनों मित्रों में से किसी एक लड़की, मान लीजिए, सविता का जन्मदिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है। इसी प्रकार, दूसरी लड़की हमीदा का जन्मदिन भी वर्ष के 365 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है।

(i) यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, तो उसके जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या  $365 - 1 = 364$  होगी।

$$\text{अतः } P(\text{हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है}) = \frac{364}{365}$$

(ii)  $P(\text{सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही हो})$

$$\begin{aligned} &= 1 - P(\text{दोनों का जन्मदिन भिन्न है}) \\ &= 1 - \frac{364}{365} \quad [P(\bar{E}) = 1 - P(E) \text{ के प्रयोग से}] \\ &= \frac{1}{365} \end{aligned}$$

**उदाहरण 7 :** किसी स्कूल की कक्षा X में 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़कियाँ हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा-प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले

में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक  
(i) लड़की का है? (ii) लड़के का है?

**हल :** कुल 40 विद्यार्थी हैं और इनमें से केवल एक नाम का कार्ड चुनना है।

(i) सभी संभव परिणामों की संख्या = 40

कार्ड पर लड़की का नाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या = 25 (क्यों?)

$$\text{अब, } P(\text{कार्ड पर लड़की का नाम है}) = P(\text{लड़की}) = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}$$

(ii) कार्ड पर लड़के का नाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या = 15 (क्यों?)

$$\text{अतः, } P(\text{कार्ड पर लड़के का नाम है}) = P(\text{लड़का}) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

**टिप्पणी :** हम  $P(\text{लड़का})$  को इस प्रकार भी निर्धारित कर सकते हैं :

$$P(\text{लड़का}) = 1 - P(\text{लड़का नहीं}) = 1 - P(\text{लड़की}) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

**उदाहरण 8 :** एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे (marbles) हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा

(i) सफेद है? (ii) नीला है? (iii) लाल है?

**हल :** यह कहना कि कंचा यादृच्छया रूप से निकाला गया है, सर्किष्ट में यह कहने के बराबर है कि सभी परिणाम समप्रायिक हैं। अतः,

सभी संभव परिणामों की संख्या =  $3 + 2 + 4 = 9$  (क्यों?)

मान लीजिए घटना W ‘कंचा सफेद है’ को, घटना B ‘कंचा नीला है’ को तथा घटना R ‘कंचा लाल है’ को व्यक्त करता है।

(i) घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या = 2

$$\text{अतः } P(W) = \frac{2}{9}$$

$$\text{इसी प्रकार, (ii) } P(B) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \text{ और (iii) } P(R) = \frac{4}{9}$$

ध्यान दीजिए कि  $P(W) + P(B) + P(R) = 1$  है।

**उदाहरण 9 :** हरप्रीत दो भिन्न-भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है (मान लीजिए एक सिक्का ₹ 1 का है और दूसरा सिक्का ₹ 2 का है)। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी?

**हल :** हम ‘चित’ के लिए H और ‘पट’ के लिए T लिखते हैं। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो संभावित परिणाम (H, H), (H, T), (T, H), (T, T) हैं तथा ये सभी समप्रायिक हैं। यहाँ (H, H) का अर्थ है कि पहले सिक्के (मान लीजिए ₹ 1 के सिक्के) पर ‘चित’ आएगा और दूसरे सिक्के (₹ 2 के सिक्के) पर ‘चित’ आएगा। इसी प्रकार, (H, T) का अर्थ है कि पहले सिक्के पर ‘चित’ आएगा और दूसरे सिक्के पर ‘पट’ आएगा, इत्यादि।

घटना E ‘कम से कम एक चित आना’ के अनुकूल परिणाम (H, H), (H, T) और (T, H) हैं। (क्यों?)

अतः E के अनुकूल परिणामों की संख्या = 3

$$\text{इसलिए } P(E) = \frac{3}{4}$$

अर्थात् हरप्रीत द्वारा कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता  $\frac{3}{4}$  है।

**टिप्पणी :** आप P(E) इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं:

$$P(E) = 1 - P(\bar{E}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \left( \text{चौंकि } P(\bar{E}) = P(\text{कोई चित नहीं}) = \frac{1}{4} \right)$$

क्या आपने यह देखा कि अब तक के सभी उदाहरणों में, प्रत्येक प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या परिमित थी? यदि नहीं, तो अब इसकी जाँच कर लीजिए।

अनेक प्रयोग ऐसे हैं, जहाँ परिणाम दो संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है या जिनमें परिणाम एक वृत्त या आयत के अंदर का प्रत्येक बिंदु होता है, इत्यादि। क्या अब आप सभी संभव परिणामों को गिन सकते हैं? जैसाकि आप जानते हैं, यह संभव नहीं है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएँ होती हैं, या यह कि एक वृत्त के अंदर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। अतः, आपके द्वारा अध्ययन की

गई (सैद्धांतिक) प्रायिकता की परिभाषा को वर्तमान रूप में यहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस समस्या का फिर हल क्या है? इसके उत्तर के लिए, आइए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें।

**उदाहरण 10\*** : एक म्यूज़िकल चेयर (musical chair) खेल में, जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा?

**हल :** यहाँ संभव परिणाम 0 और 2 के बीच की सभी संख्याएँ हैं। यह संख्या रेखा का 0 से 2 तक का भाग है (देखिए आकृति 14.1)।



### आकृति 14.1

मान लीजिए घटना E ‘संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट में बंद हो जाता है’।

E के अनुकूल परिणाम संख्या रेखा पर 0 से  $\frac{1}{2}$  के बीच के सभी बिंदु हैं।


चूंकि सभी परिणाम समप्रायिक हैं, इसलिए हम यह तर्क दे सकते हैं कि कुल दूरी 2 में से दूरी  $\frac{1}{2}$  घटना E के अनुकूल है।

$$\text{अतः } P(E) = \frac{\text{घटना E के अनुकूल दूरी}}{\text{पूरी दूरी जिसमें परिणाम स्थित हो सकते हैं}} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

क्या हम उदाहरण 10 की अवधारणा को किसी घटना की प्रायिकता उसके अनुकूल क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में विस्तृत कर सकते हैं।

**उदाहरण 11\*** : एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 14.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है?

\* यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है।



### आकृति 14.2

**हल :** हेलीकॉप्टर का आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिरना सम्प्रायिक है।

संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, जहाँ हेलीकॉप्टर गिर सकता है

$$= (4.5 \times 9) \text{ km}^2 = 40.5 \text{ km}^2$$

झील का वास्तविक क्षेत्रफल  $= (2.5 \times 3) \text{ km}^2 = 7.5 \text{ km}^2$

अतः,  $P$  (हेलीकॉप्टर झील में गिरा है)  $= \frac{7.5}{40.5} = \frac{75}{405} = \frac{5}{27}$  है।

**उदहारण 12 :** एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छ्या रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज

(i) जिम्मी को स्वीकार हो?

(ii) सुजाता को स्वीकार हो?

**हल :** 100 कमीजों के डिब्बे में से एक कमीज यादृच्छ्या रूप से निकाली जाती है। अतः यहाँ 100 सम्प्रायिक परिणाम हैं।

(i) जिम्मी के अनुकूल (को स्वीकार) परिणामों की संख्या  $= 88$  (क्यों?)

अतः,  $P$  (कमीज जिम्मी को स्वीकार है)  $= \frac{88}{100} = 0.88$

(ii) सुजाता के अनुकूल परिणामों की संख्या =  $88 + 8 = 96$  (क्यों?)

$$\text{अतः, } P(\text{कमीज सुजाता को स्वीकार है}) = \frac{96}{100} = 0.96$$

**उदाहरण 13 :** एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग

(i) 8 है। (ii) 13 है। (iii) 12 से छोटी या उसके बराबर है।

**हल :** जब नीला पासा '1' दर्शाता है, तो सलेटी पासे पर संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो सकती है। यही तब भी होगा, जब नीले पासे पर '2', '3', '4', '5' या '6' होगा। इस प्रयोग के संभावित परिणामों को नीचे सारणी में दिया गया है। प्रत्येक क्रमित युग्म की पहली संख्या नीले पासे पर आने वाली संख्या है तथा दूसरी संख्या सलेटी पासे पर आने वाली संख्या है।

		1	2	3	4	5	6
		(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
नीला	1	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
	2	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
	3	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
	4	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
	5	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)
	6						

### आकृति 14.3

ध्यान दीजिए कि युग्म (1, 4) युग्म (4, 1) से भिन्न है (क्यों?)

अतः, संभावित परिणामों की संख्या =  $6 \times 6 = 36$  है।

(i) E द्वारा व्यक्त घटना 'संख्याओं का योग 8 है' के अनुकूल परिणाम (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3) और (6, 2) हैं (देखिए आकृति 15.3)।

अर्थात् E के अनुकूल परिणाम = 5

इसलिए

$$P(E) = \frac{5}{36}$$

- (ii) जैसा कि आप आकृति 15.3 से देख सकते हैं, घटना F, 'संख्याओं का योग 13 है' के अनुकूल कोई भी परिणाम नहीं है।

अतः

$$P(F) = \frac{0}{36} = 0$$

- (iii) जैसा कि आप आकृति 14.3 से देख सकते हैं, घटना G 'संख्याओं का योग \leq 12 से छोटा या उसके बराबर है' के अनुकूल सभी परिणाम हैं।

अतः

$$P(G) = \frac{36}{36} = 1$$

### प्रश्नावली 14.1

1. निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए :

- (i) घटना E की प्रायिकता + घटना 'E नहीं' की प्रायिकता = \_\_\_\_\_ है।
- (ii) उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती \_\_\_\_\_ है। ऐसी घटना \_\_\_\_\_ कहलाती है।
- (iii) उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है \_\_\_\_\_ है। ऐसी घटना \_\_\_\_\_ कहलाती है।
- (iv) किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग \_\_\_\_\_ है।
- (v) किसी घटना की प्रायिकता \_\_\_\_\_ से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा \_\_\_\_\_ से छोटी या उसके बराबर होती है।


2. निम्नलिखित प्रयोगों में से किन-किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? स्पष्ट कीजिए।

- (i) एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है।
- (ii) एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है।
- (iii) एक सत्य-असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा।
- (iv) एक बच्चे का जन्म होता है। वह एक लड़का है या एक लड़की है।
- 3. फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन-सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है?

4. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती?
- (A)  $\frac{2}{3}$       (B) -1.5      (C) 15%      (D) 0.7
5. यदि  $P(E) = 0.05$  है, तो 'E नहीं' की प्रायिकता क्या है?
6. एक थैले में केवल नीबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली  
 (i) संतरे की महक वाली है?  
 (ii) नीबू की महक वाली है?
7. यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो?
8. एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद (i) लाल हो? (ii) लाल नहीं हो?
9. एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा  
 (i) लाल है? (ii) सफेद है? (iii) हरा नहीं है?
10. एक पिग्गी बैंक (piggy bank) में, 50 पैसे के सौ सिक्के हैं, ₹ 1 के पचास सिक्के हैं, ₹ 2 के बीस सिक्के और ₹ 5 के दस सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सम्प्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का (i) 50 पैसे का होगा? (ii) ₹ 5 का नहीं होगा?
11. गोपी अपने जल-जीव कुंड (aquarium) के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी, जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है (देखिए आकृति 14.4)। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है?
12. संयोग (chance) के एक खेल में, एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है (देखिए आकृति 14.5)। यदि ये सभी परिणाम सम्प्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित  
 (i) 8 को करेगा?  
 (ii) एक विषम संख्या को करेगा?  
 (iii) 2 से बड़ी संख्या को करेगा?  
 (iv) 9 से छोटी संख्या को करेगा?



आकृति 14.4



आकृति 14.5

13. एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए :
- (i) एक अभाज्य संख्या (ii) 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या (iii) एक विषम संख्या
14. 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए :
- |                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| (i) लाल रंग का बादशाह              | (ii) एक फेस कार्ड अर्थात् तस्वीर वाला पत्ता |
| (iii) लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता | (iv) पान का गुलाम                           |
| (v) हुकुम का पत्ता                 | (vi) एक ईंट की बेगम                         |
15. ताश के पाँच पत्तों—ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का—को पलट करके अच्छी प्रकार फेटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छ्या एक पत्ता निकाला जाता है।
- (i) इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है?
  - (ii) यदि बेगम निकल आती है, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता (a) एक इक्का है? (b) एक बेगम है?
16. किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से, एक पेन यादृच्छ्या निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
17. (i) 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छ्या निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा?
- (ii) मान लीजिए (i) में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दुबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छ्या निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा?
18. एक पेटी में 90 डिस्क (discs) हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएँ अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छ्या निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी : (i) दो अंकों की एक संख्या (ii) एक पूर्ण वर्ग संख्या (iii) 5 से विभाज्य एक संख्या।
19. एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं :


[A] [B] [C] [D] [E] [A]

इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि (i) A प्राप्त हो? (ii) D प्राप्त हो?

20.\* मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छ्या रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1m व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा?

---

\* यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है।



आकृति 14.6

21. 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से, यादृच्छ्या एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि
- आप वह पेन खरीदेंगे?
  - आप वह पेन नहीं खरीदेंगे?
22. उदाहरण 13 को देखिए। (i) निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए :

घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रायिकता	$\frac{1}{36}$							$\frac{5}{36}$			$\frac{1}{36}$

- (ii) एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि 'यहाँ कुल 11 परिणाम  $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$  और 12 हैं। अतः, प्रत्येक की प्रायिकता  $\frac{1}{11}$  है।' क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए।
23. एक खेल में एक रुपए के सिक्के को तीन बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात् तीन चित या तीन पट प्राप्त होने पर, हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए।
24. एक पासे को दो बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि
- 5 किसी भी बार में नहीं आएगा?
  - 5 कम से कम एक बार आएगा?
- [संकेत : एक पासे को दो बार फेंकना और दो पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है।]

25. निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए।

- यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके तीन संभावित परिणाम—दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता  $\frac{1}{3}$  है।
- यदि एक पासे को फेंका जाता है, तो इसके दो संभावित परिणाम—एक विषम संख्या या एक सम संख्या हैं। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता  $\frac{1}{2}$  है।

## 14.2 सारांश

इस अध्याय में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है :

1. घटना E की सैद्धांतिक (या परंपरागत) प्रायिकता  $P(E)$  को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है:

$$P(E) = \frac{E \text{ के अनुकूल परिणामों की संख्या}}{\text{प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या}}$$

जहाँ हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग के सभी परिणाम समप्रायिक हैं।

- एक निश्चित (या निर्धारित) घटना की प्रायिकता 1 होती है।
- एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है।
- घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या  $P(E)$  है कि

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

- वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है।
- किसी भी घटना E के लिए  $P(E) + P(\bar{E}) = 1$  होता है, जहाँ E घटना ‘E नहीं’ को व्यक्त करता है। E और E पूरक घटनाएँ कहलाती हैं।

### पाठकों के लिए विशेष

एक घटना की प्रायोगिक या आनुभविक प्रायिकता वास्तविक रूप से घटना के घटित होने पर आधारित होती है, जबकि उस घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता में कुछ कल्पनाओं के आधार पर यह प्रागुक्ति की जाती है कि क्या घटना घटेगी। जैसे-जैसे एक प्रयोग में अभिप्रयोगों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रायिकताओं की लगभग बराबर होने की प्रत्याशा की जा सकती है।

# गणितीय उपपत्तियाँ A1

## A1.1 भूमिका

हमारे दैनिक जीवन में तर्क प्रस्तुत करने और स्पष्ट चिंतन करने की क्षमता अत्यधिक उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक राजनीतिज्ञ आप से यह कहता है कि 'यदि आप साफ-सुथरी सरकार चाहते हैं तो आपको मुझे वोट देना चाहिए।' वास्तव में आपके अंदर वह यह विश्वास पैदा करना चाहता है कि यदि आपने उसे वोट नहीं दिया, तो आपको साफ-सुथरी सरकार नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार, यदि एक विज्ञापन में यह बताया जाता है कि 'बुद्धिमान व्यक्ति XYZ प्रकार के जूते पहनते हैं' तो कंपनी आपके अंदर यह बात पैदा करना चाहती है कि यदि आप XYZ प्रकार के जूते नहीं पहनते हैं, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। आप स्वयं यह देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए दोनों ही कथन आम जनता को बहका सकते हैं। अतः यदि हम तर्क प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सही प्रकार से समझते हैं, तो अनजाने में हम इस प्रकार के जाल में नहीं फँस सकते हैं।

तर्क प्रस्तुत करने का सही प्रयोग गणित का आधार है, विशेष रूप से उपपत्तियाँ प्रस्तुत करने में। कक्षा IX में, आपको उपपत्तियों की संकल्पना से परिचित कराया गया है और वास्तव में आपने अनेक कथनों, विशेष रूप से ज्यामिति के कथनों को सिद्ध भी किया है। स्मरण कीजिए कि एक उपपत्ति में अनेक गणितीय कथन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक कथन उपपत्ति के पिछले कथन से या पहले सिद्ध किए गए प्रमेय से, या किसी अभिगृहीत से, या परिकल्पनाओं से तार्किक रूप से निगमित होता है। उपपत्ति की रचना में प्रयुक्त होने वाला हमारा मुख्य साधन निगमनिक तर्कण की प्रक्रिया है।

इस अध्याय में हम सबसे पहले इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि गणितीय कथन क्या होता है। इसके बाद हम अनेक उदाहरणों द्वारा निगमनिक तर्कण देने के कौशल को और

अधिक सक्षम बनाने पर विचार करेंगे। यहाँ हम निषेध की संकल्पना और एक दिए हुए कथन का निषेध ज्ञात करने के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किसी दिए हुए कथन का विलोम ज्ञात करने का अर्थ क्या होता है। अंत में, हम अनेक प्रमेयों की उपपत्तियों का विश्लेषण करके कक्षा IX में पढ़ी गई किसी उपपत्ति के अवयवों पर पुनर्विचार करेंगे। यहाँ हम विरोधोक्ति (अंतर्विरोध) द्वारा उपपत्ति की धारणा पर भी विचार करेंगे, जिसे आप कक्षा IX में सीख चुके हैं तथा इस पुस्तक के अनेक अन्य अध्यायों में भी प्रयोग कर चुके हैं।

### A1.2 गणितीय कथनों का पुनरीक्षण

स्मरण कीजिए कि 'कथन' एक अर्थपूर्ण वाक्य होता है, जो न तो आदेश होता है, न विस्मयादिबोधक (exclamation) होता है और न ही प्रश्न होता है। उदाहरण के लिए 'वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन-सी दो टीमें खेल रही हैं?' एक प्रश्न है, एक कथन नहीं है। 'जाइए और अपना गृहकार्य पूरा कीजिए', एक आदेश है, एक कथन नहीं है। 'क्या ही बढ़िया गोल है!' एक विस्मयादिबोधक है, एक कथन नहीं है।

स्मरण रहे कि व्यापक रूप में वाक्य निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है:

- सत्य
- असत्य
- संदिग्ध

कक्षा IX में, आप यह भी पढ़ चुके हैं कि गणित में, कथन केवल तभी स्वीकार्य होता है जबकि वह या तो सत्य हो या असत्य हो। अतः संदिग्ध वाक्यों को गणितीय कथन नहीं माना जाता है।

आइए हम कुछ उदाहरण लेकर अपने ज्ञान को दोहरा लें।

**उदाहरण 1 :** बताइए कि निम्नलिखित वाक्य कथन है या नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए।

- (i) सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
- (ii) वाहन के चार पहिए होते हैं।
- (iii) प्रकाश की चाल लगभग  $3 \times 10^5$  km/s है।
- (iv) नवंबर से मार्च तक कोलकाता की सड़क बंद रहेगी।
- (v) सभी मानव नश्वर होते हैं।

**हल :**

- (i) यह वाक्य असत्य है, क्योंकि खगोलविदों ने यह स्थापित कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अतः यह एक कथन है।
- (ii) यह वाक्य सदिग्ध है, क्योंकि हम यह निर्णय नहीं कर सकते हैं कि यह सत्य है या असत्य है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन कौन-सा है, क्योंकि वाहन 2, 3, 4, 6, 10, आदि पहियों वाला हो सकता है। अतः यह एक कथन नहीं है।
- (iii) यह वाक्य सत्य है, जैसाकि भौतिकविदों ने सत्यापित किया है। अतः यह एक कथन है।
- (iv) यह वाक्य सदिग्ध है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ किस सड़क के बारे में कहा जा रहा है। अतः यह एक कथन नहीं है।
- (v) यह वाक्य सत्य है, क्योंकि प्रत्येक मानव को कभी न कभी मरना ही है। अतः यह एक कथन है।

**उदाहरण 2 :** बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं या असत्य हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए।

- (i) सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं।
- (ii) कुछ समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं।
- (iii) सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं।
- (iv) कुछ परिमेय संख्याएँ पूर्णांक होती हैं।
- (v) कुछ परिमेय संख्याएँ पूर्णांक नहीं होती हैं।
- (vi) सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होते हैं।
- (vii) किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक भी परिमेय संख्या नहीं होती है।

**हल :**

- (i) यह वाक्य सत्य है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएँ समान होती हैं, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं।
- (ii) यह वाक्य सत्य है, क्योंकि वे समद्विबाहु त्रिभुज जिसके आधार कोण  $60^\circ$  के हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं।
- (iii) यह वाक्य असत्य है। इसका एक प्रत्युदाहरण दीजिए।
- (iv) यह वाक्य सत्य है, क्योंकि  $\frac{p}{q}$  के रूप की ऐसी परिमेय संख्याएँ, जहाँ  $p$  पूर्णांक हैं और  $q = 1$ , पूर्णांक हैं। (उदाहरण के लिए  $3 = \frac{3}{1}$ )

- (v) यह वाक्य सत्य है, क्योंकि  $\frac{p}{q}$  के रूप की ऐसी परिमेय संख्याएँ, जहाँ  $p, q$  पूर्णांक हैं और  $q, p$  को विभाजित नहीं करता, पूर्णांक नहीं हैं (उदाहरण के लिए  $\frac{3}{2}$ )
- (vi) यह वाक्य इस कथन के समान है कि 'एक ऐसा पूर्णांक है, जो परिमेय संख्या नहीं है'। यह वाक्य असत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं।
- (vii) यह वाक्य असत्य है। जैसाकि आप जानते हैं कि नहीं दो परिमेय संख्याओं  $r$  और  $s$  के बीच  $\frac{r+s}{2}$  होती है, जो एक परिमेय संख्या है।

**उदाहरण 3 :** यदि  $x < 4$  है तो निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए।

- (i)  $2x > 8$                    (ii)  $2x < 6$                    (iii)  $2x < 8$

**हल :**

- (i) यह कथन असत्य है, क्योंकि, उदाहरण के लिए,  $x = 3 < 4$ ,  $2x > 8$  को संतुष्ट नहीं करता है।
- (ii) यह कथन असत्य है, क्योंकि उदाहरण के लिए  $x = 3.5 < 4$ ,  $2x < 6$  को संतुष्ट नहीं करता है।
- (iii) यह कथन सत्य है, क्योंकि यह वही है जो कि  $x < 4$  है।

**उदाहरण 4 :** उपयुक्त प्रतिबंध लगाकर निम्नलिखित कथनों का पुनर्कथन दीजिए, जिससे कि वे कथन सत्य हो जाएँ?

- (i) यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, तो वह एक आयत होता है।
- (ii) किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
- (iii) सभी धन पूर्णांक  $p$  के लिए  $\sqrt{p}$  अपरिमेय होता है।
- (iv) सभी द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल होते हैं।

**हल :**

- (i) यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, तो वह एक आयत होता है।
- (ii) एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।

(iii) सभी अभाज्य संख्याओं  $p$  के लिए  $\sqrt{p}$  अपरिमेय होता है।

(iv) सभी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल होते हैं।

**टिप्पणी:** ऊपर के कथनों का पुनःकथन अन्य प्रकार भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए

(iii) का पुनःकथन ‘ $\sqrt{p}$  अपरिमेय है, जहाँ  $p$  ऐसा धन पूर्णांक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है।’

### प्रश्नावली A1.1

1. बताइए कि निम्नलिखित वाक्य कथन हैं या नहीं। यदि कथन हैं, तो बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए।

(i) गणित की सभी पाठ्य पुस्तकें रोचक होती हैं।

(ii) पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग  $1.5 \times 10^8$  km है।

(iii) सभी मानव वृद्ध हो जाते हैं।

(iv) उत्तरकाशी से हरिंसिंह की यात्रा थका देने वाली है।

(v) महिला ने बाइनाकुलर से एक हाथी देखा।

2. बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए।

(i) सभी षट्भुज बहुभुज होते हैं।

(ii) कुछ बहुभुज पंचभुज होते हैं।

(iii) सभी सम संख्याएँ 2 से भाज्य नहीं होती हैं।

(iv) कुछ वास्तविक संख्याएँ अपरिमेय होती हैं।

(v) सभी वास्तविक संख्याएँ परिमेय नहीं होती हैं।

3. मान लीजिए  $a$  और  $b$  वास्तविक संख्याएँ हैं, जहाँ  $ab \neq 0$  है, तब बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए।

(i)  $a$  और  $b$  दोनों अनिवार्यतः शून्य होने चाहिए। (ii)  $a$  और  $b$  दोनों शून्येतर होने चाहिए।

(iii) या तो  $a$  या  $b$  शून्येतर होना चाहिए।

4. उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ निम्नलिखित कथनों का ऐसा पुनःकथन दीजिए जिससे कि वे सत्य हो जाएँ।

(i) यदि  $a^2 > b^2$ , तो  $a > b$

(ii) यदि  $x^2 = y^2$ , तो  $x = y$

(iii) यदि  $(x+y)^2 = x^2 + y^2$ , तो  $x = 0$

(iv) चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।

### A1.3 निगमनिक तर्कण

कक्षा IX में, आपको निगमनिक तर्कण की संकल्पना से परिचित कराया गया था। यहाँ हम अनेक उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार निगमनिक तर्कण के प्रयोग से, सत्य माने गए प्रदत्त कथनों से निष्कर्ष निकालते हैं। इन कथनों को परिकल्पनाएँ या आधार वाक्य (Hypotheses or Premises) कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों से प्रारंभ करेंगे।

**उदाहरण 5 :** दिया हुआ है कि बीजापुर कर्नाटक राज्य में है, और मान लीजिए कि शबाना बीजापुर में रहती है। किस राज्य में शबाना रहती है?

**हल :** यहाँ दो परिकल्पनाएँ हैं :

(i) बीजापुर कर्नाटक राज्य में है।

(ii) शबाना बीजापुर में रहती है।

इन परिकल्पनाओं से हम यह निगमित करते हैं कि शबाना कर्नाटक राज्य में रहती है।

**उदाहरण 6 :** दिया हुआ है कि गणित की सभी पाठ्य-पुस्तकें रोचक होती हैं और मान लीजिए आप गणित की एक पाठ्य-पुस्तक पढ़ रहे हैं। जो पाठ्य-पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

**हल :** दो परिकल्पनाओं का प्रयोग करके हम यह निगमित कर सकते हैं कि आप एक रोचक पाठ्य-पुस्तक पढ़ रहे हैं।

**उदाहरण 7 :**  $y = -6x + 5$  दिया हुआ है और मान लीजिए कि  $x = 3$  है,  $y$  का मान क्या है?

**हल :** दोनों परिकल्पनाओं से हमें  $y = -6(3) + 5 = -13$  प्राप्त होता है।

**उदाहरण 8 :** दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और मान लीजिए कि  $AD = 5 \text{ cm}$ ,  $AB = 7 \text{ cm}$  (आकृति A1.1 देखिए)। DC और BC की लंबाइयों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?



आकृति A1.1

**हल :** हमें यह दिया हुआ है कि ABCD एक समांतरचतुर्भुज है अतः हम यह निगमित कर लेते हैं कि वे सभी गुणधर्म जो एक समांतरचतुर्भुज के होते हैं, ABCD के भी हैं। इसलिए विशेष रूप से यह गुणधर्म कि 'एक समांतरचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएँ' एक-दूसरे के बराबर होती हैं, ABCD पर भी लागू होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि  $AD = 5 \text{ cm}$ , इसलिए हम यह निगमित कर सकते हैं कि  $BC = 5 \text{ cm}$  है। इसी प्रकार हम यह निगमित कर सकते हैं कि  $DC = 7 \text{ cm}$

**टिप्पणी :** इस उदाहरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक दी हुई परिकल्पना में छिपे गुणधर्मों को ज्ञात करने और लागू करने की आवश्यकता प्रायः पड़ती रहती है।

**उदाहरण 9 :** दिया हुआ है कि सभी अभाज्य संख्याओं  $p$  के लिए  $\sqrt{p}$  अपरिमेय है और मान लीजिए कि  $19423$  एक अभाज्य संख्या है।  $\sqrt{19423}$  के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

**हल :** हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि  $\sqrt{19423}$  अपरिमेय है।

ऊपर के उदाहरणों में इस बात की ओर आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि हम यह नहीं जानते कि परिकल्पनाएँ सत्य हैं या नहीं। हम यह मानकर चलते हैं कि वे सत्य हैं, और तब निगमनिक तर्कण का प्रयोग करते हैं। दृष्टिकोण: उदाहरण 9 में हमने इस बात की जाँच नहीं की है कि  $19423$  अभाज्य संख्या है या नहीं। अपने तर्क के लिए हम इसे अभाज्य संख्या मान लेते हैं। इस अनुच्छेद में हम इस बात पर बल देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि एक विशेष कथन दिया हुआ है, तो एक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हम निगमनिक तर्कण का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। वास्तव में यहाँ इस बात का अधिक महत्व है कि हम तर्कण की सही प्रक्रिया का प्रयोग करें और तर्कण की यह प्रक्रिया परिकल्पनाओं की सत्यता या असत्यता पर निर्भर नहीं होती है। फिर भी, इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यदि हम गलत परिकल्पना से प्रारंभ करेंगे, तो हम गलत निष्कर्ष पर भी पहुँच सकते हैं।

### प्रश्नावली A1.2


- दिया हुआ है कि सभी महिलाएँ नश्वर हैं और मान लीजिए  $A$  एक महिला है।  $A$  के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
- दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय है और मान लीजिए  $a$  और  $b$  परिमेय हैं तब  $ab$  के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
- दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी (non-terminating) और अनावर्ती (non-recurring) है और  $\sqrt{17}$  एक अपरिमेय संख्या है।  $\sqrt{17}$  के दशमलव प्रसार के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
- दिया हुआ है कि  $y = x^2 + 6$  और  $x = -1$  तब  $y$  के मान के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
- दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और  $\angle B = 80^\circ$  तब समांतर चतुर्भुज के अन्य कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

6. दिया हुआ है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
7. दिया हुआ है कि सभी अभाज्य संख्या  $p$  के लिए  $\sqrt{p}$  अपरिमेय है और यह भी मान लीजिए कि  $\sqrt{3721}$  एक अभाज्य संख्या है। क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि  $\sqrt{3721}$  एक अपरिमेय संख्या है? क्या आपका निष्कर्ष सही है? क्यों या क्यों नहीं?

#### A1.4 कंजेक्चर (conjectures), प्रमेय, उपपत्तियाँ और गणितीय तर्कण

आकृति A1.2 पर विचार कीजिए। पहले वृत्त पर एक बिंदु है, दूसरे वृत्त पर दो बिंदु हैं, तीसरे पर तीन, इत्यादि। प्रत्येक स्थिति में बिंदुओं को मिलाने वाली सभी संभव रेखाएँ खींची गई हैं।

रेखाएँ वृत्त को परस्पर अपवर्जी क्षेत्रों (जिनमें कोई उभयनिष्ठ भाग नहीं होता है) में विभाजित करती हैं। हम इन्हें गिन सकते हैं और अपने परिणामों को सारणीबद्ध करते हैं। जैसा नीचे दर्शाया गया है:



आकृति A1.2

बिंदुओं की संख्या	प्रदेशों की संख्या
1	1
2	2
3	4
4	8
5	
6	
7	


आप में से कुछ लोग उस सूत्र को प्राप्त कर सके होंगे जिसके प्रयोग से बिंदुओं की संख्या ज्ञात होने पर क्षेत्रों की संख्या की प्रागुक्ति कर सकते हैं। आप स्मरण कर सकते हैं कि कक्षा IX में, इस प्रकार के बुद्धिमत्ता पूर्ण अनुमान को ‘कंजेक्चर’ कहा गया है।

मान लीजिए आपका कंजेक्चर यह है कि यदि वृत्त पर ' $n$ ' बिंदु दिए हुए हैं, तो इन बिंदुओं को समस्त संभव रेखाओं से मिलाने पर  $2^{n-1}$  परस्पर अपवर्जी क्षेत्र बनते हैं। यह एक तर्कसंगत अनुमान लगता है। यह देखा जा सकता है कि यदि  $n = 5$ , तो हमें 16 क्षेत्र प्राप्त होते हैं। अतः 5 बिंदुओं के लिए इस सूत्र को सत्यापित कर लेने के बाद क्या आप संतुष्ट हैं कि किन्हीं भी  $n$  बिंदुओं के लिए  $2^{n-1}$  क्षेत्र होते हैं? यदि ऐसा है, तो यदि कोई व्यक्ति आपसे यह पूछे कि आप  $n = 25$  के लिए इसे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको एक ऐसी उपपत्ति की आवश्यकता होती है जो निस्संदेह यह प्रदर्शित करती हो कि यह परिणाम सत्य है या यह प्रदर्शित करने के लिए कि कुछ ' $n$ ' के लिए यह परिणाम असफल हो जाता है, एक प्रत्युदाहरण होना चाहिए। वास्तव में, यदि आपमें धैर्य है और  $n = 6$  पर इसे ज्ञात करने का प्रयास करें तो पाएँगे कि  $n = 6$  पर 31 क्षेत्र होते हैं और  $n = 7$  पर 57 क्षेत्र होते हैं। अतः ऊपर के कंजेक्चर का  $n = 6$  एक प्रत्युदाहरण है। यह तथ्य प्रत्युदाहरण की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आपको याद होगा कि कक्षा IX में इस बात पर चर्चा की गई है कि किसी कथन को असत्य सिद्ध करने के लिए एक ही प्रत्युदाहरण पर्याप्त होता है।

इस बात की ओर आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि  $n = 1, 2, 3, 4$  और  $5$  पर परिणाम का सत्यापन करने के बाद भी हमने क्षेत्रों की संख्या से संबंधित उपपत्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। आइए हम कुछ और उदाहरण लें। आप (अध्याय 5 में दिए गए) निम्नलिखित परिणाम से अवश्य परिचित होंगे:  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$  इसकी मान्यता को स्थापित करने के लिए  $n = 1, 2, 3, 4, 5$ , आदि के लिए परिणाम को सत्यापित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ' $n$ ' हो सकते हैं, जिसके लिए यह परिणाम सत्य न हो (जैसा कि ऊपर के उदाहरण में  $n = 6$  पर परिणाम असफल हो जाता है)। अतः हमें एक ऐसी उपपत्ति की आवश्यकता होती है जो इसकी सत्यता निस्संदेह स्थापित करे। उच्च कक्षाओं में आप इसकी उपपत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे।

अब, आकृति A1.3 पर विचार कीजिए, जहाँ  $PQ$  और  $PR$  बिंदु  $P$  से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं।

आप (प्रमेय 10.2 में) यह सिद्ध कर चुके हैं कि  $PQ = PR$  है। आप इस प्रकार की अनेक आकृतियाँ खींच कर और संगत स्पर्श रेखाओं की मापी गई लंबाइयों द्वारा प्रत्येक स्थिति में इस परिणाम को केवल सत्यापित करके आप संतुष्ट नहीं हुए थे।



आकृति A1.3

क्या आपको याद है कि उपपत्ति में क्या-क्या था? यह कथनों (जिन्हें मान्य तर्क कहते हैं) के एक अनुक्रम से मिल कर बना था, जिसमें प्रत्येक कथन, उपपत्ति में आपूर्व कथनों से या प्रमाणित किए जाने वाले परिणाम से स्वतंत्र पहले सिद्ध किए जा चुके परिणामों से या अभिगृहीतों से या परिभाषाओं से या आपके द्वारा की गई कल्पनाओं से प्राप्त होता है और आप अपनी उपपत्ति को कथन  $PQ = PR$  से समाप्त करते हैं अर्थात् उस कथन से जिसे आप सिद्ध करना चाहते थे।

उपपत्ति की रचना करने की यही विधि होती है।

अब हम कुछ उदाहरणों और प्रमेयों पर विचार करेंगे और उनकी उपपत्तियों का विश्लेषण करेंगे जिससे हमें यह अधिक अच्छी तरह समझने में सहायता मिलेगी कि इनकी रचना किस प्रकार की जाती है।

सबसे पहले हम उपपत्ति की तथाकथित ‘प्रत्यक्ष’ या ‘निगमनिक’ विधि के प्रयोग से प्रारंभ करेंगे। इस विधि में हम अनेक कथन प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक कथन पिछले कथनों पर आधारित होता है। यदि प्रत्येक कथन तार्किक रूप से सही है (अर्थात् एक मान्य तर्क है), तो इससे सही निष्कर्ष प्राप्त होता है।

**उदाहरण 10 :** दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है।

**हल :**

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	मान लीजिए, $x$ और $y$ परिमेय संख्याएँ हैं।	क्योंकि परिणाम परिमेय संख्याओं के बारे में है, इसीलिए हम $x$ और $y$ से प्रारंभ करते हैं जो कि परिमेय है।
2.	मान लीजिए $x = \frac{m}{n}$ , $n \neq 0$ और $y = \frac{p}{q}$ , $q \neq 0$ जहाँ $m, n, p$ और $q$ पूर्णांक हैं।	परिमेय संख्याओं की परिभाषा प्रयुक्त करें।
3.	अतः $x + y = \frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{mq + np}{nq}$	क्योंकि परिणाम परिमेय संख्याओं के योगफल के बारे में है, इसलिए हम $x + y$ लेते हैं।

4.	पूर्णांकों के गुणधर्मों को लागू करने पर हम देखते हैं कि $mq + np$ और $nq$ पूर्णांक हैं।	पूर्णांकों के ज्ञात गुणधर्मों के प्रयोग करने पर।
5.	क्योंकि $n \neq 0$ और $q \neq 0$ , इसलिए $nq \neq 0$ .	पूर्णांकों के ज्ञात गुणधर्मों का प्रयोग करके।
6.	अतः, $x + y = \frac{mq + np}{nq}$ एक परिमेय संख्या है।	परिमेय संख्या की परिभाषा का प्रयोग करके।

**टिप्पणी :** ध्यान दीजिए कि ऊपर की उपपत्ति का प्रत्येक कथन पहले से स्थापित किए गए तथ्य या परिभाषा पर आधारित है।

**उदाहरण 11 :** 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या  $6k + 1$  या  $6k + 5$  के रूप की होती है, जहाँ  $k$  एक पूर्णांक है।

**हल :**


क्र.सं.	कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
1.	मान लीजिए $p$ , 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है।	क्योंकि परिणाम का संबंध 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या से है, इसलिए सबसे पहले हम इस प्रकार की संख्या से प्रारंभ करते हैं।
2.	$p$ को 6 से भाग देने पर हम यह देखते हैं कि $p$ का रूप $6k$ , $6k + 1$ , $6k + 2$ , $6k + 3$ , $6k + 4$ , या $6k + 5$ हो सकता है, जहाँ $k$ एक पूर्णांक है।	यूक्लिड की विभाजन-प्रमेयिका का प्रयोग करने पर
3.	परंतु $6k = 2(3k)$ , $6k + 2 = 2(3k + 1)$ , $6k + 4 = 2(3k + 2)$ और $6k + 3 = 3(2k + 1)$ अतः ये अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं।	अब हम शेषफलों का विश्लेषण करेंगे जबकि $p$ एक अभाज्य संख्या हो।
4.	अतः $p$ को अनिवार्यतः $6k + 1$ या $6k + 5$ के रूप का होना होगा, जहाँ $k$ एक पूर्णांक है।	अन्य विकल्पों का निराकरण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।

**टिप्पणी :** ऊपर के उदाहरण में विभिन्न विकल्पों का निरकरण कर लेने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इस विधि को कभी-कभी निःशेषण द्वारा उपपत्ति (proof by exhaustion) कहा जाता है।

### प्रमेय A1.1 (पाइथागोरस-प्रमेय का विलोम):

यदि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई का वर्ग अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा का समुख कोण समकोण होता है।

### उपपत्ति :



आकृति A1.4

क्र.सं.	कथन	विश्लेषण
1.	मान लीजिए $\Delta ABC$ परिकल्पना $AC^2 = AB^2 + BC^2$ को संतुष्ट करती है।	क्योंकि हम इस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित कथन को सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हम इसी को लेकर प्रारंभ करते हैं।
2.	AB पर लंब रेखा BD की रचना कीजिए इस प्रकार कि $BD = BC$ हो और A को D से मिलाइए।	यह वह अंतर्ज्ञान वाला चरण है, जिसके बारे में हम कह चुके हैं कि इसकी आवश्यकता हमें प्रमेयों को सिद्ध करने में प्रायः होगी।
3.	रचना के अनुसार $\Delta ABD$ एक समकोण त्रिभुज है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार $AD^2 = AB^2 + BD^2$	हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं जिसे पहले सिद्ध किया जा चुका है।
4.	रचना के अनुसार $BD = BC$ है। अतः $AD^2 = AB^2 + BC^2$ .	तर्कसंगत निगमन
5.	अतः $AC^2 = AB^2 + BC^2 = AD^2$	कल्पना और पिछले कथन को लागू करने पर
6.	क्योंकि AC और AD धनात्मक है, इसलिए $AC = AD$	संख्याओं के ज्ञात गुणधर्म को लागू करने पर

7.	अभी ही हमने यह दर्शाया है कि $AC = AD$ और रचना के अनुसार $BC = BD$ और $AB$ उभयनिष्ठ है। अतः SSS के अनुसार $\Delta ABC \cong \Delta ABD$	ज्ञात प्रमेय लागू करने पर
8.	क्योंकि $\Delta ABC \cong \Delta ABD$ , इसलिए $\angle ABC = \angle ABD$ जो कि एक समकोण है	पहले स्थापित तथ्य के आधार पर तर्कसंगत निगमन

**टिप्पणी :** ऊपर दिए गए प्रत्येक परिणाम को एक-दूसरे से शृंखित चरणों के अनुक्रम से सिद्ध किया गया है। इनके क्रम का महत्व है। उपपत्ति का प्रत्येक चरण पिछले चरणों और पहले ज्ञात किए गए परिणामों से प्राप्त होता है (प्रमेय 6.9 भी देखिए)।

### प्रश्नावली A1.3

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको एक कथन सिद्ध करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक उपपत्ति में प्रयोग किए गए सभी चरण बताइए और प्रत्येक चरण के लिए कारण बताइए।

- सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 4 से भाज्य होता है।
- दो क्रमागत विषम संख्याएँ लीजिए। उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए और तब प्राप्त परिणाम में 6 जोड़ दीजिए। सिद्ध कीजिए कि इस तरह प्राप्त की गई नई संख्या सदा ही 8 से भाज्य होती है।
- यदि  $p \geq 5$  एक अभाज्य संख्या हो तो दिखाइए कि  $p^2 + 2$ , संख्या 3 से भाज्य है।  
[संकेत: उदाहरण 11 का प्रयोग कीजिए।]
- मान लीजिए  $x$  और  $y$  परिमेय संख्याएँ हैं। दिखाइए कि  $xy$  एक परिमेय संख्या है।
- यदि  $a$  और  $b$  धन पूर्णांक हों, तो आप जानते हैं कि  $a = bq + r$ ,  $0 \leq r < b$ , जहाँ  $q$  एक पूर्ण संख्या है। सिद्ध कीजिए  $HCF(a, b) = HCF(b, r)$   
[संकेत: मान लीजिए  $HCF(b, r) = h$  है। अतः  $b = k_1 h$  और  $r = k_2 h$ , जहाँ  $k_1$  और  $k_2$  असहभाज्य (co-prime) हैं।]
- त्रिभुज ABC की भुजा BC की एक समांतर रेखा भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

### A1.5 कथन का निषेध (Negation)

इस भाग में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किसी कथन का 'निषेध' करने का क्या अर्थ है, परंतु चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम आपको कुछ संकेतन से परिचित करा देना चाहते

हैं, जिनकी सहायता से हम इन संकल्पनाओं को सरलता से समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एक कथन को एक एकल इकाई के रूप में लें और उसे एक नाम दे दें। उदाहरण के लिए हम कथन ‘1 सितंबर, 2005 को दिल्ली में वर्षा हुई थी’ को  $p$  से प्रकट कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं

$p$ : 1 सितंबर, 2005 को दिल्ली में वर्षा हुई थी।

इसी प्रकार आइए हम यह भी लिख लें।

$q$ : सभी अध्यापक महिलाएँ हैं।

$r$ : माइक के कुत्ते की पूँछ काली है।

$s$ :  $2 + 2 = 4$ .

$t$ : त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है।

यह संकेतन हमें कथनों के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करने में सहायता करती है और इस बात में भी सहायता करती है कि हम उन्हें किस प्रकार संयोजित कर सकते हैं। प्रारंभ में उन कथनों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम ‘सरल’ कथन कहते हैं और तदुपरांत ‘मिश्र’ कथनों का अध्ययन करेंगे।

आइए अब हम निम्नलिखित सारणी पर विचार करें जिसमें हम दिए हुए प्रत्येक कथन से एक नया कथन की रचना करेंगे।

मूल कथन	नया कथन
$p$ : 1 सितंबर 2005 को दिल्ली में वर्षा हुई थी।	$\sim p$ : यह असत्य है कि 1 सितंबर, 2005 को दिल्ली में वर्षा हुई थी।
$q$ : सभी अध्यापक महिला हैं।	$\sim q$ : यह असत्य है कि सभी अध्यापक महिला हैं।
$r$ : माइक के कुत्ते की पूँछ काली है।	$\sim r$ : यह असत्य है कि माइक के कुत्ते की पूँछ काली है।
$s$ : $2 + 2 = 4$	$\sim s$ : यह असत्य है कि $2 + 2 = 4$
$t$ : त्रिभुज ABC समबाहु है।	$\sim t$ : यह असत्य है कि त्रिभुज ABC समबाहु है।

सारणी में दिया गया प्रत्येक नया कथन संगत पुराने कथन का निषेध (negation) है। अर्थात्  $\sim p$ ,  $\sim q$ ,  $\sim r$ ,  $\sim s$  और  $\sim t$  क्रमशः कथनों  $p$ ,  $q$ ,  $r$ ,  $s$  और  $t$  के निषेध हैं। यहाँ  $\sim p$  को

‘नहीं  $p$ ’ (not  $p$ ) पढ़ा जाता है। कथन  $\sim p$ , उस निश्चयात्मक कथन (assertion) का निषेध करता है जिसे कथन  $p$  कहता है। ध्यान दीजिए कि अपनी सामान्य बातचीत में  $\sim p$  का अर्थ यह है कि ‘1 सितंबर, 2005 को दिल्ली में वर्षा नहीं हुई थी।’ फिर भी, ऐसा करते समय हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आप संभवतः यह सोच सकते हैं कि दिए हुए कथन में किसी उपयुक्त स्थान पर केवल शब्द ‘नहीं’ लगा देने से ही कथन का निषेध प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि यह क्रिया  $p$  के संबंध में तो लागू हो जाती है, परंतु कठिनाई तब होती है जबकि हमारा कथन शब्द ‘सभी’ से प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए कथन  $q$ : सभी अध्यापक महिला हैं पर विचार कीजिए। हमने यह कहा है कि इस कथन का निषेध  $\sim q$ : यह असत्य है कि सभी अध्यापक महिला होती हैं। यह इस कथन के ही समान है कि ‘कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो पुरुष हैं।’ आइए अब यह देखें कि जब हम  $q$  में केवल ‘नहीं’ लगा देते हैं तब क्या होता है। तब हमें यह कथन प्राप्त होता है कि “सभी अध्यापक महिला नहीं हैं” या हम यह कथन प्राप्त कर सकते हैं कि “नहीं हैं सभी अध्यापक महिला।” पहले कथन से लोग भ्रम में पड़ सकते हैं, इससे यह अर्थ निकलता है कि सभी अध्यापक पुरुष हैं (यदि हम शब्द ‘सभी’ पर बल देते हैं)। यह निश्चय ही  $q$  का निषेध नहीं है। तथापि दूसरे कथन से  $\sim q$  का अर्थ प्राप्त हो जाता है अर्थात् कम से कम एक अध्यापक ऐसा है जो महिला नहीं है। अतः किसी कथन का निषेध लिखते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

अब, हम इस बात का निर्णय कैसे करें कि जो निषेध हमने प्राप्त किया है वह सही है या नहीं? इसके लिए हम निम्नलिखित कसौटी का प्रयोग करते हैं।

मान लीजिए  $p$  एक कथन है और  $\sim p$  इसका निषेध है। तब  $\sim p$  असत्य होता है जब कभी  $p$  सत्य होता है और  $\sim p$  सत्य होता है जब कभी  $p$  असत्य होता है।

उदाहरण के लिए, यदि यह सत्य है कि माइक के कुत्ते की पूँछ काली है, तो यह असत्य है कि माइक के कुत्ते की पूँछ काली नहीं है। यदि यह असत्य है कि माइक के कुत्ते की पूँछ काली है, तो यह सत्य है कि माइक के कुत्ते की पूँछ काली नहीं है।

इसी प्रकार कथनों  $s$  और  $t$  के निषेध ये हैं:

$$s : 2 + 2 = 4; \text{ निषेध } \sim s : 2 + 2 \neq 4$$

$t$ : त्रिभुज ABC समबाहु है,  $\sim t$ : त्रिभुज ABC समबाहु नहीं है।

अब,  $\sim(\sim s)$  क्या है? यह  $2 + 2 = 4$  होगा जो कि  $s$  है और  $\sim(\sim t)$  क्या है? यह त्रिभुज ABC समबाहु है’ अर्थात्  $t$  होगा। वस्तुतः यदि कोई कथन  $p$  हो, तो  $\sim(\sim p)$  स्वयं कथन  $p$  होता है।

**उदाहरण 12 :** निम्नलिखित कथनों के निषेध बताइएः

- (i) माइक के कुत्ते की पूँछ काली नहीं है।
- (ii) सभी अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ होती हैं।
- (iii)  $\sqrt{2}$  अपरिमेय है।
- (iv) कुछ परिमेय संख्याएँ पूर्णांक होती हैं।
- (v) सभी अध्यापक पुरुष नहीं हैं।
- (vi) कुछ घोड़े भूरे नहीं हैं।
- (vii) ऐसी कोई वास्तविक संख्या  $x$  नहीं है जिससे कि  $x^2 = -1$

**हल :**

- (i) यह असत्य है कि माइक के कुत्ते की पूँछ काली नहीं है अर्थात् माइक के कुत्ते की पूँछ काली है।
- (ii) यह असत्य है कि सभी अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ हैं अर्थात् कुछ (कम से कम एक) अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ नहीं हैं। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ‘सभी अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ नहीं हैं।’
- (iii) यह असत्य है कि  $\sqrt{2}$  अपरिमेय है अर्थात्  $\sqrt{2}$  अपरिमेय नहीं है।
- (iv) यह असत्य है कि कुछ परिमेय संख्याएँ पूर्णांक होती हैं अर्थात् कोई भी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है।
- (v) यह असत्य है कि सभी अध्यापक पुरुष नहीं हैं अर्थात् सभी अध्यापक पुरुष हैं।
- (vi) यह असत्य है कि कुछ घोड़े भूरे नहीं हैं अर्थात् सभी घोड़े भूरे हैं।
- (vii) यह असत्य है कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या  $x$  नहीं है जिससे कि  $x^2 = -1$  अर्थात् कम से कम एक वास्तविक संख्या  $x$  है जिससे कि  $x^2 = -1$

**टिप्पणी :** ऊपर की चर्चा से किसी कथन का निषेध प्राप्त करने का निम्नलिखित कार्यकारी नियम (working rule) प्राप्त कर सकते हैंः

- (i) पहले ‘नहीं’ के साथ कथन लिखिए।
- (ii) यदि कोई भ्रम हो, तो आप कुछ उपयुक्त संशोधन (modification) कर सकते हैं, विशेष रूप से ‘सभी’ या ‘कुछ’ से संबंधित कथनों में।

#### प्रश्नावली A1.4

1. निम्नलिखित कथनों के निषेध लिखिएः

- (i) मनुष्य नश्वर (mortal) है। (ii) रेखा / रेखा  $m$  के समांतर है।

(iii) इस अध्याय में अनेक प्रश्नावलियाँ हैं। (iv) सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है।

(v) कुछ अभाज्य संख्याएँ विषम हैं। (vi) कोई छात्र आलसी नहीं है।

(vii) कुछ बिल्लियाँ काली नहीं हैं।

(viii) ऐसी कोई संख्या  $x$  नहीं है जिससे कि  $\sqrt{x} = -1$

(ix) संख्या 2, धन पूर्णांक  $a$  को विभाजित करती है। (x) पूर्णांक  $a$  और  $b$  असहभाज्य है।

2. नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो कथन हैं। बताइए कि दूसरा कथन पहले कथन का निषेध है या नहीं

<p>(i) मुमताज भूखी है, मुमताज भूखी नहीं है।</p> <p>(iii) सभी हाथी विशाल हैं। एक हाथी विशाल नहीं है।</p> <p>(v) कोई आदमी गाय नहीं है। कुछ आदमी गाय हैं।</p>	<p>(ii) कुछ बिल्लियाँ काली हैं, कुछ बिल्लियाँ भूरी हैं।</p> <p>(iv) सभी अग्निशामक यंत्र लाल हैं। सभी अग्निशामक यंत्र लाल नहीं हैं।</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## A1.6 कथन का विलोम

अब हम एक कथन के विलोम की अभिधारणा (notion) का पता लगाएँगे। इसके लिए हमें 'मिश्र (compound)' कथन की अर्थात् एक ऐसे कथन की आवश्यकता होती है जो एक या अधिक 'सरल' कथनों का संयोजन होता है। ऐसे तो मिश्र कथन बनाने की अनेक विधियाँ हैं, परंतु यहाँ हम उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो शब्दों 'यदि' और 'तो' के प्रयोग द्वारा दो सरल कथनों को जोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कथन

कथन ‘यदि वर्षा हो रही है, तो साइकिल से जाना कठिन है’ निम्नलिखित दो कथनों से बना है।

*p:* वर्षा हो रही है।

q: साइकिल से जाना कठिन।

पूर्व में बताए गए संकेतन का प्रयोग करके हम यह कह सकते हैं: यदि  $p$ , तो  $q$  है। हम यह भी कह सकते हैं कि ' $p$  से तात्पर्य  $q$  प्राप्त होता है'। और इसे हम  $p \Rightarrow q$  से प्रकट करते हैं।

अब, मान लीजिए कि कथन यह है कि ‘यदि पानी की टंकी काली है, तो इसमें पीने का पानी है।’ यह  $p \Rightarrow q$  के रूप का है जहाँ परिकल्पना  $p$  है (पानी की टंकी काली है) और निष्कर्ष  $q$  है (टंकी में पीने का पानी है)। मान लीजिए हम परिकल्पना और निष्कर्ष का

विनिमय (Interchange) कर दें, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है? हमें  $q \Rightarrow p$  प्राप्त होता है अर्थात् यदि टंकी में पीने वाला पानी है, तो टंकी अवश्य काली होगी। इस कथन को कथन  $p \Rightarrow q$  का **विलोम** (converse) कहते हैं।

व्यापक रूप में कथन  $p \Rightarrow q$  का विलोम  $q \Rightarrow p$  होता है जहाँ  $p$  और  $q$  कथन हैं। ध्यान दीजिए कि  $p \Rightarrow q$  और  $q \Rightarrow p$  एक-दूसरे के विलोम हैं।

**उदाहरण 13 :** निम्नलिखित कथनों के विलोम लिखिए:

- यदि जमीला साइकिल चला रही है, तो 17 अगस्त रविवार को पड़ता है।
- यदि 17 अगस्त रविवार है, तो जमीला साइकिल चला रही है।
- यदि पौलिने क्रोधित होती है, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है।
- यदि एक व्यक्ति के पास शिक्षा में स्नातक की डिग्री है, तो उसे शिक्षण की अनुमति होती है।
- यदि एक व्यक्ति को वायरल संक्रमण है, तो उसे तेज बुखार होता है।
- यदि अहमद मुंबई में है, तो वह भारत में है।
- यदि त्रिभुज ABC समबाहु है, तो उसके सभी अंतःकोण बराबर होते हैं।
- यदि  $x$  एक अपरिमेय संख्या है, तो  $x$  का दशमलव प्रसार अनवसानी (non-terminating) अनावर्ती (non-recurring) होता है।
- यदि  $x - a$  बहुपद  $p(x)$  का एक गुणनखंड है, तो  $p(a) = 0$ .

**हल :** ऊपर दिया गया प्रत्येक कथन  $p \Rightarrow q$  के रूप का है। अतः विलोम ज्ञात करने के लिए पहले हम  $p$  और  $q$  को पहचानते हैं और तब  $q \Rightarrow p$  लिखते हैं।

- $p$ : जमीला साइकिल चला रही है और  $q$ : 17 अगस्त रविवार को पड़ता है। अतः विलोम यह है यदि 17 अगस्त रविवार को पड़ता है, तो जमीला साइकिल चला रही है।
- यह (i) का विलोम है। अतः इसका विलोम ऊपर (i) में दिया गया कथन है।
- यदि पौलीन का चेहरा लाल हो जाता है, तो वह क्रोधित है।
- यदि एक व्यक्ति को पढ़ाने की अनुमति है, तो उसके पास शिक्षा में स्नातक की डिग्री है।
- यदि एक व्यक्ति को तेज बुखार है तो, उसे वायरल संक्रमण है।
- यदि अहमद भारत में है, तो वह मुंबई में है।
- यदि त्रिभुज ABC के सभी अंतःकोण बराबर हैं, तो वह समबाहु त्रिभुज है।
- यदि  $x$  का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, तो  $x$  एक परिमेय संख्या है।
- यदि  $p(a) = 0$ , तो  $x - a$  बहुपद  $p(x)$  का एक गुणनखंड है।

ध्यान दीजिए कि इस बात की चिंता किए बिना कि कथन सत्य है या असत्य, हमने ऊपर दिए गए प्रत्येक कथन का केवल विलोम लिख दिया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि अहमद मुंबई में है, तो वह भारत में है। यह कथन सत्य है। आइए अब हम इसका विलोम लें। यदि अहमद भारत में है, तो वह मुंबई में है। यह आवश्यक नहीं है कि यह सदा सत्य ही हो—वह भारत के किसी भी भाग में हो सकता है।

गणित में, विशेष रूप से ज्यामिति में आपको ऐसी अनेक स्थितियाँ मिलती हैं, जहाँ  $p \Rightarrow q$  सत्य होता है और आपको यह निर्णय लेना होता है कि क्या विलोम अर्थात्  $q \Rightarrow p$  भी सत्य है।

**उदाहरण 14 :** निम्नलिखित कथनों के विलोम बताइए। प्रत्येक स्थिति में यह भी निर्णय लीजिए कि विलोम सत्य है या असत्य।

- (i) यदि  $n$  एक सम पूर्णांक है, तो  $2n + 1$  एक विषम पूर्णांक होता है।
- (ii) यदि एक वास्तविक संख्या का दशमलव-प्रसार सांत (terminating) है, तो संख्या परिमेय है।
- (iii) यदि एक तिर्यक् छेदी रेखा (transversal) दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
- (iv) यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख-भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है।
- (v) यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं।

#### हल :

- (i) विलोम यह है कि ‘यदि  $2n + 1$  एक विषम पूर्णांक है, तो  $n$  एक सम पूर्णांक होता है।’ यह एक असत्य कथन है (उदाहरण के लिए  $15 = 2(7) + 1$ , और 7 विषम है।)
- (ii) ‘यदि एक वास्तविक संख्या परिमेय है, तो इसका दशमलव प्रसार सांत होता है।’ यह विलोम है। यह एक असत्य कथन है। क्योंकि परिमेय संख्या का एक अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी हो सकता है।
- (iii) विलोम यह है कि ‘यदि एक तिर्यक् छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती हो कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएँ समांतर होती हैं।’ कक्षा IX की पाठ्यपुस्तक के अभिगृहीत 6.4 के अनुसार हमने यह मान लिया है कि यह कथन सत्य है।
- (iv) ‘यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, तो इसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।’ यह विलोम है। यह सत्य है (प्रमेय 8.1, कक्षा IX)।

(v) 'यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, तो वे सर्वांगसम होते हैं' विलोम है। यह कथन असत्य है। यह हम आप पर छोड़ रहे हैं कि आप इनके लिए एक उपयुक्त प्रत्युदाहरण ज्ञात करें।

### प्रश्नावली A1.5

1. निम्नलिखित कथनों के विलोम लिखिए
  - (i) यदि टोकियो में गर्मी हो, तो शरन के शरीर से अधिक पसीना निकलने लगता है।
  - (ii) यदि शालिनी भूखी हो, तो उसका पेट कुड़कुड़ाने लगता है।
  - (iii) यदि यशवंत को छात्र-वृत्ति मिल रही हो, तो उसे एक डिग्री मिल सकती है।
  - (iv) यदि पौधे में फूल लगे हुए हों, तो वह सजीव होता है।
  - (v) यदि जानवर एक बिल्ली है, तो इसकी एक पूँछ होती है।
2. निम्नलिखित कथनों के विलोम लिखिए। प्रत्येक स्थिति में यह बताइए कि विलोम सत्य है या असत्य
  - (i) यदि त्रिभुज ABC समद्विबाहु हो, तो इसके आधार कोण बराबर होते हैं।
  - (ii) यदि एक पूर्णांक विषम हो, तो इसका वर्ग एक विषम पूर्णांक होता है।
  - (iii) यदि  $x^2 = 1$ , तो  $x = 1$
  - (iv) यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो, तो AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
  - (v) यदि  $a, b$  और  $c$  पूर्ण संख्याएँ हैं, तो  $a + (b + c) = (a + b) + c$
  - (vi) यदि  $x$  और  $y$  दो विषम संख्याएँ हैं, तो  $x + y$  एक सम संख्या होती है।
  - (vii) यदि एक समांतर चतुर्भुज PQRS के शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर स्थित हों, तो वह एक आयत होता है।

### A1.7 विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति

अभी तक आपने सभी उदाहरणों में परिणामों की सत्यता स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष तर्क का प्रयोग किया था। अब हम 'परोक्ष' तर्कों विशेषरूप से 'विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति' (proof by contradiction) नामक गणित के एक अति शक्तिशाली साधन का पता लगाएँगे। हम इस विधि का प्रयोग अध्याय 1 में अनेक संख्याओं की अपरिमेयता स्थापित करने और अन्य अध्यायों में कुछ प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए कर चुके हैं। यहाँ हम इस अभिधारणा को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण लेंगे।

आगे अध्ययन करने से पहले आइए हम इस बात पर चर्चा करें कि विरोधोक्ति क्या है। गणित में विरोध तब होता है जबकि हमें एक ऐसा कथन  $p$  प्राप्त होता है कि  $p$  सत्य होता है और इसका निषेध  $\sim p$  भी सत्य होता है। उदाहरण के लिए,

$p$ : , जहाँ  $a$  और  $b$  असहभाज्य संख्याएँ हैं।

$q$ : संख्या 2 'a' और 'b' दोनों को विभाजित करती है।

यदि हम यह मान लें कि  $p$  सत्य है और हम यह भी दर्शा सकें कि  $q$  भी सत्य है, तो, हमें एक विरोधोक्ति प्राप्त होती है क्योंकि  $q$  का यह तात्पर्य है कि  $p$  का निषेध सत्य है। यदि आपको याद हो कि यही बात यथातथ्य तब घटी थी जब हम यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि  $\sqrt{2}$  अपरिमेय है (देखिए अध्याय 1)।

विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति किस प्रकार कार्य करती है? आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेकर इस पर हम विचार करें। मान लीजिए निम्नलिखित दिया हुआ है:

सभी महिलाएँ नश्वर होती हैं। A एक महिला है। सिद्ध कीजिए कि महिला A नश्वर है।

यद्यपि यह एक सरल उदाहरण है, फिर भी आइए हम देखें कि विरोधोक्ति से इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं।

- आइए हम यह मान लें कि हम कथन  $p$  की सत्यता स्थापित करना चाहते हैं (यहाँ हम यह दर्शाना चाहते हैं कि  $p$  : 'महिला A नश्वर है' सत्य है)
- अतः सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि कथन सत्य नहीं है अर्थात् हम यह मान लेते हैं कि  $p$  का निषेध सत्य है। (अर्थात् महिला A नश्वर नहीं है)।
- तब हम  $p$  के निषेध की सत्यता पर आधारित अनेक तर्कसंगत निगमन करते हैं। (क्योंकि 'महिला A नश्वर नहीं है' इसलिए हमें कथन 'सभी महिलाएँ नश्वर हैं' का एक प्रत्युदाहरण प्राप्त हो जाता है। अतः यह असत्य है कि सभी महिलाएँ नश्वर हैं।)
- यदि इससे विरोधोक्ति उत्पन्न होती है, तो यह विरोधोक्ति हमारी दोषपूर्ण मान्यता कि ' $p$  सत्य नहीं है' के कारण होता है। (यह एक विरोधोक्ति है क्योंकि हमने यह दर्शाया है कि कथन 'सभी महिलाएँ नश्वर है' और इसका निषेध कि 'सभी महिलाएँ नश्वर नहीं हैं', सत्य है। यह विरोधोक्ति इसलिए होती है, क्योंकि हम यह मानकर चले थे कि A नश्वर नहीं है।)
- अतः हमारी कल्पना गलत है अर्थात्  $p$  को सत्य होना ही है (अतः A नश्वर है)।

**उदाहरण 15 :** एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है।

**हल :**

कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
हम विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए $r$ एक शून्येतर परिमेय संख्या है और $x$ एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए, $r = \frac{m}{n}$ जहाँ $m, n$ पूर्णांक हैं और $m \neq 0$ , $n \neq 0$ हमें यह सिद्ध करना है कि $rx$ अपरिमेय है।	
मान लीजिए $rx$ परिमेय है।	यहाँ हम उस कथन का निषेध सत्य मान ले रहे हैं जिसे हमें सिद्ध करना है।
तब, $rx = \frac{p}{q}$ , $q \neq 0$ , जहाँ $p$ और $q$ पूर्णांक हैं।	यह पिछले कथन और परिमेय संख्या की परिभाषा से प्राप्त होता है।
समीकरण $rx = \frac{p}{q}$ , $q \neq 0$ , और $r = \frac{m}{n}$ , का प्रयोग करने पर हमें $x = \frac{p}{rq} = \frac{np}{mq}$ प्राप्त होता है।	
क्योंकि $np$ और $mq$ पूर्णांक हैं और $mq \neq 0$ , इसलिए $x$ एक परिमेय संख्या है।	पूर्णांकों के गुणधर्मों और परिमेय संख्या की परिभाषा का प्रयोग करने पर
यह एक विरोधोक्ति है क्योंकि हमने $x$ को परिमेय दिखाया है, परंतु हमारी परिकल्पना के अनुसार $x$ अपरिमेय है।	इसी विरोधोक्ति को हम ढूँढ़ रहे थे।
विरोधोक्ति इस दोषपूर्ण कल्पना, कि $rx$ परिमेय है के कारण होता है।	तर्कसंगत निगमन


अब हम उदाहरण 11 सिद्ध करेंगे, परंतु इस बार हम विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करेंगे। परिणाम नीचे दिया गया है।

कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
आइए हम यह मान लें कि कथन सत्य नहीं है।	जैसाकि हम पहले देख चुके हैं कि यह विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति की सहायता से तर्क देने का प्रारंभ है।
अतः हम यह मान लेते हैं कि एक ऐसी अभाज्य संख्या $p > 3$ होती है जो $6n + 1$ या $6n + 5$ के रूप का होता है, जहाँ $n$ एक पूर्ण संख्या है।	यह परिणाम के कथन का निषेध है।
6 के भाग पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने और इस तथ्य का प्रयोग करने पर कि $p$ , $6n + 1$ या $6n + 5$ के रूप का नहीं है, हमें $p = 6n$ या $6n + 2$ या $6n + 3$ या $6n + 4$ प्राप्त होता है।	पहले सिद्ध किए गए परिणामों का प्रयोग करने पर।
अतः $p$ या तो 2 या 3 से भाज्य है।	तर्कसंगत निगमन
इसलिए, $p$ अभाज्य नहीं है।	तर्कसंगत निगमन
यह एक विरोधोक्ति है, क्योंकि हमारी परिकल्पना के अनुसार $p$ अभाज्य है।	तथ्यतः हम यहीं चाहते हैं
विरोधोक्ति इसलिए होती है क्योंकि हम यह मानकर चले थे कि एक ऐसी अभाज्य संख्या $p > 3$ होती है, जो $6n + 1$ या $6n + 5$ के रूप की नहीं होती।	
परिणामतः 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या $6n + 1$ या $6n + 5$ रूप की है।	यह निष्कर्ष प्राप्त करते हैं।

**टिप्पणी :** ऊपर की उपपत्ति के उदाहरण से यह पता चलता है कि एक परिणाम को अनेक विधियों से सिद्ध किया जा सकता है।

**प्रमेय A1.2 :** एक बिंदु से उस रेखा के, जो उस बिंदु से होकर नहीं जाती है, बिंदुओं को मिलाने वाले सभी रेखा-खंडों में लघुतम रेखा-खंड रेखा पर लंब होता है।

**उपपत्ति :**



### आकृति A1.5

कथन	विश्लेषण/टिप्पणी
मान लीजिए $XY$ दी हुई रेखा है, $P$ एक बिंदु है, जो $XY$ पर स्थित नहीं है और $PM, PA_1, PA_2, \dots$ आदि, बिंदु $P$ से रेखा $XY$ के बिंदुओं तक खींचे गए रेखा-खंड हैं जिनमें $PM$ लघुतम रेखा-खंड है (आकृति A 1.5 देखिए)	क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है कि सभी रेखा-खंडों $PM, PA_1, PA_2, \dots$ आदि में लघुतम रेखा-खंड, $XY$ पर लंब होता है, अतः सबसे पहले हम इन रेखा-खंडों को लेते हैं।
मान लीजिए $PM, XY$ पर लंब नहीं है।	यह विरोधोक्ति द्वारा सिद्ध किए जाने वाले कथन का निषेध है।
रेखा $XY$ पर $PN$ लंब डालिए, जैसाकि आकृति A 1.5 में बिंदुकित रेखा से दिखाया गया है।	परिणामों को सिद्ध करने के लिए हमें प्रायः रचना करने की आवश्यकता पड़ती है।
सभी रेखा-खंडों $PM, PN, PA_1, PA_2, \dots$ आदि में $PN$ लघुतम रेखा-खंड है, जिसका अर्थ यह है कि $PN < PM$	समकोण त्रिभुज की भुजा कर्ण से छोटी होती है और संख्याओं के ज्ञात गुणधर्म।
यह हमारे इस परिकल्पना की विरोधोक्ति है कि ऐसी सभी रेखा-खंडों में $PM$ लघुतम रेखा-खंड है।	यथातथ्य हम यहीं चाहते हैं।
अतः रेखा-खंड $PM, XY$ पर लंब है।	हम निष्कर्ष पर आ जाते हैं।

### प्रश्नावली A1.6

- मान लीजिए  $a + b = c + d$ , और  $a < c$ , तो विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करके यह दिखाइए कि  $b > d$
- मान लीजिए  $r$  एक परिमेय संख्या है और  $x$  एक अपरिमेय संख्या है। विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करके यह दिखाइए कि  $r + x$  एक अपरिमेय संख्या है।
- विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करके यह सिद्ध कीजिए कि यदि किसी पूर्णांक  $a$  के लिए  $a^2$  सम है, तो  $a$  भी सम होता है।  
[संकेत: मान लीजिए  $a$  सम नहीं है, अर्थात् यह  $2n + 1$  के रूप का है, जहाँ  $n$  एक पूर्णांक है और तब आगे बढ़िए।]
- ‘विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति’ का प्रयोग करके यह सिद्ध कीजिए कि यदि पूर्णांक  $a$  के लिए  $a^2, 3$  से भाज्य हो, तो  $a, 3$  से भाज्य है।
- विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करके यह दिखाइए कि  $n$  का ऐसा कोई मान नहीं होता जिसके लिए  $6^n$  का अंतिम अंक शून्य हो।
- विरोधोक्ति का प्रयोग करके यह सिद्ध कीजिए कि एक समतल की दो रेखाएँ एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं।

### A1.8 सारांश

इस परिशिष्ट में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है:

- किसी उपपत्ति के विभिन्न अवयव और कक्षा 9 में पढ़ी गई अन्य संबंधित संकल्पनाएँ।
- किसी कथन का निषेध।
- किसी कथन का विलोम।
- विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति।

# गणितीय निदर्शन A2

## A2.1 भूमिका

- एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 1,50,000 किमी लंबी धमनियाँ और शिराएँ होती हैं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है।
- मनुष्य का हृदय शरीर में प्रति 60 सेकंड में 5 से 6 लीटर तक रक्त पंप करता रहता है।
- सूर्य की सतह का तापमान लगभग  $6000^{\circ}\text{C}$  है।

क्या आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि किस प्रकार हमारे वैज्ञानिक और गणितज्ञ इन परिणामों का आकलन कर सके हैं? क्या उन्होंने कुछ वयस्कों के मृत शरीरों से धमनियों और शिराओं को बाहर निकाल कर इनकी लंबाई मापी है? क्या हृदय द्वारा प्रति सेकंड पंप किए गए रक्त की मात्रा ज्ञात करने के लिए शरीर से रक्त को बाहर निकाला है? क्या सूर्य की सतह का तापमान ज्ञात करने के लिए उन्होंने अपने साथ थर्मोमीटर लेकर सूर्य तक की यात्रा की है? निश्चय ही ऐसा नहीं हुआ है। तब प्रश्न उठता है कि उन्होंने इन आँकड़ों को किस तरह प्राप्त किया है?

निश्चय ही इसका उत्तर गणितीय निदर्शन में निहित है, जिससे हम आपको कक्षा IX में परिचित करा चुके हैं। आपको याद होगा कि गणितीय निदर्शन वास्तविक जीवन से जुड़ी किसी स्थिति का गणितीय विवरण होता है और आपको यह भी याद होगा कि गणितीय निदर्शन किसी समस्या का गणितीय निर्दर्श प्राप्त करने का एक प्रक्रम है। साथ ही समस्या का विश्लेषण करने और हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है।

अतः गणितीय निदर्शन में, हम वास्तविक जगत से जुड़ी किसी समस्या को लेते हैं और उसे हम एक तुल्य गणितीय समस्या में रूपांतरित कर देते हैं। तब हम गणितीय समस्या हल

करते हैं और इसके हल की व्याख्या वास्तविक जगत् से जुड़ी समस्या के साथ करते हैं। और तब यह देखना आवश्यक है कि प्राप्त हल अर्थपूर्ण है, जो निर्दर्श के मान्यकरण का एक चरण है। कुछ उदाहरण जहाँ गणितीय निर्दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, नीचे दिए हैं:

- (i) एक ऐसे स्थान पर किसी नदी की गहराई और चौड़ाई ज्ञात करना जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है।
- (ii) पृथ्वी और अन्य ग्रहों का द्रव्यमान आकलित करना।
- (iii) पृथ्वी और किसी अन्य ग्रह के बीच की दूरी आकलित करना।
- (iv) किसी देश में मानसून के आने की प्रागुक्ति करना।
- (v) स्टॉक मार्केट की प्रवृत्ति (Trend) की प्रागुक्ति करना।
- (vi) किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त का आयतन आकलित करना।
- (vii) 10 वर्ष बाद किसी नगर की जनसंख्या की प्रागुक्ति करना।
- (viii) किसी पेड़ की पत्तियों की संख्या आकलित करना।
- (ix) किसी नगर के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रदूषकों का ppm आकलित करना।
- (x) पर्यावरण पर प्रदूषकों का प्रभाव आकलित करना।
- (xi) सूर्य की सतह का तापमान आकलित करना।

इस अध्याय में हम गणितीय निर्दर्शन के प्रक्रम पर पुनःविचार करेंगे और इसे स्पष्ट करने के लिए हम अपने आस-पास के के जगत् से जुड़े कुछ उदाहरण लेंगें। अनुच्छेद A2.2 में हम एक निर्दर्श के निर्माण से संबंधित सभी चरणों से आपको परिचित कराएँगे। अनुच्छेद A2.3 में हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद A2.4 में, हम गणितीय निर्दर्शन के महत्व से संबंधित कारणों पर विचार करेंगे।

यहाँ यह स्मरण रहे कि हमारा लक्ष्य उस महत्वपूर्ण विधि के प्रति आपको जागरूक करना है, जिसमें गणित वास्तविक जगत् से जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। फिर भी गणितीय निर्दर्शन के महत्व को वास्तव में समझने के लिए आपको गणित का कुछ और ज्ञान होना आवश्यक होता है। उच्च कक्षाओं में आपको इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखने को मिलेंगे।

## A2.2 गणितीय निर्दर्शन के चरण

कक्षा IX में, हमने निर्दर्शन के प्रयोग से संबंधित कुछ उदाहरणों पर विचार किया था। क्या इन उदाहरणों से आपको प्रक्रम और इससे संबंधित चरणों की कुछ सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हुई थी? आइए हम गणितीय निर्दर्शन से संबंधित मुख्य चरणों पर पुनःविचार करें।

**चरण 1 (समस्या समझना)** वास्तविक समस्या परिभाषित कीजिए और यदि आप एक समूह में काम कर रहे हैं, तो उन समस्याओं पर विचार कीजिए जिन्हें आप समझना चाहते हैं। कुछ कल्पनाएँ करके और कुछ कारकों की उपेक्षा करके समस्या को प्रबंध योग्य कीजिए जिससे कि समस्या का प्रबंधन किया जा सके।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमारी समस्या एक झील में मछलियों की संख्या आकलित करना है। यहाँ यह संभव नहीं है कि प्रत्येक मछली को पकड़ कर बाहर निकाला जाए और फिर उनकी गिनती की जाए। ऐसी स्थिति में हम संभवतः एक प्रतिदर्श (Sample) ले सकते हैं और इसकी सहायता से झील में उपस्थित मछलियों की कुल संख्या आकलित करने का प्रयास कर सकते हैं।

**चरण 2 (गणितीय विवरण और सूत्रण):** समस्या के विभिन्न पहलुओं का वर्णन गणितीय शब्दों में कीजिए। लक्षणों को गणितीय रूप में वर्णन करने की कुछ विधियाँ ये हैं:

- चरों को परिभाषित कीजिए
- समीकरण या असमिकाएँ लिखिए
- आँकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें सारणी रूप में संगठित कीजिए
- ग्राफ बनाइए
- प्रायिकताएँ परिकलित कीजिए

उदाहरण के लिए: एक प्रतिदर्श लेकर जैसा कि चरण 1 में बताया गया है, हम मछलियों की कुल संख्या का आकलन किस प्रकार करते हैं? तब हम प्रतिदर्श के रूप में ली गई मछलियों को चिह्नित करते हैं, और उन्हें शेष मछलियों के साथ रहने के लिए झील में पुनः छोड़ देते हैं। इसके बाद पुनः झील से मछलियों का एक अन्य प्रतिदर्श लेते हैं और यह देखते हैं कि इस नए प्रतिदर्श में पहले चिह्नित की गई कितनी मछलियाँ हैं। तब अनुपात और समानुपात का प्रयोग करके हम मछलियों की कुल संख्या का एक आकलन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम झील से 20 मछलियों का एक प्रतिदर्श लें और उन्हें चिह्नित कर तदुपरांत उन्हें उसी झील में छोड़ दें जिससे वे झील की शेष मछलियों के साथ

मिल जाएँ। तब मछलियों के इस मिश्रित समूह से हम एक अन्य प्रतिदर्श (मान लीजिए 50 मछलियों का प्रतिदर्श) लेते हैं और देखते हैं कि इस नए प्रतिदर्श में चिह्नित मछलियों की संख्या कितनी है। अतः हम अपने आँकड़े एकत्रित करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं।

यहाँ हम यह मान कर चलते हैं कि चिह्नित मछलियाँ अन्य मछलियों के साथ एक समान रूप से मिल जाती हैं और जो प्रतिदर्श हम लेते हैं, वह मछलियों की कुल संख्या का एक अच्छा प्रतिनिधि है।

**चरण 3 (गणितीय समस्या हल करना):** तब विभिन्न गणितीय तकनीकों को लागू करके चरण 2 में विकसित की गई सरलीकृत गणितीय समस्या को हल किया जाता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चरण 2 के उदाहरण के दूसरे प्रतिदर्श में 5 मछलियाँ चिह्नित हैं। अतः मछलियों की कुल संख्या का  $\frac{5}{50}$  अर्थात्  $\frac{1}{10}$  चिह्नित है। यदि यह कुल संख्या का प्रतिरूपी हो, तो जनसंख्या का  $\frac{1}{10} = 20$ .

अतः कुल जनसंख्या =  $20 \times 10 = 200$ .

**चरण 4 (हल की व्याख्या):** पिछले चरण में प्राप्त किए गए हल को अब हम वास्तविक जीवन से जुड़ी उस स्थिति के संदर्भ में लेते हैं, जिससे हमने चरण 1 प्रारंभ की थी।

उदाहरण के लिए चरण 3 की समस्या का हल करने पर हमें मछलियों की कुल संख्या 200 प्राप्त हुई थी।


**चरण 5 (निर्दर्श का मान्यकरण):** अब हम अपनी मूल स्थिति पर लौट आते हैं और देखते हैं कि गणितीय विधि से प्राप्त किए गए परिणाम सार्थक हैं या नहीं। यदि सार्थक हैं तो हम निर्दर्श का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक कि नई सूचना उपलब्ध नहीं होती है या कल्पनाएँ परिवर्तित हो जाती हैं।

कभी-कभी सरलीकरण के संबंध में की गई कल्पनाओं के कारण गणितीय विवरण देते समय वास्तविक समस्या के अनिवार्य पहलुओं से हम वंचित रह सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हल बहुधा वास्तविकता से हट कर होता है और वास्तविक स्थिति में इसका कोई अर्थ नहीं होता। यदि ऐसा होता है, तो हम चरण 1 में की गई कल्पनाओं पर पुनःविचार करते हैं और कुछ अन्य कारकों को लेकर जिन्हें पहले नहीं लिया गया था, इन्हें वास्तविक बना देते हैं।

उदाहरण के लिए चरण 3 में हमने मछलियों की कुल संख्या का एक आकलन प्राप्त किया था, यह झील में उपस्थित मछलियों की वास्तविक संख्या नहीं भी हो सकती है। अब

हम यह देखते हैं कि चरण 2 और 3 को कुछ बार दोहराने पर प्राप्त किए गए परिणामों का माध्य लेने पर हमें कुल संख्या का उत्तम आकलन प्राप्त होता है या नहीं इससे मछलियों की संख्या का एक उत्तम आकलन प्राप्त हो जाएगा।

गणितीय निर्दर्शन प्रक्रम को देखने की एक अन्य विधि आकृति A2.1 में दिखाई गई है।



### आकृति A2.1

हल की सरलता बनाए रखने के लिए, निर्दशक सरलीकरण और परिशुद्धता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। वे आशा करते हैं कि सन्निकट वास्तविकता के इतने निकट हो, कि कुछ प्रगति हो सके। सर्वोत्तम परिणाम वह होता है जिससे यह प्रागुक्ति की जा सके कि आगे क्या होगा या जिससे सामान्य परिशुद्धता के साथ परिणाम का आकलन किया जा सके। स्मरण रहे कि समस्या को सरल बनाने के संबंध में हमारे द्वारा की गई भिन्न-भिन्न

कल्पनाओं से भिन्न-भिन्न निर्दर्श प्राप्त हो सकते हैं। अतः कोई भी निर्दर्श परिपूर्ण नहीं होता। कुछ उत्तम या इससे भी कुछ बेहतर निर्दर्श हो सकते हैं।

### प्रश्नावली A2.1

#### 1. निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए।

तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में लियोनार्ड फिबोनाची ने एक प्रश्न किया कि उस स्थिति में कितने खरगोश हो जाएँगे जबकि आप ने केवल दो खरगोशों से प्रारंभ किया था और यहाँ यह मान लीजिए कि एक जोड़ा खरगोश हर महीने शिशुओं का एक जोड़ा पैदा करता है और खरगोश का प्रत्येक जोड़ा अपना पहला शिशु दो महीने की आयु पर पैदा करता है। माह-प्रति-माह खरगोशों के जोड़ों की संख्या शून्य और पहले महीने को छोड़कर पिछले दो महीने में खरगोशों का योग होता है।

महीना	खरगोशों के जोड़े
0	1
1	1
2	2
3	3
4	5
5	8
6	13
7	21
8	34
9	55
10	89
11	144
12	233
13	377
14	610
15	987
16	1597

ठीक 16 महीने बाद आपके पास खरगोशों के लगभग 1600 जोड़े प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में समस्या का और गणितीय निर्दर्शन के विभिन्न चरणों का स्पष्ट कथन दीजिए।

### A2.3 कुछ दृष्टांत

आइए अब हम गणितीय निर्दर्शन के कुछ उदाहरण लें।

**उदाहरण 1 (एक जोड़ा पासा फेंकना):** मान लीजिए आपकी अध्यापिका आपको अनुमान लगाने के निम्नलिखित खेल की चुनौती देती है। इस खेल में वह एक जोड़ा पासा फेंकेगी। पासा फेंके जाने से पहले आपको यह अनुमान लगाना होता है कि पासों पर आई संख्याओं का योग क्या होगा। सही उत्तर होने पर आपको दो पाइंट मिलेंगे और गलत उत्तर होने पर आपके दो पाइंट कट जाएँगे। कौन-सी संख्याएँ सर्वोत्तम अनुमान होंगी?

**हल:**

**चरण 1 (समस्या समझना) :** आपको कुछ ऐसी संख्याओं का ज्ञात होना आवश्यक होता है जिनका पासों पर आने का संयोग अधिक होता है।

**चरण 2 (गणितीय विवरण) :** गणितीय रूप में यह समस्या पासों पर आई संख्याओं के विभिन्न संभव योगों की प्रायिकताएँ ज्ञात करने में परिवर्तित हो जाती है।

निम्नलिखित 36 संख्या-युग्मों में से एक यादृच्छिक विकल्प के रूप में व्यक्त करके हम अत्यधिक सरल रूप में स्थिति का निर्दर्शन कर सकते हैं।

(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

प्रत्येक युग्म की पहली संख्या पहले पासे पर आने वाली संख्या होती है और दूसरी संख्या दूसरे पासे पर आने वाली संख्या होती है।

**चरण 3 (गणितीय समस्या को हल करना):** ऊपर के प्रत्येक युग्म की संख्याओं को जोड़ने पर संभावित योग के रूप में हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 प्राप्त होते हैं। यह मानकर कि सभी 36 युग्म सम-संभावी (equally likely) हैं, हमें इनमें से प्रत्येक की

प्रायिकता ज्ञात करनी होती है।

इसे हम निम्नलिखित सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं:

योग	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रायिकता	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

यहाँ आप यह पाते हैं कि 7 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता  $\frac{1}{6}$  है जो कि अन्य संख्याओं को योग के रूप में प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है।

**चरण 4 (हल का निर्वचन)** क्योंकि योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता अधिकतम है, इसलिए आपको संख्या सात का अनुमान बार-बार लगाना चाहिए।

**चरण 5 (निर्दर्श का मान्यकरण)** एक जोड़ा पासों को अनेक बार उछालिए और एक सापेक्ष बारंबारता सारणी बनाइए। सापेक्ष बारंबारताओं की तुलना संगत प्रायिकताओं से कीजिए। यदि ये एक-दूसरे के निकट न हो, तो ऐसी स्थिति में पासे संभवतः अभिनत (biased) होंगे। तब, उस संख्या का मान निकालने के लिए हम आँकड़े प्राप्त कर सकते हैं जिस पर अभिनत है।

अगला उदाहरण लेने से पहले हमें इसकी कुछ पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक होता है।

अनेक लोगों के साथ यह सामान्य अनुभव होता है कि जब उन्हें धनराशि की आवश्यकता होती है, उनके पास आवश्यक धनराशि नहीं होती। दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने या आराम की वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें धनराशि की आवश्यकता होती है। स्कूटर, रेफ्रीजरेटर, टेलीविजन, कार आदि जैसी वस्तुओं को खरीदने के संबंध में सीमित निधि वाले ग्राहकों के लिए व्यापारियों ने किस्त योजना नामक एक योजना चलाई है।

कभी-कभी इन वस्तुओं को खरीदने के संबंध में ग्राहकों को लुभाने के लिए एक विक्रेता विपणन तकनीक के अंतर्गत किस्त योजना चलाता है। किस्त योजना के अंतर्गत वस्तु खरीदते समय ग्राहक को एक समय में पूरा भुगतान नहीं करना होता। वस्तु खरीदते समय उसे वस्तु की कीमत के एक अंश का ही भुगतान करना होता है और शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है जो कि मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक हो सकती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि किस्त योजना के अंतर्गत खरीदार को कुछ अधिक राशि का भुगतान करना होता है। क्योंकि बाद की तिथियों में (जिसे आस्थिगत भुगतान (deferrd payment) कहा जाता है) भुगतान किए जाने के कारण विक्रेता कुछ ब्याज वसूल करता है।

किस्त योजना को अच्छी तरह समझने से संबंधित कुछ उदाहरण लेने से पहले आइए हम इस संकल्पना से संबंधित बार-बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समझ लें।

एक वस्तु की नकद कीमत वह धनराशि होती है जिसका भुगतान ग्राहक को वस्तु खरीदते समय करना होता है।

**टिप्पणी:** यदि भुगतान योजना ऐसी हो कि शेष धनराशि का पूरा भुगतान एक वर्ष के अंदर ही कर दिया जाता हो, तब ऐसी स्थिति में आस्थिगत भुगतान पर साधारण ब्याज लगाया जाता है।

पुराने समय में ऋण के रूप में ली गई राशि पर लगाए गए ब्याज को प्रायः अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि ऐसा करना वर्जित माना जाता था। ब्याज के भुगतान से संबंधित कानून से बचने की एक विधि यह थी कि ऋण एक मुद्रा में लिया जाता था और भुगतान दूसरी मुद्रा में किया जाता था और इस तरह ब्याज विनियम दर छिप जाता था।

आइए अब हम एक संबंधित गणितीय निर्दर्शन समस्या पर विचार करें।

**उदाहरण 2:** जूही एक साइकिल खरीदना चाहती है। इसके लिए वह बाज़ार जाती है और पाती है कि जो साइकिल वह खरीदना चाहती है उसकी कीमत ₹ 1800 है। जूही के पास ₹ 600 हैं। अतः वह दुकानदार को यह बताती है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि वह इस समय साइकिल खरीद सके। थोड़ा बहुत हिसाब लगाने के बाद वह जूही को यह बताता है कि ₹ 600 नकद देकर और शेष धनराशि ₹ 610 की दो मासिक किस्त देकर वह साइकिल खरीद सकती है। अब जूही के सामने दो विकल्प बचे रहते हैं। या तो वह किस्त योजना को मान ले या बैंक से ऋण लेकर जो कि 10% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उपलब्ध है, नकद भुगतान कर दे तो बताइए कि आर्थिक दृष्टि से कौन-सा विकल्प अधिक उत्तम होगा?

**हल :**

**चरण 1 (समस्या समझना):** जूही को यह निर्धारित करना है कि वह दुकानदार द्वारा दिए गए विकल्प को मान ले या नहीं। इसके लिए उसे यह चाहिए कि वह दो ब्याज-दरों से परिचित हो जाए, एक तो वह जो कि किस्त योजना में लगाया जाता है और दूसरा वह जो ब्याज बैंक लगाता है (अर्थात् 10%)।

**चरण 2 (गणितीय विवरण):** योजना को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उसे बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज-दर की तुलना में दुकानदार द्वारा दी जाने वाली ब्याज-दर को देखना होता है। ध्यान रहे कि चौंकि पूरी धनराशि का भुगतान एक वर्ष के अंदर-अंदर करना है,

इसलिए राशि पर साधारण ब्याज ही देना होगा।

हम जानते हैं कि साइकिल की नकद कीमत = ₹ 1800

और किस्त योजना के अंतर्गत नकद भुगतान = ₹ 600

अतः शेष कीमत जिसका भुगतान किस्त योजना के अंतर्गत करना है = ₹ (1800 – 600)  
= ₹ 1200

मान लीजिए दुकानदार द्वारा लिया जाने वाला वार्षिक ब्याज दर  $r\%$  है।

प्रत्येक किस्त की धनराशि = ₹ 610

किस्तों में भुगतान की जाने वाली धनराशि = ₹ 610 + ₹ 610 = ₹ 1220

किस्त योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाने वाला ब्याज = ₹ 1220 – ₹ 1200 = ₹ 20 (1)

क्योंकि जूही एक महीने तक ₹ 1200 अपने पास रखती है, इसलिए

पहले महीने का मूलधन = ₹ 1200

दूसरे महीने का मूलधन = ₹ (1200 – 610) = ₹ 590

दूसरे महीने के मूलधन की शेष राशि ₹ 590 + लगाया गया ब्याज ₹ 20 = मासिक किश्त ₹ 610  
= दूसरी किश्त।

अतः एक महीने का कुल मूलधन = ₹ 1200 + ₹ 590 = ₹ 1790

$$\text{अब } \text{ब्याज} = ₹ \frac{1790 \times r \times 1}{100 \times 12} \quad (2)$$

**चरण 3:** (समस्या हल करना) : (1) और (2) से हमें यह प्राप्त होता है

$$\frac{1790 \times r \times 1}{100 \times 12} = 20$$

$$\text{या } r = \frac{20 \times 1200}{1790} = 13.14 \text{ (लगभग)}$$

**चरण 4:** (हल का निर्वचन) : किश्त योजना के अंतर्गत लगाया गया ब्याज दर = 13.14 %.

बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज दर = 10%


अतः साइकिल खरीदने के लिए उसे बैंक से ऋण लेना अधिक पसंद करना चाहिए क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह अधिक उत्तम है।

**चरण 5 (निर्दर्श का मान्यकरण)** इस स्थिति में इस चरण का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि संख्याएँ नियत हैं। फिर भी, बैंक से ऋण लेने के संबंध में स्टैंप पेपर की लागत जैसी औपचारिकताएँ निभाने के कारण प्रभावी ब्याज दर, यदि किस्त योजना की ब्याज दर से अधिक हो जाता है तो वह अपनी राय बदल भी सकती है।

**टिप्पणी :** अभी भी ब्याज दर का निर्दर्शन अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी भी मान्यकरण वित्तीय बाजार की एक समस्या है। यदि किस्त नियत करने में भिन्न-भिन्न ब्याज दर निर्गमित किया गया हो, तब मान्यकरण एक महत्वपूर्ण समस्या हो जाता है।

### प्रश्नावली A2.2

नीचे दी गई प्रत्येक समस्या में समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय निर्दर्शन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाइए।

1. एक ऑर्निथॉलॉजिस्ट एक बड़े क्षेत्र में तोतों की संख्या आकलित करना चाहती है। इनमें से कुछ को पकड़ने के लिए वह एक जाल बिछाती है और 32 तोते पकड़ लेती है, जिन्हें वह रिंग पहनाकर आज़ाद छोड़ देती है। अगले सप्ताह में वह 40 तोतों के लिए जाल बिछाती है जिनमें 8 रिंगित हो जाते हैं।
  - (i) उसके दूसरे पकड़ का कितना अंश रिंगित होता है?
  - (ii) क्षेत्र में तोतों की कुल संख्या का एक आकलन ज्ञात कीजिए।
2. मान लीजिए संलग्न आकृति एक जंगल के एक हवाई जहाज से खीचीं गई फोटो को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक बिंदु एक पेड़ निरूपित करता है। आपका उद्देश्य पर्यावरण सर्वेक्षण के एक अंश के रूप में इस मार्ग पर पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है।
 
3. एक टी. वी. को या तो ₹ 24000 नकद देकर या ₹ 8000 नकद और ₹ 2800 की छ: मासिक किस्तों में भुगतान करके खरीदा जा सकता है। एक टी. वी. खरीदने के लिए अली बाज़ार जाता है और इसके लिए उसके पास ₹ 8000 हैं। इस समय उसके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि वह किस्त योजना के अंतर्गत टी. वी. खरीदे और दूसरा विकल्प यह है कि किसी वित्तीय सोसाइटी से ऋण लेकर नकद भुगतान

### आकृति A2.2

करके टी. वी. खरीदे। सोसाइटी 18% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज लगाती है। अली के लिए कौन-सा विकल्प अधिक उत्तम है?

#### A2.4 गणितीय निर्दर्शन का महत्व क्यों है?

जैसाकि हमने उदाहरणों में देखा है कि गणितीय निर्दर्शन एक आंतर विषय शाखा है। इसमें गणितज्ञ और अन्य विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञ वर्तमान उत्पादों में सुधार लाने, उत्तम उत्पाद विकसित करने या कुछ उत्पादों के व्यवहार की प्रागुक्ति करने में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का सहयोग देते हैं।

यूँ तो निर्दर्शन का महत्वपूर्ण होने के अनेक विशेष कारण हैं परंतु किसी न किसी रूप में अधिकांश कारणों का संबंध निम्नलिखित से होता है :

- समझदारी बढ़ाना : यदि एक ऐसा गणितीय निर्दर्श हो जो वास्तविक जगत से जुड़े तंत्र के अनिवार्य व्यवहार को प्रदर्शित करता हो, तो निर्दर्श का विश्लेषण करके हम तंत्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और, निर्दर्श का निर्माण करते समय ही हम यह पता लगा लेते हैं कि तंत्र में कौन-कौन कारक अधिक महत्वपूर्ण हैं और तंत्र की भिन्न-भिन्न पहलू एक-दूसरे के साथ किस प्रकार संबंधित हैं।
- प्रागुक्ति या पूर्वानुमान या अनुकरण करना : प्रायः हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तविक जगत से जुड़े तंत्र का भविष्य में क्या महत्व है, परंतु तंत्र के साथ सीधा प्रयोग करना खर्चीला, अव्यावहारिक या असंभव होता है। उदाहरण के लिए, मौसम की प्रागुक्ति के लिए, मानव में औषधि-दक्षता का अध्ययन करने, एक न्यूक्लीयर रिएक्टर का इष्टतम अभिकलन ज्ञात करना, आदि-आदि।

अनेक प्रकार के संगठनों में पूर्वानुमान लगाने का अधिक महत्व होता है, क्योंकि निर्णयन में भावी घटनाओं की प्रागुक्तियों को निगमित करना होता है। उदाहरण के लिए:

- विपणन विभागों में माँग के विश्वसनीय पूर्वानुमान बिक्री संबंधी तकनीकों की योजना बनाने में सहायक होते हैं।
- स्कूल बोर्ड को विभिन्न ज़िलों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में हो रही वृद्धि का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है, जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि कहाँ और कब नए स्कूल खोले जा सकें।

प्रायः भविष्य की प्रागुक्ति करने के लिए पूर्वानुमान लगाने वाले पिछले ऑक्टोबरों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो उस प्रतिरूप को पहचानने के लिए ऑक्टोबरों का

विश्लेषण करते हैं जो इसका वर्णन कर सके। तब पूर्वानुमान लगाने के लिए इन आँकड़ों और प्रतिरूप का प्रयोग भविष्य में किया जाता है। इस आधारभूत रणनीति का प्रयोग अधिकांश पूर्वानुमान तकनीकों में किया जाता है और यह इस कल्पना पर आधारित होता है कि वह प्रतिरूप जिसे पहचान लिया गया है, भविष्य में भी लागू होता रहेगा।

- आकलन करना : प्रायः हमें बड़े मानों का आकलन करना होता है। इस संबंध में जंगल में वृक्षों, झील में मछलियों आदि से संबंधित उदाहरण आप देख चुके हैं। एक अन्य उदाहरण के रूप में, चुनाव के पहले चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियाँ चुनाव में अपनी पार्टी के जीतने की प्रायिकता की प्रागुक्ति करना चाहती हैं। विशेष रूप से वे इस बात का आकलन करना चाहती हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कितने लोग उनकी पार्टी को वोट देंगे। अपनी प्रागुक्ति के अनुसार अपने चुनाव अभियान की रणनीति के बारे में निर्णय ले सकते हैं। चुनाव में, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी प्रागुक्ति करने के लिए निर्गम मतानुमान (exit polls) का व्यापक प्रयोग किया जाता है।

### प्रश्नावली A2.3

1. पिछले पाँच वर्षों के आँकड़ों के आधार पर वर्ष के अंत में दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में आपके स्कूल द्वारा गणित में प्राप्त किए जाने वाले औसत प्रतिशत अंकों का पूर्वानुमान लगाइए।

### A2.5 सारांश

इस परिशिष्ट में, आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है:

1. एक गणितीय निर्दर्श वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थिति का गणितीय विवरण होता है। गणितीय निर्दर्शन वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने और इसे प्रयोग करने के लिए गणितीय निर्दर्श का निर्माण करने का प्रक्रम है।
2. निर्दर्शन में निम्नलिखित चरण लागू किए जाते हैं : समस्या समझना, गणितीय निर्दर्श का सूत्रण, इसे हल करना, वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थिति में इसका निर्वाचन करना और अंत में अति महत्वपूर्ण निर्दर्श का मान्यकरण।
3. कुछ गणितीय निर्दर्श विकसित करना।
4. गणितीय निर्दर्शन का महत्व।

## उत्तर/संकेत

### प्रश्नावली 1.1

1. (i)  $2^2 \times 5 \times 7$       (ii)  $2^2 \times 3 \times 13$       (iii)  $3^2 \times 5^2 \times 17$   
(iv)  $5 \times 7 \times 11 \times 13$       (v)  $17 \times 19 \times 23$
2. (i) LCM = 182; HCF = 13      (ii) LCM = 23460; HCF = 2      (iii) LCM = 3024; HCF = 6
3. (i) LCM = 420; HCF = 3      (ii) LCM = 11339; HCF = 1      (iii) LCM = 1800; HCF = 1
4. 22338      7. 36 मिनट

### प्रश्नावली 2.1

1. (i) कोई शून्यक नहीं      (ii) 1      (iii) 3      (iv) 2      (v) 4      (vi) 3

### प्रश्नावली 2.2

1. (i)  $-2, 4$       (ii)  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$       (iii)  $-\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$   
(iv)  $-2, 0$       (v)  $-\sqrt{15}, \sqrt{15}$       (vi)  $-1, \frac{4}{3}$
2. (i)  $4x^2 - x - 4$       (ii)  $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$       (iii)  $x^2 + \sqrt{5}$   
(iv)  $x^2 - x + 1$       (v)  $4x^2 + x + 1$       (vi)  $x^2 - 4x + 1$

### प्रश्नावली 3.1

1. (i) रैखिक समीकरणों का वांछित युग्म है :

$x + y = 10; x - y = 4$ , जहाँ  $x$  लड़कियों की संख्या है तथा  $y$  लड़कों की संख्या है।

ग्राफीय हल के लिए ग्राफ पेपर पर एक ही अक्ष को लेते हुए इन समीकरणों का ग्राफ खींचिए।

लड़कियाँ = 7, लड़के = 3.

- (ii) रैखिक समीकरणों का वांछित युग्म है:

$5x + 7y = 50$ ;  $7x + 5y = 46$ , जहाँ  $x$  और  $y$  क्रमशः एक पेंसिल और एक कलम के मूल्य (₹ में) हैं।

ग्राफीय हल के लिए ग्राफ पेपर पर समान अक्षों को लेते हुए इन समीकरणों का ग्राफ खींचिए।

एक पेंसिल का मूल्य = ₹ 3, एक कलम का मूल्य = ₹ 5

2. (i) एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। (ii) संपाती (iii) समांतर

3. (i) संगत (ii) असंगत (iii) संगत  
(iv) संगत (v) संगत

4. (i) संगत (ii) असंगत (iii) संगत (iv) असंगत

उपरोक्त (i) का हल,  $y = 5 - x$  द्वारा प्रदत्त है, जहाँ  $x$  का कोई भी मान हो सकता है। अर्थात् अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।

उपरोक्त (iii) का हल  $x = 2, y = 2$  है अर्थात् अद्वितीय हल है।



## प्रश्नावली 3.2

- (v)  $11x - 9y + 4 = 0, 6x - 5y + 3 = 0$ , जहाँ  $x$  और  $y$  क्रमशः भिन्न के अंश और हर हैं;  $\frac{7}{9} (x = 7, y = 9)$ ।
- (vi)  $x - 3y - 10 = 0, x - 7y + 30 = 0$ , जहाँ  $x$  और  $y$  क्रमशः जैकब और उसके पुत्र की वर्षों में आयु हैं;  $x = 40, y = 10$ .

### प्रश्नावली 3.3

1. (i)  $x = \frac{19}{5}, y = \frac{6}{5}$  (ii)  $x = 2, y = 1$  (iii)  $x = \frac{9}{13}, y = -\frac{5}{13}$ ,  
(iv)  $x = 2, y = -3$
2. (i)  $x - y + 2 = 0, 2x - y - 1 = 0$ , जहाँ  $x$  और  $y$  भिन्न के अंश और हर हैं;  $\frac{3}{5}$ .  
(ii)  $x - 3y + 10 = 0, x - 2y - 10 = 0$ , जहाँ  $x$  और  $y$  क्रमशः नूरी और सोनू की उम्र (वर्षों में) हैं। नूरी की उम्र ( $x$ ) = 50, सोनू की उम्र ( $y$ ) = 20.  
(iii)  $x + y = 9, 8x - y = 0$ , जहाँ  $x$  और  $y$  क्रमशः संख्या के दहाई और इकाई के अंक हैं; 18.  
(iv)  $x + 2y = 40, x + y = 25$ , जहाँ  $x$  और  $y$  क्रमशः ₹ 50 और ₹ 100 के नोटों की संख्याएँ हैं;  $x = 10, y = 15$ .  
(v)  $x + 4y = 27, x + 2y = 21$ , जहाँ  $x$  नियत भाड़ा (₹ में) है और  $y$  अतिरिक्त भाड़ा (₹ में) प्रतिदिन का है;  $x = 15, y = 3$ .

### प्रश्नावली 4.1

1. (i) हाँ (ii) हाँ (iii) नहीं (iv) हाँ  
(v) हाँ (vi) नहीं (vii) नहीं (viii) हाँ
2. (i)  $2x^2 + x - 528 = 0$ , जहाँ  $x$  (मीटर में) भूखंड की चौड़ाई है।  
(ii)  $x^2 + x - 306 = 0$ , जहाँ  $x$  लघुतर पूर्णक है।  
(iii)  $x^2 + 32x - 273 = 0$ , जहाँ  $x$  (वर्षों में) रोहन की वर्तमान आयु है।  
(iv)  $u^2 - 8u - 1280 = 0$ , जहाँ  $u$  (km/h में) ट्रेन की चाल है।

### प्रश्नावली 4.2

1. (i)  $-2, 5$  (ii)  $-2, \frac{3}{2}$  (iii)  $-\frac{5}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}$

- (iv)  $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$  (v)  $\frac{1}{10}, \frac{1}{10}$
2. (i) 9, 36 (ii) 25, 30
3. संख्याएँ 13 और 14 हैं। 4. धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं।
5. 5 cm और 12 cm 6. वस्तुओं की संख्या = 6, प्रत्येक वस्तु का मूल्य = ₹ 15

### प्रश्नावली 4.3

1. (i) वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। (ii) बराबर मूल;  $\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}$   
 (iii) विभिन्न मूल;  $\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$
2. (i)  $k = \pm 2\sqrt{6}$  (ii)  $k = 6$
3. हाँ; 40 m, 20 m. 4. नहीं 5. हाँ; 20 m, 20 m

### प्रश्नावली 5.1

1. (i) हाँ; 15, 23, 31, ... एक A.P. बनाते हैं क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है।  
 (ii) नहीं, आयतन  $V$ ,  $\frac{3V}{4}, \left(\frac{3}{4}\right)^2 V, \dots$  है। (iii) हाँ; 150, 200, 250, ... एक A.P. बनाते हैं।  
 (iv) नहीं, राशियाँ  $10000 \left(1 + \frac{8}{100}\right), 10000 \left(1 + \frac{8}{100}\right)^2, 10000 \left(1 + \frac{8}{100}\right)^3, \dots$  हैं।
2. (i) 10, 20, 30, 40 (ii) -2, -2, -2, -2 (iii) 4, 1, -2, -5  
 (iv)  $-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}$  (v)  $-1.25, -1.50, -1.75, -2.0$
3. (i)  $a = 3, d = -2$  (ii)  $a = -5, d = 4$   
 (iii)  $a = \frac{1}{3}, d = \frac{4}{3}$  (iv)  $a = 0.6, d = 1.1$
4. (i) नहीं (ii) हाँ,  $d = \frac{1}{2}; 4, \frac{9}{2}, 5$   
 (iii) हाँ,  $d = -2; -9.2, -11.2, -13.2$  (iv) हाँ,  $d = 4; 6, 10, 14$

(v) हाँ,  $d = \sqrt{2}; 3 + 4\sqrt{2}, 3 + 5\sqrt{2}, 3 + 6\sqrt{2}$  (vi) नहीं

(vii) हाँ,  $d = -4; -16, -20, -24$  (viii) हाँ,  $d = 0; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

(ix) नहीं (x) हाँ,  $d = a; 5a, 6a, 7a$

(xi) नहीं (xii) हाँ,  $d = \sqrt{2}; \sqrt{50}, \sqrt{72}, \sqrt{98}$

(xiii) नहीं (xiv) नहीं (xv) हाँ,  $d = 24; 97, 121, 145$

### प्रश्नावली 5.2

1. (i)  $a_n = 28$  (ii)  $d = 2$  (iii)  $a = 46$  (iv)  $n = 10$  (v)  $a_n = 3.5$

2. (i) C (ii) B

3. (i)  $\boxed{14}$  (ii)  $\boxed{18}, \boxed{8}$  (iii)  $\boxed{6\frac{1}{2}}, \boxed{8}$

(iv)  $\boxed{-2}, \boxed{0}, \boxed{2}, \boxed{4}$  (v)  $\boxed{53}, \boxed{23}, \boxed{8}, \boxed{-7}$

4. 16वाँ पद

5. (i) 34 (ii) 27

6. नहीं

7. 178

8. 64

9. 5वाँ पद

10. 1

11. 65वाँ पद

12. 100

13. 128

14. 60

15. 13

16. 4, 10, 16, 22, ...

17. अंतिम पद से 20वाँ पद 158 है।

18.  $-13, -8, -3$

19. 11वाँ वर्ष

20. 10

### प्रश्नावली 5.3

1. (i) 245 (ii)  $-180$  (iii) 5505 (iv)  $\frac{33}{20}$

2. (i)  $1046\frac{1}{2}$  (ii) 286 (iii)  $-8930$

3. (i)  $n = 16, S_n = 440$  (ii)  $d = \frac{7}{3}, S_{13} = 273$  (iii)  $a = 4, S_{12} = 246$

(iv)  $d = -1, a_{10} = 8$

(v)  $a = -\frac{35}{3}, a_9 = \frac{85}{3}$

(vi)  $n = 5, a_n = 34$

(vii)  $n = 6, d = \frac{54}{5}$

(viii)  $n = 7, a = -8$

(ix)  $d = 6$

(x)  $a = 4$

4. 12. सूत्र  $S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$  में  $a = 9, d = 8, S = 636$  रखने पर हम द्विघात समीकरण  $4n^2 + 5n - 636 = 0$  प्राप्त करते हैं। हल करने पर मूल  $n = -\frac{53}{4}, 12$  पाते हैं। इन दोनों मूलों में केवल एक मूल 12 ही स्वीकार्य है।

5.  $n = 16, d = \frac{8}{3}$

6.  $n = 38, S = 6973$

7. योग = 1661

8.  $S_{51} = 5610$

9.  $n^2$

10. (i)  $S_{15} = 525$  (ii)  $S_{15} = -465$

11.  $S_1 = 3, S_2 = 4; a_2 = S_2 - S_1 = 1; S_3 = 3, a_3 = S_3 - S_2 = -1,$   
 $a_{10} = S_{10} - S_9 = -15; a_n = S_n - S_{n-1} = 5 - 2n.$

12. 4920

13. 960

14. 625

15. ₹ 27750

16. पुरस्कारों का मूल्य (₹ में) 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 है।

17. 234

18. 143 cm

19. 16 पक्कियाँ, 5 लट्ठों को सबसे ऊपरी पक्कित में रखते हैं।  $S = 200, a = 20, d = -1$  सूत्र

$S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$  में रखने पर हम  $41n - n^2 = 400$  प्राप्त करते हैं। हल करने पर  $n = 16, 25$  है। अतः पक्कियों की संख्या 16 या 25 है। अब  $a_{25} = a + 24d = -4$  अर्थात् 25 वीं पक्कित में लट्ठों की संख्या  $-4$  है जो संभव नहीं है। अतः  $n = 25$  संभव नहीं है।  $n = 16$  के लिए  $a_{16} = 5$ . अतः 16 पक्कियाँ हैं और सबसे ऊपर वाली पक्कित में 5 लट्ठे रखे हैं।

20. 370m

### प्रश्नावली 5.4 (ऐच्छिक)\*

1. 32वाँ पद

2.  $S_{16} = 20, 76$

3. 385 cm

4. 35

5.  $750 \text{ m}^3$

### प्रश्नावली 6.1

1. (i) समरूप

(ii) समरूप

(iii) समबाहु

(iv) बराबर, समानुपाती

3. नहीं

प्रश्नावली 6.2



प्रश्नावली 6.3



प्रश्नावली 7.1

1. (i)  $2\sqrt{2}$       (ii)  $4\sqrt{2}$       (iii)  $2\sqrt{a^2 + b^2}$   
2. 39; 39 km      3. नहीं      4. हाँ      5. चम्पा सही है।  
6. (i) वर्ग      (ii) चतुर्भुज नहीं है      (iii) समांतर चतुर्भुज  
7.  $(-7, 0)$       8.  $-9, 3$       9.  $\pm 4$ ,  $QR = \sqrt{41}$ ,  $PR = \sqrt{82}$ ,  $9\sqrt{2}$   
10.  $3x + y - 5 = 0$

प्रश्नावली 7.2

1.  $(1, 3)$       2.  $\left(2, -\frac{5}{3}\right); \left(0, -\frac{7}{3}\right)$

3.  $\sqrt{61}$  m; 5वीं रेखा में 22.5 m दूरी पर      4.  $2:7$

5.  $1:1; \left(-\frac{3}{2}, 0\right)$       6.  $x=6, y=3$       7.  $(3, -10)$

8.  $\left(-\frac{2}{7}, -\frac{20}{7}\right)$       9.  $\left(-1, \frac{7}{2}\right), (0, 5), \left(1, \frac{13}{2}\right)$       10. 24 वर्ग मात्रक

### प्रश्नावली 8.1

1. (i)  $\sin A = \frac{7}{25}$ ,  $\cos A = \frac{24}{25}$       (ii)  $\sin C = \frac{24}{25}$ ,  $\cos C = \frac{7}{25}$
2. 0      3.  $\cos A = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ,  $\tan A = \frac{3}{\sqrt{7}}$       4.  $\sin A = \frac{15}{17}$ ,  $\sec A = \frac{17}{8}$
5.  $\sin \theta = \frac{5}{13}$ ,  $\cos \theta = \frac{12}{13}$ ,  $\tan \theta = \frac{5}{12}$ ,  $\cot \theta = \frac{12}{5}$ ,  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$
7. (i)  $\frac{49}{64}$       (ii)  $\frac{49}{64}$       8. हाँ
9. (i) 1      (ii) 0      10.  $\sin P = \frac{12}{13}$ ,  $\cos P = \frac{5}{13}$ ,  $\tan P = \frac{12}{5}$
11. (i) असत्य      (ii) सत्य      (iii) असत्य      (iv) असत्य      (v) असत्य

### प्रश्नावली 8.2

1. (i) 1      (ii) 2      (iii)  $\frac{3\sqrt{2} - \sqrt{6}}{8}$       (iv)  $\frac{43 - 24\sqrt{3}}{11}$       (v)  $\frac{67}{12}$
2. (i) A      (ii) D      (iii) A      (iv) C      3.  $\angle A = 45^\circ$ ,  $\angle B = 15^\circ$
4. (i) असत्य      (ii) सत्य      (iii) असत्य      (iv) असत्य      (v) सत्य

### प्रश्नावली 8.3

1.  $\sin A = \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 A}}$ ,  $\tan A = \frac{1}{\cot A}$ ,  $\sec A = \frac{\sqrt{1 + \cot^2 A}}{\cot A}$
2.  $\sin A = \frac{\sqrt{\sec^2 A - 1}}{\sec A}$ ,  $\cos A = \frac{1}{\sec A}$ ,  $\tan A = \sqrt{\sec^2 A - 1}$

$$\cot A = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}, \cosec A = \frac{\sec A}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}$$

3. (i) B      (ii) C      (iii) D      (iv) D

### प्रश्नावली 9.1

1.  $10\text{ m}$       2.  $8\sqrt{3}\text{ m}$       3.  $3\text{ m}, 2\sqrt{3}\text{ m}$       4.  $10\sqrt{3}\text{ m}$   
 5.  $40\sqrt{3}\text{ m}$       6.  $19\sqrt{3}\text{ m}$       7.  $20(\sqrt{3} - 1)\text{ m}$       8.  $0.8(\sqrt{3} + 1)\text{ m}$   
 9.  $16\frac{2}{3}\text{ m}$       10.  $20\sqrt{3}\text{ m}, 20\text{ m}, 60\text{ m}$       11.  $10\sqrt{3}\text{ m}, 10\text{ m}$       12.  $7(\sqrt{3} + 1)\text{ m}$   
 13.  $75(\sqrt{3} - 1)\text{ m}$       14.  $58\sqrt{3}\text{ m}$       15. 3 सेकंड

### प्रश्नावली 10.1

1. अपरिमित रूप से अनेक  
 2. (i) एक      (ii) छेदक रेखा      (iii) दो      (iv) स्पर्श बिंदु      3. D

### प्रश्नावली 10.2

1. A      2. B      3. A      6.  $3\text{ cm}$   
 7.  $8\text{ cm}$       12.  $AB = 15\text{ cm}, AC = 13\text{ cm}$

### प्रश्नावली 11.1

1.  $\frac{132}{7}\text{ cm}^2$       2.  $\frac{77}{8}\text{ cm}^2$       3.  $\frac{154}{3}\text{ cm}^2$   
 4. (i)  $28.5\text{ cm}^2$       (ii)  $235.5\text{ cm}^2$   
 5. (i)  $22\text{ cm}$       (ii)  $231\text{ cm}^2$       (iii)  $\left(231 - \frac{441\sqrt{3}}{4}\right)\text{ cm}^2$   
 6.  $20.4375\text{ cm}^2; 686.0625\text{ cm}^2$       7.  $88.44\text{ cm}^2$

8. (i)  $19.625 \text{ m}^2$       (ii)  $58.875 \text{ cm}^2$       9. (i)  $285 \text{ mm}$       (ii)  $\frac{385}{4} \text{ mm}^2$

10.  $\frac{22275}{28} \text{ cm}^2$       11.  $\frac{158125}{126} \text{ cm}^2$       12.  $189.97 \text{ km}^2$

13. ₹ 162.68      14. D

### प्रश्नावली 12.1

1.  $160 \text{ cm}^2$       2.  $572 \text{ cm}^2$       3.  $214.5 \text{ cm}^2$

4. सबसे बड़ा व्यास = 7 cm, पृष्ठीय क्षेत्रफल =  $332.5 \text{ cm}^2$

5.  $\frac{1}{4}l^2 (\pi + 24)$       6.  $220 \text{ mm}^2$       7.  $44 \text{ m}^2$ , ₹ 22000

8.  $18 \text{ cm}^2$       9.  $374 \text{ cm}^2$

### प्रश्नावली 12.2

1.  $\pi \text{ cm}^3$

2.  $66 \text{ cm}^3$ . मॉडल के अंदर की हवा का आयतन = आंतरिक हवा का आयतन (शंकु + बेलन + शंकु)  $= \left( \frac{1}{3} \pi r^2 h_1 + \pi r^2 h_2 + \frac{1}{3} \pi r^2 h_1 \right)$ , जहाँ  $r$  शंकु तथा बेलन की त्रिज्या है,  $h_1$  शंकु की ऊँचाई और  $h_2$  बेलन की ऊँचाई (लंबाई) है।

$$\text{अभीष्ट आयतन} = \frac{1}{3} \pi r^2 (h_1 + 3h_2 + h_1).$$

3.  $338 \text{ cm}^3$

4.  $523.53 \text{ cm}^3$

5. 100

6.  $892.26 \text{ kg}$

7.  $1.131 \text{ m}^3$  (लगभग)

8. सही नहीं है। सही उत्तर  $346.51 \text{ cm}^3$  है।

### प्रश्नावली 13.1

1. 8.1 पौधे। हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है क्योंकि  $x_i$  तथा  $f_i$  के संख्यात्मक मूल्य कम हैं।

2. ₹ 545.20

3.  $f=20$

4. 75.9

5. 57.19

6. ₹ 211

7. 0.099 ppm

8. 12.48 दिन

9. 69.43 %

प्रश्नावली 13.2

- बहुलक = 36.8 वर्ष, माध्य = 35.37 वर्ष। अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु (लगभग) के हैं। जब कि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.57 वर्ष है।
  - 65.625 घंटे
  - बहुलकीय मासिक खर्च = ₹ 1847.83, माध्यीय मासिक खर्च = ₹ 2662.5
  - बहुलक : 30.6, माध्य = 29.2. अधिकांश राज्यों/U.T. में छात्र और अध्यापक का अनुपात 30.6 है और औसतन यह अनुपात 29.2 है।
  - बहुलक = 4608.7 रुपये
  - बहुलक = 44.7 कार

प्रश्नावली 13.3

1. माध्यक = 137 इकाई, माध्य = 137.05 इकाई, बहुलक = 135.76 इकाई

इस स्थिति में ये तीनों मापक लगभग समान हैं।



प्रश्नावली 14.1

9. (i)  $\frac{5}{17}$       (ii)  $\frac{8}{17}$       (iii)  $\frac{13}{17}$

10. (i)  $\frac{5}{9}$       (ii)  $\frac{17}{18}$

11.  $\frac{5}{13}$

12. (i)  $\frac{1}{8}$       (ii)  $\frac{1}{2}$       (iii)  $\frac{3}{4}$       (iv) 1

13. (i)  $\frac{1}{2}$       (ii)  $\frac{1}{2}$       (iii)  $\frac{1}{2}$

14. (i)  $\frac{1}{26}$       (ii)  $\frac{3}{13}$       (iii)  $\frac{3}{26}$       (iv)  $\frac{1}{52}$       (v)  $\frac{1}{4}$       (vi)  $\frac{1}{52}$

15. (i)  $\frac{1}{5}$       (ii) (a)  $\frac{1}{4}$       (b) 0      16.  $\frac{11}{12}$

17. (i)  $\frac{1}{5}$       (ii)  $\frac{15}{19}$       18. (i)  $\frac{9}{10}$       (ii)  $\frac{1}{10}$       (iii)  $\frac{1}{5}$

19. (i)  $\frac{1}{3}$       (ii)  $\frac{1}{6}$       20.  $\frac{\pi}{24}$       21. (i)  $\frac{31}{36}$       (ii)  $\frac{5}{36}$

22. (i)	दोनों पासों पर संख्याओं का योग	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	प्रायिकता	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

(ii) नहीं। ये 11 परिणाम सम-संभावी नहीं हैं।

23.  $\frac{3}{4}$ ; संभव परिणाम हैं: HHH, TTT, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, यहाँ THH का अर्थ पहले उछाल में पट, दूसरे में चित तथा तीसरे में भी चित इत्यादि।

24. (i)  $\frac{25}{36}$       (ii)  $\frac{11}{36}$

25. (i) सत्य नहीं है। हम इस प्रकार परिणामों को वर्गीकृत कर सकते हैं परंतु वे सम-संभावी नहीं हैं क्योंकि दोनों सिक्कों को उछालने पर यह हो सकता है कि पहले पर चित और दूसरे पर पट या पहले पर पट तथा दूसरे पर चित आए। इसलिए एक पर पट तथा दूसरे पर चित आने की संभावना दोनों पर चित (या दोनों पर पट) आने की संभावनाओं का दुगुना है।

(ii) सही है। प्रश्न में विचारित दोनों परिणाम सम-संभावी हैं।

## प्रश्नावली A1.1



## प्रश्नावली A1.2

1. A नश्वर है।
  2.  $ab$  परिमेय संख्या है।
  3.  $\sqrt{17}$  का दशमलव प्रसारण अनवसानी और अनावर्ती है।
  4.  $y = 7$
  5.  $\angle A = 100^\circ, \angle C = 100^\circ, \angle D = 180^\circ$
  6. PQRS एक आयत है।
  7. हाँ, परिकल्पना के आधार पर। नहीं, क्योंकि  $\sqrt{3721} = 61$  है जो अपरिमेय नहीं है। चूँकि परिकल्पना गलत थी इसलिए निष्कर्ष असत्य है।

## प्रश्नावली A1.3

1. किसी पूर्णक  $n$  के लिए क्रमागत विषम संख्याएँ  $2n + 1$  और  $2n + 3$  लीजिए।

## प्रश्नावली A1.4

### प्रश्नावली A1.5

1. (i) यदि शरन को अधिक पसीना आता है, तो टोक्यो में गर्मी है।  
(ii) यदि शालीनी का पेट कुड़कुड़ाता है, तब वह भूखी है।  
(iii) यदि जसवंत डिग्री प्राप्त कर सकता है, तो वह छात्रवृत्ति पाता है।  
(iv) यदि पौधा जीवित है, तब इसमें फूल हैं।  
(v) यदि जानवर के पूँछ है, तब यह बिल्ली है।
2. (i) यदि त्रिभुज ABC के आधार पर बने कोण बराबर हैं तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। सत्य  
(ii) यदि किसी पूर्णांक का वर्ग विषम है तो पूर्णांक भी विषम है। सत्य  
(iii) यदि  $x = 1$ , तब  $x^2 = 1$ . सत्य  
(iv) यदि AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सत्य  
(v) यदि  $a + (b + c) = (a + b) + c$ , तब a, b और c पूर्ण संख्याएँ हैं। असत्य  
(vi) यदि  $x + y$  एक सम संख्या है तब x और y विषम संख्याएँ हैं। असत्य  
(vii) यदि समांतर चतुर्भुज एक आयत है तब इसके शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। सत्य

### प्रश्नावली A1.6

1.  $b \leq d$  के विपरीत मान लीजिए।
3. अध्याय 1 के उदाहरण 10 को देखें।
6. कक्षा IX की गणित पाठ्य पुस्तक में प्रमेय 5.1 देखें।

### प्रश्नावली A2.2

1. (i)  $\frac{1}{5}$     (ii) 160
2.  $1 \text{ cm}^2$  क्षेत्रफल लीजिए तथा इसमें बिंदुओं की संख्या गिनिए। कुल पेड़ों की संख्या इस संख्या तथा क्षेत्रफल ( $\text{cm}^2$  में) का गुणनफल होगा।
3. किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज की दर 17.74% है जो 18% से कम है।

### प्रश्नावली A2.3

1. छात्र स्वयं अपने उत्तर ज्ञात करें।